



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

रां. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 3—अप्रैल 9, 2010 (चैत्र 13, 1932)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 3—APRIL 9, 2010 (CHAITRA 13, 1932)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	521
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	269
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	453
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को	

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	847
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	1721
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	109
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक.....	*

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	521	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	269	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	453	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	847
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1721
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	109
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2010

सं. 33-प्रेज/2010--राष्ट्रपति उनकी अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'परम विशिष्ट सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं :--

1. आईसी-23689 लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) नरिंदर सिंह बरार, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
 2. आईसी-23791 लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) समर पाल सिंह ढिल्लों, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
 3. आईसी-24006 लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) प्रकाश चंद कटोच, उयुसेमे, अविसेमे, शौर्य चक्र, इन्फैन्ट्री
 4. आईसी-24194 लेफ्टिनेंट जनरल मनबीर सिंह डडवाल, अविसेमे-बार, विसेमे, इन्फैन्ट्री
 5. आईसी-24198 लेफ्टिनेंट जनरल चन्द्रोथ कुन्नुमल सुचिन्द्रा साबु, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
 6. आईसी-24219 लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह चन्देले, अविसेमे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर
 7. आईसी-24260 लेफ्टिनेंट जनरल बलराज सिंह नागल, अविसेमे, सेमे, इन्फैन्ट्री
 8. आईसी-24283 लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कुमार लुम्बा, अविसेमे, कवचित कोर
 9. आईसी-24584 लेफ्टिनेंट जनरल बलजीत सिंह जसवाल, अविसेमे-बार, विसेमे, इन्फैन्ट्री/मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान
 10. आईसी-24706 लेफ्टिनेंट जनरल कामुला रामाचन्द्र राव, अविसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
 11. आईसी-25053 लेफ्टिनेंट जनरल दलीप भारद्वाज, विसेमे, कवचित कोर
 12. आईसी-25064 लेफ्टिनेंट जनरल श्रीधरन श्याम कुमार, अविसेमे, सेमे, विसेमे, इन्फैन्ट्री
 13. आईसी-25126 लेफ्टिनेंट जनरल राजेन्द्र सिंह सुजलाना, अविसेमे, विसेमे, इन्फैन्ट्री/भारतीय सैन्य अकादमी
 14. आईसी-25213 लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश सभरवाल, अविसेमे-बार, विसेमे, इन्फैन्ट्री/मुख्यालय 15 कोर
 15. आईसी-25439 लेफ्टिनेंट जनरल विनय शर्मा, सेमे, विसेमे, इन्फैन्ट्री
 16. आईसी-25469 लेफ्टिनेंट जनरल करण सिंह यादवा, अविसेमे, सेमे, विसेमे, इन्फैन्ट्री/मुख्यालय असम राइफल महानिदेशालय
- आईसी-29915 लेफ्टिनेंट जनरल विनोद चोपड़ा, अविसेमे-बार, इन्फैन्ट्री/राष्ट्रपति सचिवालय

18. एमआर-02838 लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) ओमान पॉल मैथ्यू, अविसेमे, सेमे, सेना चिकित्सा कोर
19. एमआर-03364 लेफ्टिनेंट जनरल नरेश कुमार परमार, अविसेमे, वीर चक्र, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
20. वाइस एडमिरल संजीव भसीन, अविसेमे, विसेमे, (01248-के)
21. वाइस एडमिरल के एन सुशील, अविसेमे, नौमे (01369-के)
22. वाइस एडमिरल दिलीप देशपांडे, अविसेमे, विसेमे, (40385-एच(सेवानिवृत्त))
23. एयर मार्शल ज्योति नारायण बर्मा, अविसेमे, विसेमे (13219) प्रशासन
24. एयर मार्शल वेंकटरामन रामामूर्ति अय्यर, अविसेमे (12939) उड़ान (पायलट)
25. एयर मार्शल तेजवीर सिंह रंधावा, वामे (12947) उड़ान (पायलट)
26. एयर मार्शल नोरमन अनिल कुमार ब्राउन, अविसेमे, वामे (13129) उड़ान (पायलट)
27. एयर मार्शल केशव मूर्ति रामा सुंदरा, अविसेमे, विसेमे (12833), वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)
28. एयर मार्शल प्रमोद वसंत आठवले, अविसेमे, विसेमे (13472), वैमानिकी इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 34-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति युद्ध के दौरान उनके अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'उत्तम युद्ध सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-25538 लेफ्टिनेंट जनरल रविन्द्रन कृष्णा स्वामी, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 16 कोर
2. आईसी-25816 लेफ्टिनेंट जनरल बिक्रम सिंह, अविसेमे, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 15 कोर
3. आईसी-25901 लेफ्टिनेंट जनरल परनाईक कैवल्य त्रिविक्रम, युसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 4 कोर
4. आईसी-30766 मेजर जनरल वेंकटेश सिद्धलिंगप्पा सोमना गौदार, अविसेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय प्रतिविद्रोहिता बल (किलो)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 35-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए आईसी-25457 लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार अहलुवालिया, अविसेमे, युसेमे, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 14 कोर को 'अति विशिष्ट सेवा मेडल का बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 36-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'अति विशिष्ट सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-24654 लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
2. आईसी-25056 लेफ्टिनेंट जनरल इंद्रजीत सिंह, विसेमे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स कोर/इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल इंजीनियरिंग मिलिटरी कॉलेज, सिकन्दराबाद
3. आईसी-25141 लेफ्टिनेंट जनरल दीपक राज, सेमे, इन्फैंट्री/आर्मी वार कॉलेज
4. आईसी-25442 लेफ्टिनेंट जनरल स्वतंत्रता नंद हांडा, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमान
5. आईसी-25646 लेफ्टिनेंट जनरल विरेंदर सिंह टोंक, इन्फैंट्री/मुख्यालय 11 कोर
6. आईसी-25825 लेफ्टिनेंट जनरल चेतेंदर सिंह, सेमे, विसेमे, कवचित कोर/मुख्यालय 2 कोर
7. आईसी-27038 लेफ्टिनेंट जनरल आनन्द मोहन वर्मा, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 1-2 कोर
8. आईसी-27146 लेफ्टिनेंट जनरल उमा शंकर प्रसाद सिन्हा, विसेमे, इंजीनियर्स कोर/मिलिटरी इंजीनियरिंग कॉलेज, पूणे
9. आईसी-27325 लेफ्टिनेंट जनरल राजेश कोछड़, सेमे, विसेमे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर
10. एमआर-02985 लेफ्टिनेंट जनरल शिव राम मेहता, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/ सेना चिकित्सा कोर केंद्र एवं स्कूल, लखनऊ
11. एमआर-03814 लेफ्टिनेंट जनरल शिव कुमार शर्मा, सेमे, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर (सेवानिवृत्त)
12. वी-00330 लेफ्टिनेंट जनरल जय कृष्ण श्रीवास्तव, रिमाउंट वेटरीनेरी कोर/ रिमाउंट वेटरीनेरी कोर केंद्र एवं कॉलेज
13. आईसी-25280 मेजर जनरल अशोक वासुदेव तस्कर, सेमे, जज एडवोकेट जनरल विभाग
14. आईसी-25409 मेजर जनरल शुजान गोपाल चटर्जी, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट/पुनर्वास महानिदेशालय
15. आईसी-25815 मेजर जनरल गुरदीप सिंह, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय असम राइफल महानिदेशालय
16. आईसी-27213 मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विकास कपूर, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
17. आईसी-27619 मेजर जनरल हरदेव सिंह, कीर्ति चक्र, इन्फैंट्री/मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमान
18. आईसी-30052 मेजर जनरल ब्रिजिन्द्र सिंह दौलता, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय उत्तर भारत एरिया
19. आईसी-30076 मेजर जनरल सर्थीश चन्द्रा नायर, विसेमे, इन्फैंट्री
20. आईसी-30137 मेजर जनरल सुखराज पाल कोछड़, सेमे, विसेमे, सिगनल कोर
21. आईसी-30351 मेजर जनरल दलबीर सिंह, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 8 पर्वतीय डिवीजन

22. आईसी-30389 मेजर जनरल संजीव चाचरा, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 17 पर्वतीय डिवीजन
23. आईसी-30485 मेजर जनरल उमंग सेठी, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय उत्तरी कमान
24. आईसी-30571 मेजर जनरल राजीव दत्त, विसेमे, इंजीनियर्स कोर
25. आईसी-30682 मेजर जनरल मानवेन्द्र सिंह, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 5 पर्वतीय डिवीजन
26. आईसी-30687 मेजर जनरल संजीव लांगर, कवचित कोर/मुख्यालय 11 इन्फैंट्री डिवीजन
27. आईसी-30998 मेजर जनरल सुमेर सिंह, इन्फैंट्री/मुख्यालय 4 इन्फैंट्री डिवीजन
28. आईसी-33450 मेजर जनरल दर्शन लाल चौधरी, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री
29. आईसी-33520, मेजर जनरल किशन सिंह, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय दक्षिणी कमान
30. आईसी-33919 मेजर जनरल राम सिंह प्रधान, सेमे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 25 इन्फैंट्री डिवीजन
31. 36046 मेजर जनरल प्रीतम सिंह छिब, सेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय 29 इन्फैंट्री डिवीजन
32. वाइस एडमिरल पारस नाथ, विसेमे, (02373-टी)
33. वाइस एडमिरल प्रदीप कुमार चटर्जी, नौमे, (01701-आर)
34. वाइस एडमिरल अनुराग गोपालन थपलियाल, (01773-बी)
35. रियर एडमिरल रामन प्रभात, विसेमे, (50456-वाई)
36. रियर एडमिरल दिनेश प्रभाकर, नौमे, विसेमे, (40493-बी)
37. रियर एडमिरल चन्द्र शेखर पाथम, (01660-वाई)
38. कमोडोर (सेवानिवृत्त) रणवीर सिंह, नौमे, विसेमे, (01708-एफ)
39. एयर मार्शल सिम्हाकुट्टी वर्तमान, वामे, विसेमे (13606) उड़ान (पायलट)
40. एयर मार्शल जोसफ नेरी, विसेमे (13711) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रानिकी)
41. एयर वाइस मार्शल जलबीर सिंह बोपाराय, विसेमे (13108) परिभारिकी
42. एयर वाइस मार्शल (सेवानिवृत्त) सेलम सुन्दर राम गुणाशेखर, विसेमे, (13487) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिक)
43. एयर वाइस मार्शल दिनेश मुकुन्दन, विसेमे (13508) प्रशासन/एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
44. एयर वाइस मार्शल प्रिय रंजन शर्मा (13927) उड़ान (पायलट)
45. एयर वाइस मार्शल अनिल कुमार बहल (14446) चिकित्सा
46. एयर वाइस मार्शल अजित शंकरराव भोंसले, विसेमे (15327) उड़ान (नेवीगेटर)
47. एयर कमोडोर पूर्ण चंद्र ग्रोवर, विसेमे (14400) प्रशासन/लीगल
48. एयर कमोडोर रमेश गोयल, विसेमे, (14567) उड़ान (पायलट)
49. एयर कमोडोर कुलवंत सिंह गिल, युसेमे, वामे (15220) उड़ान (पायलट)
50. एयर कमोडोर श्रीधर पाणिकर राधाकृष्णन नायर, वामे (16040) उड़ान (पायलट)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 37-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति युद्ध के दौरान उनकी अति असाधारण कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'युद्ध सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-30697 मेजर जनरल संजय वामन भिडे, विसेमे, इन्फैंट्री/मुख्यालय प्रतिविद्रोहिता बल (डेल्टा)
2. आईसी-35160 ब्रिगेडियर अश्वनी कुमार सिवाच, विसेमे, जम्मू-कश्मीर राइफल/मुख्यालय 53 इन्फैंट्री ब्रिगेड
3. आईसी-35697 ब्रिगेडियर प्रीतिन्दर सिंह मंडेर, पंजाब रेजिमेंट/मुख्यालय 10 सेक्टर असम राइफल
4. आईसी-35901 ब्रिगेडियर अनिल कुमार सिंह सेंगर, ब्रिगेड ऑफ दि गाइड्स/मुख्यालय 8 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
5. आईसी-35912 ब्रिगेडियर पाटिल सम्पतराव पांडुरंग, असम रेजिमेंट/मुख्यालय 1 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
6. आईसी-37546 ब्रिगेडियर विजय पाल, राजपूताना राइफल/मुख्यालय 68 पर्वतीय ब्रिगेड
7. आईसी-38363 ब्रिगेडियर महिवाल यादविन्द्र सिंह, शौर्य चक्र, डोगरा रेजिमेंट, मुख्यालय 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल ..
8. आईसी-38654 ब्रिगेडियर देवराज अम्बु, सेमे, सिख लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 53 इन्फैंट्री ब्रिगेड
9. आईसी-38674 ब्रिगेडियर बलबीर सिंह, जाट रेजिमेंट/मुख्यालय 26 सेक्टर असम राइफल
10. आईसी-38812 ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार सिंह, सेमे, विसेमे, राजपूत रेजिमेंट/मुख्यालय 7 सेक्टर, असम राइफल
11. आईसी-38952 ब्रिगेडियर अविनाश सिंह, 5/3 गोरखा राइफल/मुख्यालय 102 इन्फैंट्री ब्रिगेड
12. आईसी-39083 ब्रिगेडियर संजय कुमार झा, सेमे, सिख रेजिमेंट/मुख्यालय 9 सेक्टर असम राइफल
13. आईसी-39098 ब्रिगेडियर गुरप्रताप सिंह ढिल्लों, सेमे, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 73 पर्वतीय ब्रिगेड
14. आईसी-39185 ब्रिगेडियर अजय कुमार शर्मा, सेमे, सिख रेजिमेंट/मुख्यालय 77 पर्वतीय ब्रिगेड
15. आईसी-49184 कर्नल विजयन्त यादव, 10 पैराचूट रेजिमेंट (विशेष बल)
16. आईसी-49545 कर्नल मनप्रीत सिंह बेंस, शौर्य चक्र, सेमे, 9 पैराचूट रेजिमेंट (विशेष बल)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 38-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'विशिष्ट सेवा मेडल-बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-31917 मेजर जनरल सुरिन्द्र मोहन मेहता, सेमे, विसेमे, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स
2. आईसी-35183 ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह, विसेमे, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय दिल्ली एरिया

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 39-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'विशिष्ट सेवा मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-25078 मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) रविन्द्र कुमार सान्नन, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर
2. आईसी-25473 मेजर जनरल बलजीत सिंह ग्रेवाल, कवचित कोर/राष्ट्रीय रक्षा अकादमी
3. आईसी 25648 मेजर जनरल अश्वनी कुमार रेखी, तोपखाना रेजिमेंट/एससीसी, भोपाल
4. आईसी-25812 मेजर जनरल सुब्रमनियण रवी शंकर, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
5. आईसी-25903 मेजर जनरल सरबजीत सिंह पवार, इन्फैंट्री/मुख्यालय 3 कोर
6. आईसी-27628 मेजर जनरल अशोक शेरोन, कवचित कोर/कवचित कोर केंद्र एवं स्कूल
7. आईसी-30380 मेजर जनरल नागेश्वर सिंह विद्यार्थी, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 40 तोपखाना डिवीजन
8. आईसी-30400 मेजर जनरल अभिनव श्रीवास्तव, सेना वायु रक्षा
9. आईसी-30407 मेजर जनरल मधुकर नारायण काशीद, तोपखाना रेजिमेंट
10. आईसी-30521 मेजर जनरल सतीश कुमार विजेश्वर, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 9 इन्फैंट्री डिवीजन
11. आईसी-30745 मेजर जनरल रंजन चंद, इन्फैंट्री/मुख्यालय 1 कवचित डिवीजन
12. आईसी-31559 मेजर जनरल सन्दीप कुमार, सेना शिक्षा कोर
13. आईसी-31635 मेजर जनरल यशवंत सांगरा, तोपखाना रेजिमेंट
14. आईसी-33454 मेजर जनरल ओम प्रकाश सोनी, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 41 तोपखाना डिवीजन
15. आईसी-33734 मेजर जनरल अमरदीप सिंह ग्रेवाल, इन्फैंट्री/मुख्यालय प्रति विद्रोहिता बल (अल्टीमेट)
16. आईसी-36638 मेजर जनरल अशोक कुमार श्रीवास्तव, सिगनल कोर
17. आईसी-36711 मेजर जनरल सुब्बाराव नरसिम्हा, इंजीनियर्स कोर
18. एमआर-03516 मेजर जनरल मन्दीप सिंह, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
19. एमआर-04089 मेजर जनरल बली राम झा, सेना चिकित्सा कोर

21. आईसी-34648 मेजर जनरल सुरेश चन्द्र जैन, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर/इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स स्कूल, वडोदरा
22. आईसी-30033 ब्रिगेडियर सुबोध कौल, बिहार रेजिमेंट/प्रशिक्षण केंद्र, मुख्यालय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड
23. आईसी-31335 ब्रिगेडियर हरिन्द्र सिंह ढिल्लों, डोगरा रेजिमेंट/राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय
24. आईसी-31640 मेजर जनरल रमेश कुमार राणा, सेमे, राजपूताना राइफल
25. एमआर-03738 मेजर जनरल अजित सिंह नरूला, सेना चिकित्सा कोर/ बेस अस्पताल, दिल्ली छावनी
26. आईसी-31724 ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार कौशिक, पैराच्यूट रेजिमेंट/इन्फैंट्री स्कूल, मऊ
27. आईसी-31736 ब्रिगेडियर राजीव भल्ला, सेमे, जाट रेजिमेंट
28. आईसी-34080 ब्रिगेडियर पुथेनपूरेकल चाको आइपे, कवचित कोर
29. आईसी-35111 ब्रिगेडियर रंजन कुमार सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट/राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय
30. आईसी-35581 ब्रिगेडियर चन्द्र प्रकाश, तोपखाना रेजिमेंट
31. आईसी-37593 ब्रिगेडियर साईरस अडी पिथावाला, अशोक चक्र, जम्मू-कश्मीर राइफल, 3 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
32. आईसी-38234 ब्रिगेडियर विजय कुमार सुब्बा एन्टोनी, सेना वायु रक्षा
33. आईसी-38266 ब्रिगेडियर सुरिंदर सिंह, ब्रिगेड ऑफ दि गार्ड्स/मुख्यालय 180 कवचित ब्रिगेड
34. आईसी-38342 ब्रिगेडियर राकेश प्रताप सिंह भदौरिया, राजपूताना राइफल/मुख्यालय 63 पर्वतीय ब्रिगेड
35. आईसी-38377 ब्रिगेडियर पंकज सिन्हा, सेमे, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 11 पर्वतीय ब्रिगेड
36. आईसी-38397 ब्रिगेडियर नरेश कुमार मेहता, सेना आयुध कोर/केंद्रीय आयुध डिपो, आगरा
37. आईसी-38494 ब्रिगेडियर अनिल खोसला, सेमे, कुमाऊं रेजिमेंट/मुख्यालय 108 पर्वतीय ब्रिगेड
38. आईसी-38722 ब्रिगेडियर चेरिश मेथसन, सेमे, गढ़वाल राइफल/मुख्यालय 91 इन्फैंट्री ब्रिगेड
39. आईसी-39110 ब्रिगेडियर सोमनाथ झा, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 114 इन्फैंट्री ब्रिगेड
40. आईसी-39280 ब्रिगेडियर मनोज कुमार, इंजीनियर्स कोर/बंगाल इंजीनियर ग्रुप एवं केंद्र, रुड़की
41. आईसी-39848 ब्रिगेडियर बिभूति भूषण, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर/1 इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स केन्द्र

42. आईसी-40703 ब्रिगेडियर हरपाल सिंह, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय पश्चिम नेवल कमान
43. आईसी-40748 ब्रिगेडियर हरि कृष्ण अरोड़ा, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय मुख्य अभियंता दिल्ली जोन
44. एमआर-03687 ब्रिगेडियर मनोज लूथरा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
45. एमआर-03869 ब्रिगेडियर अखिल कुमार नागपाल, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे
46. एमआर-03934 ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार पटनायक, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय
47. एमआर-04006 ब्रिगेडियर वेद प्रकाश चतुर्वेदी, सेना चिकित्सा कोर/151 बेस अस्पताल
48. एनआर-15331 ब्रिगेडियर अरूजा डैलिस, सेना नर्सिंग सर्विस, मुख्यालय उत्तरी कमान
49. आईसी-40818 कर्नल रामबीर सिंह मान, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
50. आईसी-41131 कर्नल प्रेम प्रसाद मलहोत्रा, इंजीनियर्स कोर
51. आईसी-41464 कर्नल तेजपाल सिंह रावत, इंजीनियर्स कोर
52. आईसी-41530 कर्नल मन्दीप सिंह, तोपखाना रेजिमेंट
53. आईसी-41934 कर्नल सुनील पूरी गोस्वामी, सेना वायु रक्षा
54. आईसी-42387 कर्नल सुरिन्दर सिंह महल, कवचित कोर
55. आईसी-42774 कर्नल प्रणव कुमार जयसवाल, राजपूताना राइफल
56. आईसी-42837 कर्नल गुरविन्दर सिंह भण्डारी, सेना वायु रक्षा
57. आईसी-44275 कर्नल परमपाट रमेश, तोपखाना रेजिमेंट
58. आईसी-45435 कर्नल राम निवास, राजपूत रेजिमेंट
59. आईसी-47263 कर्नल राजीव ठाकुर, सेमे, मराठा लाइट इन्फैंट्री
60. आईसी-47999 कर्नल सन्दीप भल्ला, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर/सेना मुख्यालय स्टेटिक वर्कशाप ईएमई
61. आईसी-48145 कर्नल गोपाल वर्मा, इंटेलीजेंस कोर
62. आईसी-48248 कर्नल हन्नी बक्शी, इंटेलीजेंस कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान काउंटर इंटेलीजेंस यूनिट
63. आईसी-50292 कर्नल राजेश सिंह, 58 इंजीनियर रेजिमेंट
64. आईसी-50750 कर्नल राजीव सिंह रावत, 21 बटालियन पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
65. एमआर-04164 कर्नल प्रदीप कुमार सिंह, सेना चिकित्सा कोर/मुख्यालय पूर्वी कमान
66. एमआर-04808 कर्नल अनिल कुमार धर, सेना चिकित्सा कोर/ सेना अस्पताल (आर एंड आर)

67. एमआर-04889 कर्नल प्रशान्त भारद्वाज, सेना चिकित्सा कोर/कमान अस्पताल, उत्तरी कमान
68. आईसी-48933 लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश कुमार ए, इंजीनियर्स कोर/26 भारतीय अंटार्कटिक अभियान
69. आईसी-51169 लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित मेहता, कवचित कोर
70. आईसी-52987 लेफ्टिनेंट कर्नल महाबीर सिंह चौहान, 14 डोगरा रेजिमेंट
71. आईसी-53170 लेफ्टिनेंट कर्नल मन्दीप ग्रेवाल, सेना सेवा कोर
72. एमआर-06750 लेफ्टिनेंट कर्नल संजय कुमार मिश्रा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
73. आईसी-65167 मेजर नूनालेपम बुद्धिमन्ता सिंह, कीर्ति चक्र, सेमे, 32 असम राइफल
74. टीए-42382 मेजर विशाल बक्शी, 150 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) पंजाब
75. रियर एडमिरल गुरतेज सिंह पब्बी, (40869-एच)
76. कमोडोर सतीश बजाज, (02259-एच)
77. कमोडोर रत्नाकर घोष, (40815-के)
78. कमोडोर अजय कुमार सक्सेना, (50763-डब्ल्यू)
79. कमोडोर एम आर अजय कुमार, (02025-ए)
80. कमोडोर अरूण कुमार बहल, (50693-के)
81. कमोडोर एस वी आर मूर्ति, (02476-ए)
82. कमोडोर मुरलीधर सदाशिव पवार, (02483-टी)
83. सर्जन कमोडोर चारू चंद्रा वर्मा, (75288-एच)
84. कैप्टन सुरेश कुमार ग्रेवाल (02756-एन)
85. कैप्टन राधाकृष्णन हरी कुमार, (02540-वाई)
86. सर्जन कमांडर नलिन कुमार महेश (75424-टी)
87. कमांडर अरविंद वदेरा, (51162-ए)
88. कमांडर संजय कुमार सिंह कादियन, (03265-डब्ल्यू)
89. कमांडर के वी राधाकृष्णन, (02733-के)
90. राकेश कुमार, एम सी पी ओ II सीडी I, (167087-डब्ल्यू)
91. एयर कमोडोर अमित देव (16972) उड़ान (पायलट)
92. एयर कमोडोर अरूण कुमार पॉल (15955) वैमानिक इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी)
93. एयर कमोडोर त्रिपथ पाल सिंह ढिल्लों (16215) उड़ान (पायलट)
94. एयर कमोडोर कालिन्दा अप्पया मुथन्ना (16372) उड़ान (पायलट)
95. एयर कमोडोर थाजाथुपुलिकुनेल देवसिया जोसफ, वामे, (16964) उड़ान (पायलट)
- ग्रुप कैप्टन नवीन जैन (16642) प्रशासन
96. ग्रुप कैप्टन प्रदीप कुमार मुखर्जी (15381) लेखा
97. ग्रुप कैप्टन अरूणाभ सेनगुप्ता (15916) प्रशासन/फाइटर कंट्रोलर
98. ग्रुप कैप्टन जितेन्द्र कुमार सिंह, (16545) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
99. ग्रुप कैप्टन नवीन जैन (16642) प्रशासन
100. ग्रुप कैप्टन संजीव कुमार मित्तल (17051) प्रशासन

101. ग्रुप कैप्टन अरूण कुमार बारिक (17122) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
102. ग्रुप कैप्टन सुधांशु सक्सेना (17278) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
103. ग्रुप कैप्टन सुनील पड़ेगांवकर (17279) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
104. ग्रुप कैप्टन मानस चटर्जी (17356) उड़ान (पायलट)
105. ग्रुप कैप्टन राजन सूद (17378) प्रशासन
106. ग्रुप कैप्टन राकेश कुमार रनयाल (17402) चिकित्सा
107. ग्रुप कैप्टन गुरचरन सिंह बेदी, वामे (17448) उड़ान (पायलट)
108. ग्रुप कैप्टन प्रमोद मधुकर पुराणिक (17652), वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
109. ग्रुप कैप्टन राजेन्द्र नरसिंहराव गायकवाड (17845) उड़ान (पायलट)
110. ग्रुप कैप्टन बासावाराज महादेवप्पा कन्नुर (18201) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
111. ग्रुप कैप्टन जतिन्द्र सिंह बेदी (17491) प्रशासन/एयर ट्रेफिक कंट्रोलर
112. ग्रुप कैप्टन भारतेन्द्र सिंह (19874) उड़ान (पायलट)
113. विंग कमांडर विस्वजीत बोस (19086) वैमानिक इंजीनियरी (यांत्रिकी)
114. विंग कमांडर अतुल गर्ग (19653) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रॉनिकी)
115. विंग कमांडर कौस्तुभ आपटे (22234) परिभारिकी
116. विंग कमांडर विश्व विक्रम सिंह (23825) परिभारिकी
117. आईसी-38304 ब्रिगेडियर मन मोहन सिंह भारज, इंजीनियर्स कोर
118. 683957 वारंट अफसर कोटारातिल चंद्रशेखरन परमेश्वरन, रेडार फिटर
119. जीओ-1993 डब्ल्यू एसई (सिविल) राम कुमार धीमन

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 40-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-56676 मेजर देवेन्द्र चौधरी, सेमे, सेना सेवा कोर/29 राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-58745 मेजर सोरब कलगांवकर, सेमे, पंजाब रेजिमेंट, 22 राष्ट्रीय राइफल
3. एसएस-41628 कैप्टन जोनाधन ऐलगजैडर, सेमे, 4 सिख लाइट इन्फैंट्री

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 41-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'सेना मेडल/आर्मी मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-54454 लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार अहलावत, सेना आयुध कोर/मुख्यालय 15 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-55210 लेफ्टिनेंट कर्नल राघवेन्द्र सिंह चौहान, ग्रेनेडियर्स/29 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-55397 लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद कुमार छाँकर, 3 सिख रेजिमेंट
4. आईसी-55717 मेजर शशि कुमार राणा, तोपखाना रेजिमेंट/318 फील्ड रेजिमेंट
5. आईसी-55854 मेजर संजय सिंह, इंटेलीजेंस कोर/4 इंटेलीजेंस एंड सर्विलेंस यूनिट
6. आईसी-55937 मेजर अजय दाधिच, तोपखाना रेजिमेंट/172 फील्ड रेजिमेंट
7. आईसी-56061 मेजर हरि बहादुर थापा, 6 गढ़वाल राइफल
8. आईसी-58063 मेजर नवदीप कादियान, गोरखा राइफल/28 असम राइफल
9. आईसी-58140 मेजर अतुल बहुगुना, ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स/21 राष्ट्रीय राइफल
10. आईसी-60446 मेजर नविंद्र सिंह मान, बिहार रेजिमेंट/63 राष्ट्रीय राइफल
11. आईसी-60510 मेजर कुमार अमित, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/9 राष्ट्रीय राइफल
12. आईसी-61613 मेजर प्रीतिंदर सिंह चौहान, मराठा लाइट इन्फैंट्री/41 राष्ट्रीय राइफल
13. आईसी-61749 मेजर समीर मधवाल, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
14. आईसी-62403 मेजर गुरिन्दर सिंह, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
15. आईसी-62441 मेजर मन्दीप सिंह राई, सिगनल कोर/7 असम राइफल
16. आईसी-62656 मेजर रुचिर कुमार आनन्द, जाट रेजिमेंट/61 राष्ट्रीय राइफल
17. आईसी-62659 मेजर सुनील कुमार, सेना वायु रक्षा/10 राष्ट्रीय राइफल
18. आईसी-62921 मेजर कंवर तरूण भरगुवार, सेना सेवा कोर/9 राष्ट्रीय राइफल
19. आईसी-62982 मेजर प्रशांत कुमार सिंह, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
20. आईसी-63439 मेजर अमित महाजन, तोपखाना रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल
21. आईसी-64011 मेजर आर विजय आनन्द, मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री/26 राष्ट्रीय राइफल
22. आईसी-64192 मेजर दण्डू विजय रेड्डी, बिहार रेजिमेंट/47 राष्ट्रीय राइफल
23. आईसी-64361 मेजर हेमचन्द्र पंजाबराव भूसकट, इंजीनियर्स कोर/47 राष्ट्रीय राइफल
24. आईसी-65727 मेजर प्रग्या वर्मा, बिहार रेजिमेंट/4 राष्ट्रीय राइफल
25. आईसी-66829 मेजर रामानी रूषिकेश वल्लभभाई, 23 पंजाब रेजिमेंट (मरणोपरांत)
26. आईसी-67323 मेजर नीरज रावत, इंजीनियर्स कोर/34 असम राइफल
27. आईसी-67353 मेजर रजनीश कुमार पटयाल, सिगनल कोर/53 राष्ट्रीय राइफल
28. आईसी-67461 मेजर प्रकाश कुमार सिंह, 12 महार रेजिमेंट
29. एसएस-41275 मेजर अशोक कुमार तिवारी, 8 ग्रेनेडियर्स
30. एसएस-41875 मेजर अमित कुमार यादव, तोपखाना रेजिमेंट/12 महार रेजिमेंट
31. आईसी-63897 कैप्टन राघवेन्द्र पृथ्वीराज सालगर, ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स/61 राष्ट्रीय राइफल

32. आईसी-64395 कैप्टर बसन्त सेवडा, कवचित कोर/8 राष्ट्रीय राइफल
33. आईसी-64455 कैप्टन अम्बुज रॉय, 11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
34. आईसी-64695 कैप्टन सुमित गुप्ता, सिगनल कोर/13 राष्ट्रीय राइफल
35. आईसी-66835 कैप्टन पटेल कल्पेश कुमार बाबू भाई, असम रेजिमेंट/59 राष्ट्रीय राइफल
36. आईसी-67187 कैप्टन सन्दीप श्रीधरन, मराठा लाइट इन्फैंट्री/39 असम राइफल
37. आईसी-67795 कैप्टन अभिलव शर्मा, सिगनल कोर/11 राष्ट्रीय राइफल
38. आईसी-68482 कैप्टन क्रिशन सिंह रावत, 1 पैराचूट रेजिमेंट (विशेष बल)
39. आईसी-68917 कैप्टन राजीव रंजन झा, इंटेलीजेंस कोर/4 राजपूत रेजिमेंट
40. एसएस-41231 कैप्टन राकेश कुमार शर्मा, डोगरा रेजिमेंट/39 असम राइफल
41. एसएस-41523 कैप्टन कृष्णा कांत बाजपेय, 6 राजपूत रेजिमेंट
42. एसएस-41834 कैप्टन किशोर कुमार, तोपखाना रेजिमेंट, 172 फील्ड रेजिमेंट
43. एसएस-42200 कैप्टन अनबामुथन मुथूस्वामी पलानिस्वामी, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
44. एसएस-42288 कैप्टन लाल अरूण श्याम, 4 कुमाऊं रेजिमेंट
45. एसएस-42398 कैप्टन चेतन शर्मा, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स/3 कुमाऊं रेजिमेंट
46. आईसी-69465 लेफ्टिनेंट विवेकानन्द कुमार, सेना आयुध कोर/12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
47. आईसी-69721 लेफ्टिनेंट अश्वनी सिंह, सेना आयुध कोर/11 मराठा लाइट इन्फैंट्री
48. आईसी-69744 लेफ्टिनेंट संदीप रामप्पा होसल्ली, तोपखाना रेजिमेंट, 172 फील्ड रेजिमेंट
49. आईसी-69782 लेफ्टिनेंट मोहित तिवारी, सेना सेवा कोर/8 ग्रेनेडियर्स
50. आईसी-69859 लेफ्टिनेंट विक्रम सिंह, सेना सेवा कोर/12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
51. आईसी-69946 लेफ्टिनेंट भगवत निलेश मारुती, 23 पंजाब रेजिमेंट
52. आईसी-70070 लेफ्टिनेंट भोसले आदित्या शिवाजीराव, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर/2 बिहार रेजिमेंट
53. आईसी-70317 लेफ्टिनेंट अशीष नेगी, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स कोर/14 महार रेजिमेंट
54. आईसी-70434 लेफ्टिनेंट सत्येन्द्र सिंह, इंटेलीजेंस कोर/5 राजपूताना राइफल
55. एससी-00574 लेफ्टिनेंट मोहन चन्द्र, 4 कुमाऊं रेजिमेंट
56. एआर-236 डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद अफान फारूकी, 44 असम राइफल
57. जेसी-65186 सूबेदार पसांग तमांग, 44 असम राइफल

58. जेसी-412899 सूबेदार इन्द्र सिंह, 1 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
59. जेसी-412921 सूबेदार कुलतार सिंह राणा, 9 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
60. जेसी-520470 सूबेदार बिरबल, डोगरा रेजिमेंट/11 राष्ट्रीय राइफल
61. जेसी-569886 सूबेदार दाल चन्द, 12 महार रेजिमेंट (मरणोपरांत)
62. जेसी-जी/3600016 सूबेदार सर्वण कुमार, 36 असम राइफल (मरणोपरांत)
63. जेसी-271846 नायब सूबेदार राजबीर सिंह, तोपखाना रेजिमेंट/65 फील्ड रेजिमेंट
64. 1577662 हवलदार मन्जीत सिंह, 120 इंजीनियर रेजिमेंट (मरणोपरांत)
65. 2686534 हवलदार जसवन्त सिंह, 8 ग्रेनेडियर्स
66. 2790350 हवलदार बिराजदार सन्तोष शिवाजी, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
67. 3185907 हवलदार मुकेश, 11 जाट रेजिमेंट
68. 5753209 हवलदार तिल बहादुर दर्लामी, 4/8 गोरखा राइफल
69. 15126202 हवलदार रामवरन यादव, तोपखाना रेजिमेंट/172 फील्ड रेजिमेंट
70. जी/3900262 हवलदार यम नाथ मैनाली, 39 असम रेजिमेंट
71. 2992996 लांस हवलदार साहब सिंह, 4 राजपूत रेजिमेंट
72. 3188645 लांस हवलदार परविन्द्र सिंह, 11 जाट रेजिमेंट
73. 5754136 लांस हवलदार श्याम बहादुर के सी, 4/8 गोरखा राइफल
74. 15478664 लांस दफादार अजीत सिंह, कर्चकित कोर/55 राष्ट्रीय राइफल
75. 2489279 नायक कुलबीर सिंह, पंजाब रेजिमेंट/37 राष्ट्रीय राइफल
76. 2689126 नायक राजेन्द्र सिंह सोलंकी, 8 ग्रेनेडियर्स
77. 3993796 नायक किशोरी लाल, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राइफल
78. 4190955 नायक खुशाल सिंह, कुमाऊं रेजिमेंट/13 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
79. 4271343 नायक रन्जीत कुमार, 12 बिहार रेजिमेंट
80. 4365118 नायक बंधिअन लोवंग, असम रेजिमेंट/59 राष्ट्रीय राइफल
81. 4365834 नायक तेमजेनचुबा, असम रेजिमेंट/59 राष्ट्रीय राइफल
82. 14428691 नायक किर्शोन कुमार, तोपखाना रेजिमेंट/12 महार रेजिमेंट
83. 4079334 लांस नायक सतेन्द्र सिंह रावत, 8 गढ़वाल राइफल
84. 4081991 लांस नायक प्रदीप सिंह, गढ़वाल राइफल/14 राष्ट्रीय राइफल
85. 4191870 लांस नायक रन्जीत सिंह भाटिया, 4 कुमाऊं रेजिमेंट
86. 9103752 लांस नायक किफायत हूसैन लोन, 9 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
87. 12944281 लांस नायक रमेश कुमार, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/11 राष्ट्रीय राइफल
88. 12944519 लांस नायक विनोद कुमार, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/26 राष्ट्रीय राइफल
89. 13622322 लांस नायक प्रेम चन्द कुमार सिंह, 21 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
90. 13623292 लांस नायक भरत सिंह, 21 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)

91. 13623479 लांस नायक भूपेन्द्रा सिंह, 21 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
92. 13623578 लांस नायक राजेश कुमार, 1 पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)
93. 13763334 लांस नायक विपिन गुरुंग, 17 जम्मू-कश्मीर राइफल
94. 2492929 सिपाही जगतार सिंह, 23 पंजाब रेजिमेंट (मरणोपरांत)
95. 2802427 सिपाही निंगाराजू बी आर, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
96. 2802666 सिपाही सबाले सचिन भीकोबा, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
97. 2804765 सिपाही शिमानी रौत, मराठा लाइट इन्फैंट्री/56 राष्ट्रीय राइफल
98. 2805150 सिपाही सचिन अंकुश काले, 5 मराठा लाइट इन्फैंट्री
99. 3401521 सिपाही सतविन्द्र सिंह, 3 सिख रेजिमेंट
100. 3402385 सिपाही बिक्रमजीत सिंह, 8 सिख रेजिमेंट
101. 4004845 सिपाही राज कुमार, डोगरा रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राइफल
102. 4483238 सिपाही हरपाल सिंह, 4 सिख लाइट इन्फैंट्री
103. 4573819 सिपाही परमार महेश भाई भीका भाई, 12 महार रेजिमेंट (मरणोपरांत)
104. 12914524 सिपाही मोहम्मद इब्राहिम, 156 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) पंजाब/59 राष्ट्रीय राइफल
105. 12944144 सिपाही दयानन्द, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/10 राष्ट्रीय राइफल
106. 12944158 सिपाही युसफ अली, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/10 राष्ट्रीय राइफल
107. 12944845 सिपाही सब्दर हुसैन, 159 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच) डोगरा/26 राष्ट्रीय राइफल
108. 13765329 राइफलमैन गणेश कुमार, 12 जम्मू-कश्मीर राइफल
109. 16013574 राइफलमैन बृज मोहन सिंह, राजपूताना राइफल/9 राष्ट्रीय राइफल
110. 16014793 राइफलमैन राज कुमार सिंह, 11 राजपूताना राइफल
111. 16017160 राइफलमैन वकील अहमद, राजपूताना राइफल/18 राष्ट्रीय राइफल
112. जी/3601062 राइफलमैन हेमराज ठाकुर, 36 असम राइफल
113. 15571084 सैपर भौसले महेश शामाराओ, इंजीनियर्स कोर/47 राष्ट्रीय राइफल
114. 15615931 गाड्समैन सुनील कुमार, 10 ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स (मरणोपरांत)
115. 15619278 गाड्समैन शीश राम, 11 ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स
116. 14449728 गन्नर इस्लामुद्दिन लस्कर, तोपखाना रेजिमेंट/62 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
117. 2695460 ग्रेनेडियर अमित सिंह, 8 ग्रेनेडियर्स
118. 15496646 सवार सुखविन्द्र सिंह, कवचित कोर/8 राष्ट्रीय राइफल

बरूण मित्रा

संयुक्त सचिव

संख्या 42-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'नौसेना मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. लेफ्टिनेंट विकास दहिया, (05578-ए)
2. यामचोल सिंह, एलएससीडी II (124094-एच)
3. जयदेव, एलएससीडी II (131762-के)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 43-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण साहसपूर्ण कार्यों के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'वायुसेना मेडल/एयर फोर्स मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. विंग कमांडर अजय कौल (19960) उड़ान (पायलट)
2. विंग कमांडर ऋजू कोछड़ (22975) उड़ान (पायलट)
3. स्क्वाड्रन लीडर अनूप सिंह (26716) उड़ान (पायलट)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 44-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'सेना मेडल/आर्मी मेडल का बार' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-35965 ब्रिगेडियर राजेन्द्र रामराव निमभोरकर, सेमे, विसेमे, पंजाब रेजिमेंट/मुख्यालय 80 इन्फैंट्री ब्रिगेड
2. आईसी-49541 कर्नल अर्जुन सेगन, सेमे, पैराच्यूट रेजिमेंट (विशेष बल)/20 राष्ट्रीय राइफल

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 45-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'सेना मेडल/आर्मी मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. आईसी-27761 मेजर जनरल चन्द्र प्रकाश, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट
2. आईसी-30143 मेजर जनरल अरूण कुमार चढ़ा, सिगनल कोर/मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ
3. आईसी-30507 मेजर जनरल संजीव चोपड़ा, इन्फैंट्री/मुख्यालय 20 पर्वतीय डिवीजन
4. आईसी-30701 मेजर जनरल परनायक अभय त्रिविक्रम, विसेमे, इंजीनियर्स कोर/मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी कमान
5. आईसी-33903 मेजर जनरल गुरपाल सिंह बल, विसेमे, कवचित कोर/मुख्यालय 36 रेपिड
6. एमआर-03301 मेजर जनरल गोपालकृष्णन रामदास, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल (आर एंड आर)
7. एमआर-03471 मेजर जनरल गौतम रविन्द्रनाथ, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना चिकित्सा कॉलेज, पुणे
8. आईसी-31633 मेजर जनरल अरूण कुमार साहनी, विसेमे, तोपखाना रेजिमेंट/मुख्यालय 84 इन्फैंट्री ब्रिगेड
9. आईसी-31705 ब्रिगेडियर संदीप सिंह, विसेमे, जम्मू-कश्मीर राइफल
10. आईसी-31719 ब्रिगेडियर विरेन्द्र मोहन कालिया, तोपखाना रेजिमेंट
11. आईसी-35246 ब्रिगेडियर जगमोहन वर्मा, विसेमे, डोगरा रेजिमेंट/हाई एल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल
12. आईसी-35487 ब्रिगेडियर नरिन्दर पाल सिंह हीरा, सिख लाइट इन्फैंट्री/मुख्यालय 12 ब्रिगेड
13. आईसी-35501 ब्रिगेडियर मुथन्ना कोदेंद्रा अर्जुन, गढ़वाल राइफल/मुख्यालय 10 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल
14. आईसी-35515 ब्रिगेडियर भबानी एस दास, कुमाऊं रेजिमेंट/मुख्यालय 192 पर्वतीय ब्रिगेड
15. आईसी-35953 ब्रिगेडियर अविनाश लक्ष्मन चवन, 6/11 गोरखा राइफल/मुख्यालय 104 इन्फैंट्री ब्रिगेड
16. आईसी-38403 ब्रिगेडियर शौकीन चौहान, विसेमे, गोरखा रेजिमेंट/मुख्यालय 70 इन्फैंट्री ब्रिगेड

17. आईसी-38704 ब्रिगेडियर अनिल कुमार सिंह, पंजाब रेजिमेंट/मुख्यालय 5 सेक्टर असम राइफल
18. ब्रिगेडियर अशोक आम्ब्रे, मराठा लाइट इन्फैंट्री, मुख्यालय 190 पर्वतीय ब्रिगेड
19. आईसी-38784 ब्रिगेडियर अनिल प्रताप राय, विसेमे, राजपूत रेजिमेंट/मुख्यालय 23 सेक्टर असम राइफल
20. आईसी-39070 ब्रिगेडियर रणबीर सिंह, युसेमे, डोगरा रेजिमेंट/मुख्यालय 181 पर्वतीय ब्रिगेड
21. आईसी-39117 ब्रिगेडियर भूपेन्द्र सिंह सहरावत, कुमाऊं रेजिमेंट/मुख्यालय 71 पर्वतीय ब्रिगेड
22. एमआर-03909 ब्रिगेडियर लेख राम शर्मा, विसेमे, सेना चिकित्सा कोर/सशस्त्र सेना क्लीनिक, डल्होजी रोड
23. एमआर-04317 ब्रिगेडियर प्रेम प्रकाश वर्मा, सेना चिकित्सा कोर/सेना अस्पताल, आगरा
24. आईसी-35492 कर्नल दिगम्बर आनन्दराव पाटिल, 164 इन्फैंट्री बटालियन (प्रादेशिक सेना) (एच एंड एच), नागा
25. आईसी-40933 कर्नल एम विनय चन्द्रन, युसेमे, असम रेजिमेंट
26. आईसी-42542 कर्नल मनोज कुमार मागो, ब्रिगेड ऑफ दि गाइड्स
27. आईसी-46209 कर्नल चरनदीप सिंह, असम रेजिमेंट/59 राष्ट्रीय राइफल
28. आईसी-46624 कर्नल मन्जीत सिंह मोखा, 12 मराठा लाइट इन्फैंट्री
29. आईसी-48316 कर्नल हरमनजीत सिंह, मद्रास रेजिमेंट/8 राष्ट्रीय राइफल
30. आईसी-48366 कर्नल रविन्द्र सिंह मथारू, 17 डोगरा रेजिमेंट
31. आईसी-48989 कर्नल राजीव घई, कुमाऊं रेजिमेंट
32. आईसी-49591 कर्नल रूपेश मेहता, तोपखाना रेजिमेंट/3341 मिसाइल रेजिमेंट
33. आईसी-50034 कर्नल विनोद कुमार नाम्बियार, 1 पैराचूट रेजिमेंट (विशेष बल)
34. आईसी-49235 लेफ्टिनेंट कर्नल दिवेकर नरेन्द्र अरूण , सेना विमानन/202 सेना विमानन स्क्वाड्रन (उपयोगिता हेलिकॉप्टर)
35. आईसी-54731 लेफ्टिनेंट कर्नल अलबर्ट सुमेर बरयावल, इंटेलीजेंस कोर/4 सी आई डी, मुख्यालय पूर्वी कमान
36. एसएस-41224 मेजर अमित ओक्टा, 3 लद्दाख स्काउट
37. आईसी-67988 कैप्टन कैलाश राणा, सेना सेवा कोर/9 असम रेजिमेंट (मरणोपरांत)
38. 2688409 नायक राम अवतार, 14 ग्रेनेडियर्स (मरणोपरांत)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 46-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'नौसेना मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. कमोडोर दीपक बाली, (02439-टी)
2. कमोडोर कालीदास श्रीनिवास, विसेमे (40999-बी)
3. कैप्टन सन्दीप खरबन्दा, (02866-एन)
4. कैप्टन श्रीकुमार नायर, (50986-ए)
5. कैप्टन अनिल कुमार दत्ता, (40953-जेड)
6. कैप्टन आलोक भटनागर, (02850-ए)
7. कैप्टन दिवाकर तोमर, (41422-आर)
8. सर्जन कैप्टन अनुपम कपूर, (75410-के)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 47-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, असाधारण कर्तव्यपरायणता के लिए निम्नलिखित कार्मिकों को 'वायुसेना मेडल/एयर फार्स मेडल' प्रदान करने का अनुमोदन करती हैं:-

1. ग्रुप कैप्टन संजीव वासुदेवराव गोसेवाडे, (16816) उड़ान (पायलट)
2. ग्रुप कैप्टन जोसेफ जेवियर इसरेल, (17167) उड़ान (पायलट)
3. ग्रुप कैप्टन मनीष खन्ना, (18554) उड़ान (पायलट)
4. ग्रुप कैप्टन हिलाल अहमद राथेर, (19863) उड़ान (पायलट)
5. ग्रुप कैप्टन तेजबीर सिंह, (19958) उड़ान (पायलट)
6. विंग कमांडर शशांक मिश्रा, (19175) उड़ान (पायलट)
7. विंग कमांडर विंग कमांडर रमेश मिश्र, (19402) लेखा/पैराच्यूट जम्प इंस्ट्रक्टर
8. विंग कमांडर जार्ज थॉमस, (20118) उड़ान (पायलट)
9. विंग कमांडर मोहनतो पेंगिंग, (20446) उड़ान (पायलट)
10. विंग कमांडर संजय चौहान, (20466) उड़ान (पायलट)
11. विंग कमांडर रजत मोहन, (20476) उड़ान (पायलट)

12. विंग कमांडर अमित वर्मा (20480) उड़ान (पायलट)
13. विंग कमांडर कुलदीप सिंह गिल (20746) उड़ान (पायलट)
14. विंग कमांडर आनन्द मिश्रा (23678) वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिकी)

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 48-प्रेज/2010 - राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री द्वारा 'सेनाध्यक्ष' की ओर से प्राप्त 'मेशन इन डिस्पैचिज़' के लिए निम्नलिखित अफसरों/कर्मिकों के नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ आदेश करती हैं:-

ऑपरेशन रक्षक

1. आईसी-61427 मेजर तथागत दत्ता, कवचित कोर,
53 राष्ट्रीय राइफल
2. आईसी-64046 कैप्टन सुरेन्द्र सिंह,
ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स, 50 राष्ट्रीय राइफल
3. आईसी-68726 कैप्टन सूरज कुमार रॉय,
11 जाट रेजिमेंट
4. जेसी-489579 सूबेदार केहर सिंह,
16 जाट रेजिमेंट
5. 2485395 नायक सुरिन्दर सिंह,
पंजाब रेजिमेंट, 22 राष्ट्रीय राइफल
6. 2487592 नायक दलजीत सिंह,
सेमे, पंजाब रेजिमेंट, 53 राष्ट्रीय राइफल
7. 15613705 लांस नायक गुरुराज एस,
ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स, 21 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
8. 15771012 लांस नायक जय कुमार एस,
सेना वायु रक्षा, 20 राष्ट्रीय राइफल (मरणोपरांत)
9. 15619523 गाड्समैन अब्दुल रहमान,
ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स, 21 राष्ट्रीय राइफल
10. 15619829 गाड्समैन अजय सिंह,
ब्रिगेड ऑफ दि गाड्स, 61 राष्ट्रीय राइफल

ऑपरेशन मेघदूत

11. आईसी-63390 मेजर भगवान सिंह बिष्ट,
पैराच्यूट रेजिमेंट, मुख्यालय 70 इन्फैंट्री ब्रिगेड
12. आईसी-68814 कैप्टन अभिमन्यू सिंह,
6 गढ़वाल राइफल
13. 2694008 ग्रेनेडियर अश्वनी कुमार,
16 ग्रेनेडियर्स
14. 2699662 ग्रेनेडियर अजय बैस,
16 ग्रेनेडियर्स
15. 2703436 ग्रेनेडियर संदीप कुमार सिंह,
16 ग्रेनेडियर

ऑपरेशन हिफाजत

16. आईसी-62592 मेजर धनंजय भारद्वाज,
39 असम राइफल
17. 15567191 सैपर तुकाराम लहूदास मुंडे,
इंजीनियर्स कोर, 86 सड़क निर्माण कंपनी

ऑपरेशन राइनो

18. जेसी-499745 नायब सूबेदार सुरजीत सिंह,
8 सिख रेजिमेंट
19. जेसी-580826 नायब सूबेदार मोहम्मद शोकित,
17 जम्मू-कश्मीर राइफल

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 49-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2010 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री कोडे दुर्गा प्रसाद
अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय, हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश

श्री वेंकट अशोक रेड्डी
अपर पुलिस उपायुक्त
ट्रैफिक, साइबराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री कुलाधर सैकिया
पुलिस महानिरीक्षक
गुवाहाटी, असम
असम

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अपर पुलिस महानिदेशक
सह- सीएमडी
बीपीबीसी कॉरपोरेशन, पटना
बिहार

श्री उदय प्रताप सिंह
पुलिस उप निरीक्षक
सतर्कता
अन्वेषण ब्यूरो विभाग, पटना
बिहार

श्री दुर्गेश माधव अवस्थी
पुलिस महानिरीक्षक
आसूचना, पुलिस मुख्यालय, रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री अब्दुल रशीद खान
पुलिस उपाधीक्षक
ईओडब्ल्यू, रायपुर
छत्तीसगढ़

श्री एस. नित्यानन्दम
संयुक्त पुलिस उपायुक्त
प्रशिक्षण और भर्ती, जड़ोदा कलाँ,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री आलोक कुमार
पुलिस उपायुक्त
विशेष एकक, दिल्ली पुलिस मुख्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री ओम प्रकाश
सहायक पुलिस आयुक्त
रोहिणी/बाहरी जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री उल्हास एल. गावस देसाय
पुलिस निरीक्षक
पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, वलपुई, सत्तारी
गोवा

श्री प्रीतम चन्द ठाकुर
पुलिस महानिरीक्षक
एस सी/एस टी सैल, गाँधी नगर
गुजरात

श्री राकेश मलिक
पुलिस महानिदेशक
मानवाधिकार और मुकदमा, पंचकूला
हरियाणा

श्री अशोक कुमार शर्मा
पुलिस उप महानिरीक्षक
दक्षिणी रेंज, शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री अब्दुल कयूम मनहास
उप पुलिस महानिरीक्षक
उत्तरी कश्मीर रेंज बारामूला
जम्मू और कश्मीर

श्री अरुण कुमार सिंह
पुलिस अधीक्षक
दुमका जिला
झारखंड

श्री एच.एन. सत्यनारायण राव
पुलिस महानिरीक्षक
पूर्वी रेंज, दवनागेरा
कर्नाटक

श्री एम. आर. पुजर
पुलिस महानिरीक्षक और अपर पुलिस आयुक्त
कानून और व्यवस्था, बंगलौर शहर
कर्नाटक

श्री शेख अब्दुल खादर
उप पुलिस अधीक्षक
फिंगर प्रिंट व्यूरो, डब्ल्यू.आर, मंगलौर
कर्नाटक

श्री एस. जोगेश
पुलिस अधीक्षक
वीएसीबी, दक्षिणी रेंज,
तेक्कूमडू तिरुवनंतपुरम
केरल

श्री सरबजीत सिंह
मुख्यमंत्री के सचिव
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री बंडी मरिया कुमार
पुलिस महानिरीक्षक
भोपाल
मध्य प्रदेश

श्री बाबाराव सखाराम इंगले
कमांडेंट
राज्य रिजर्व पुलिस बल, जी आर. IX, अमरावती
महाराष्ट्र

श्री शिरीष जनार्दन इनामदार
उप पुलिस अधीक्षक
राज्य आसूचना विभाग, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री आर पी अग्रवाल
पुलिस महानिरीक्षक(मुख्यालय/प्रशासन)
शिलाँग,
मेघालय

श्री आई. तोसहितसुंगबा ऐयर
सहायक पुलिस महानिरीक्षक (ऑपरेशन)
पुलिस मुख्यालय, कोहिमा
नागालैंड

श्री अभय
पुलिस महानिरीक्षक
एस पी मुख्यालय, कटक
उड़ीसा

श्री देवदत्ता पट्टनायक
पुलिस अधीक्षक
सतर्कता निदेशालय, कटक
उड़ीसा

श्री पवन कुमार उप्पल
पुलिस अधीक्षक
आरटीसी, पीएपी, जालंधर
पंजाब

श्री गुरदेव सिंह
सहायक उप-निरीक्षक
पी.एस., साहनेवाल, लुधियाना
पंजाब

श्री प्रदीप कुमार व्यास
पुलिस महानिरीक्षक
उदयरपुर रेंज, उदयपुर
राजस्थान

श्री वासुदेव भट्ट
अपर पुलिस अधीक्षक
जिला राजसमंद
राजस्थान

श्री सी.वी. राव
पुलिस महानिरीक्षक
रेल, चैन्ने
तमिलनाडु

श्री टी.के. राजेन्द्रन
पुलिस महानिरीक्षक
सदस्य, सचिव, टीएनयूएसआरबी, चैन्ने
तमिलनाडु

श्री एस. सेलसन मोनिका राव
पुलिस उपायुक्त
अपराध और यातायात, तिरुनेलवेल्ली शहर
तमिलनाडु

श्री बी के राय
उप महानिरीक्षक (दक्षिणी रेंज)
अगरतला
त्रिपुरा

श्री कन्हैया लाल मीणा
महानिरीक्षक
लखनऊ रेंज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री भगवत प्रसाद त्रिपाठी
उप पुलिस महानिरीक्षक
चित्रकूटधाम रेंज, बांदा
उत्तर प्रदेश

श्री इन्द्रजीत सिंह रावत
उप पुलिस अधीक्षक
राजभवन लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री एम ए गणपति
पुलिस महानिरीक्षक
देहरादून
उत्तराखंड

श्री पार्थ भट्टाचार्य
महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (सशस्त्र पुलिस)
भवानी भवन, अलीपुर, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री अंजन गांगूली
सहायक पुलिस आयुक्त
लालबाजार स्ट्रीट, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री तरसेम सिंह
निरीक्षक
एसएचओ (सीसीएस) पोर्ट ब्लेयर
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

श्री सतबीर सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
सीआईडी
चंडीगढ़

श्री ए के सुरोलिया
महानिरीक्षक
मुख्यालय जम्मू एफटीआर, पलौरा कैम्प, जम्मू
सीमा सुरक्षा बल

श्री कुलविन्दर जीत सिंह चीमा
महानिरीक्षक
मुख्यालय विशेष महानिदेशालय(पश्चिम), चंडीगढ़
सीमा सुरक्षा बल

श्री मोहिन्दर सिंह मल्ही
उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण)
प्रशिक्षण निदेशालय
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री आलोक कुमार पटेरिया
संयुक्त निदेशक (नीति और प्रशासन)
नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री समिर रंजन मजुमदार
पुलिस अधीक्षक
एसीबी, कोलकाता
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री प्रमोद कृष्ण मुदभटकल
पुलिस अधीक्षक
एससीबी, मुम्बई
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अश्वनी कुमार
पुलिस अधीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री राकेश कुमार मिश्रा
पुलिस महानिरीक्षक
डब्ल्यू एस मुख्यालय, मुम्बई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सत्य सिंह गुंसाई
सहायक पुलिस महानिरीक्षक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री ई राधा कृष्णा
पुलिस महानिरीक्षक
पश्चिम सेक्टर, सीबीडी बेलपुर, नवी मुम्बई
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के के शिवा प्रसाद
उप पुलिस महानिरीक्षक
प्रिंसीपल, सीटीसी, तोप्पामपट्टी, पी.ओ, कोयम्बटूर,
(तमिलनाडु), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रभाकर आलोक
संयुक्त निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री जगरूप सिंह
उप पुलिस महानिरीक्षक
जम्मू सेक्टर, मुख्यालय, जम्मू
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शंभू नाथ सिंह
संयुक्त निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री बदलू राम यादव
उप कमांडेंट
जीसी, लंगजिंग, इम्फाल, मणिपुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री के. प्रभाकरण
अपर उप निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री राघवन थिरुमंगलाथ
महानिदेशक के वैयक्तिक सचिव
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गिरधारा सिंह चीमा
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
अमृतसर
गृह मंत्रालय

श्री शील वर्धन सिंह
संयुक्त निदेशक
लखनऊ
गृह मंत्रालय

श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी
लखनऊ
गृह मंत्रालय

श्री अखिल कुमार शुक्ला
संयुक्त निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री प्रमोद अस्थाना
महानिरीक्षक
विशेष फ्रंटियर,
नई दिल्ली
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

डा. अशोक कुमार वर्मा
संयुक्त निदेशक
जम्मू
गृह मंत्रालय

श्री प्रेम कुमार धस्माना
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू (लद्दाख)
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री हरि प्रसाद
निरीक्षक
42 बटालियन, करेरा (मध्य प्रदेश)
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

डा राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
महानिरीक्षक (मुख्यालय)
मुख्यालय, मेहराम नगर, नई दिल्ली
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्रीमती डी.आर. डोले बर्मन
पुलिस महानिरीक्षक
फ्रंटियर मुख्यालय, गुवाहाटी
सशस्त्र सीमा बल

श्री राजेश मलिक
महानिरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

श्री दुर्गेश्वर दियोरी
निरीक्षक
उमसा, यूमिअम
पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी

श्री एस पी वैद
महानिरीक्षक/निदेशक
मुख्यालय, नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो

श्री नासिर कमाल
महानिरीक्षक/संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो
नई दिल्ली

श्री गोपाल गुप्ता
महानिरीक्षक एवं मुख्य सुरक्षा आयुक्त, आरपीएसएफ
रेल बोर्ड, नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

श्री श्रीकांत कुमार मिश्रा
मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ
रेल प्रोटेक्शन फोर्स,
उत्तर-पूर्व रेल, गोरखपुर
रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4(ii) के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संख्या 50-प्रेज/2010--राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2010 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री संदीप शाण्डिल्य
उप पुलिस महानिरीक्षक
खैराताबाद, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री पी.वी. सुनील कुमार
उप पुलिस महानिरीक्षक
रेल, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री आर. भीमा नायक
उप पुलिस आयुक्त
सिटी सिक्कूरिटी विंग, हैदराबाद
आन्ध्र प्रदेश

श्री ई. दामोदर

उप पुलिस आयुक्त

सिटी आर्मड रिजर्व हेडक्वार्टर,
हैदराबाद सिटी पुलिस, पेटलाबुर्ज

आन्ध्र प्रदेश

श्री बी. नागमुनी नायक

उप पुलिस महानिरीक्षक

एपीएसपी बीएनएस, काकीनाडा

आन्ध्र प्रदेश

श्री सैय्यद आथर कादरी

अपर पुलिस अधीक्षक

आसूचना सुरक्षा स्कंद

आन्ध्र प्रदेश

श्री एन. लक्ष्मीकांत राव

अपर पुलिस अधीक्षक

जिला-वारंगल

आन्ध्र प्रदेश

श्री टी. रमेश

सहायक पुलिस आयुक्त

यातायात-VI, ईस्ट जोन, हैदराबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री नीतम प्रसाद

उप पुलिस अधीक्षक

विजयवाड़ा

आन्ध्र प्रदेश

श्री एस. वी. प्रताप रेड्डी

उप संभागीय पुलिस अधिकारी

भेन्सा, जिला-अदिलाबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री एम. सिद्धैया

उप संभागीय पुलिस अधिकारी

द्रूपरान उप-मंडल, जिला-मेडक

आन्ध्र प्रदेश

श्री वी एन वी सत्यनारायण

उप पुलिस अधीक्षक

आक्टोपस, शांती निलयम, बेगमपेट, हैदराबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री जे.कोटेश्वर राव

उप पुलिस अधीक्षक

आन्ध्र प्रदेश पुलिस अकादमी हिमायत सागर, हैदराबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री एन चंद्र मौली

उप पुलिस अधीक्षक

होम गार्ड्स, जिला पुलिस कार्यालय, कुरुनूल

आन्ध्र प्रदेश

श्री आर.वेनगन्ना

उप पुलिस अधीक्षक

ए सी बी, कुरुनूल

आन्ध्र प्रदेश

श्री एरूगु मीनैय्या

उप-निरीक्षक

आसूचना, हैदराबाद क्षेत्र

आन्ध्र प्रदेश

श्री डी. अप्पल नायडु

हेड कांस्टेबल

विजयनगरम

आन्ध्र प्रदेश

श्री इस्मायिल खान

उप-निरीक्षक

आसूचना विभाग, हैदराबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री अब्दुल रशीद

हेड कांस्टेबल

ग्रेहाण्ड्स, हैदराबाद

आन्ध्र प्रदेश

श्री मके बुइ
निरीक्षक
ओसी, पीएस, जिला पापुमापारे ईटानगर
अरुणाचल प्रदेश

श्री चंचल सिंह चुफल
सहायक उप-निरीक्षक
पीटीसी बनडेरदेवा
अरुणाचल प्रदेश

श्री तरुण चन्द्र कलिता
सहायक उप-निरीक्षक
गुवाहाटी,
असम

श्री रंजीत हजारिका
सहायक उप-निरीक्षक
जीआरपी, गुवाहाटी
असम

श्री रंजीत चुतिया
हवलदार
कमांडो बटालियन, मनडकता, उत्तरी गुवाहाटी
असम

श्री बिनन्दा बोरा
हेड कांस्टेबल
विशेष कार्य बल, गुवाहाटी
असम

श्री गनेश दास
हेड कांस्टेबल
एस.बी. संगठन, गुवाहाटी
असम

श्री नैतिक चन्द्र गोगोई
हवलदार
तिनसुखिया डीईएफ
असम

श्री हितेश भट्टा
कांस्टेबल(ऑपरेटर)
एपीआरओ, गुवाहाटी,
असम

श्री टिंकू गोस्वामी
कांस्टेबल (यूबी)
हैलकांडी डीईएफ
असम

श्री जितेन्द्र सिंह गंगवार
उप पुलिस महानिरीक्षक
पुलिस मुख्यालय, पटना
बिहार

श्री सुनील कुमार झा
उप पुलिस महानिरीक्षक
पुर्निया
बिहार

श्री अमित कुमार
उप पुलिस महानिरीक्षक
मुंगेर,
बिहार

श्रीमती अनुपमा निलेकर
उप पुलिस महानिरीक्षक
मगध रेंज, गया
बिहार

श्री जुनैद अहमद
परिचारी प्रवर
रेल, पटना
बिहार

श्री राज कुमार प्रसाद
स्टेनो/एसआई
विशेष गोपनीय अनुभाग, जिला गोपालगंज
बिहार

श्री शैलेश कुमार मिश्रा

सशस्त्र हथलदार

जिला गोपालगंज

बिहार

श्री नंदलाल प्रसाद यादव

कांस्टेबल

जिला गोपालगंज

बिहार

श्री राज कुमार

कांस्टेबल/ड्राईवर

जिला गोपालगंज

बिहार

श्री राम कुमार सिंह

कांस्टेबल

एस.पी. कार्यालय, सारण, छापरा

बिहार

श्री शैलेश कुमार मिश्रा

सिपाही

मुख्यमंत्री सुरक्षा, विशेष शाखा, पटना

बिहार

श्री मदन प्रसाद सिंह

कांस्टेबल

बम खोजी और निष्क्रियकरण दल, पटना

बिहार

श्री प्रसन्नजीत भौमिक

कांस्टेबल

बम खोजी और निष्क्रियकरण दल,

एसबी, पटना

बिहार

श्री मदीश बैथा

कांस्टेबल

सतर्कता अन्वेषण ब्यूरो, पटना

बिहार

श्री अरुण देव गौतम

उप पुलिस महानिरीक्षक

डीआईजी रेंज, रायपुर

छत्तीसगढ़

श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल

मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय

रायपुर

छत्तीसगढ़

श्री सोमेश्वर सिंह सोरी

कमांडेंट

पीटीएस, जगदलपुर

छत्तीसगढ़

श्री अशोक कुमार जोशी

निरीक्षक

ईओडब्ल्यू रायपुर

छत्तीसगढ़

श्री तुलसी प्रसाद साहू

सहायक उप निरीक्षक

पीएस कोनदेनर, बस्तर

छत्तीसगढ़

श्री बलमत सिंह धुव

हेड कांस्टेबल

जिला- कांकेर

छत्तीसगढ़

श्री चन्द्र मौलेश्वर गादे

उप निरीक्षक (लिपिकवर्गीय)

आईजीपी कार्यालय, बस्तर

छत्तीसगढ़

श्री उज्जवल मिश्रा
संयुक्त पुलिस आयुक्त
एसबी, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री नीरज ठाकुर
अपर पुलिस आयुक्त(क्राइम)
दिल्ली पुलिस मुख्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री आनंद मोहन
अपर पुलिस आयुक्त
पूर्वी दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री धर्मपाल सिंह
निरीक्षक
पुलिस स्टेशन -बाड़ा हिन्दुराव
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री रामबीर सिंह
उप- निरीक्षक
पीसीआर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री राज सिंह
सहायक उप निरीक्षक
पी एस स्पेशल सेल,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री लाल चंद
सहायक उप- निरीक्षक
बाहरी जिला
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री जगजीत सिंह
हैड कांस्टेबल
चौथी बटालियन डीएपी, एनपीएल
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री जितेन्द्र सिंह
कांस्टेबल
सांख्यिकी प्रकोष्ठ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री जय सिंह
कांस्टेबल
सुरक्षा यूनिट
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री मुकेश कुमार
कांस्टेबल
सीडब्ल्यूसी, नानक पुरा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री जग पाल
कांस्टेबल
पुलिस स्टेशन-तिलक नगर, पश्चिम जिला
एसीपी कार्यालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

श्री सुभाष कुमार
कांस्टेबल
पुलिस स्टेशन-पंजाबी बाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

श्री उल्हास हाडु सैल
पुलिस निरीक्षक
पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, बलपुरई, सततारी
गोवा

श्री चंदूभाई त्रिभोवनदास सुथार
सहायक निदेशक
एसीबी मेहसाना यूनिट, मेहसाना
गुजरात

श्री किशोरसिंह बहादुरसिंह जाडेजा
उप पुलिस अधीक्षक
एसआरपीएफ जीआर-11, वीएवी (सूरत)
गुजरात

श्री बलवंतसिंह देसाईभाई परमार
उप पुलिस अधीक्षक
सरंक्षण शाखा गाँधीनगर
गुजरात

श्री विनोदचन्द्र मोहनलाल आनंद
पुलिस निरीक्षक
अपर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय
सीआईडी अपराध और रेल, गाँधीनगर
गुजरात

श्री बिहारीलाल नटवरलाल बरोट
पुलिस निरीक्षक
एसओजी, हिम्मत नगर
गुजरात

श्री विजयसिंह खुमानसिंह झाला
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, अहमदाबाद
गुजरात

श्री महेश कुमार रामेश्वर गुप्ता
पुलिस निरीक्षक
अहमदाबाद
गुजरात

श्री जसादन भूपतसंगट टापरीया
सशस्त्र पुलिस उप-निरीक्षक
एसआरपीएफ जीआर-15, ओएनजीसी, मेहसाणा
गुजरात

श्री राजेन्द्रकुमार नरसीराम महेता
सशस्त्र सहायक उप निरीक्षक
एसआरपीए जीआर.13, गंतेश्वर, राजकोट
गुजरात

श्री कानजी आत्माराम आयरी
शस्त्रहीन हेड कांस्टेबल
भुज शहर, पुलिस स्टेशन
गुजरात

श्री महमदहनीफ बीजारभाई ब्लोच
शस्त्रहीन हेड कांस्टेबल
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय
राजकोट ग्रामीण जिला, राजकोट
गुजरात

श्री महादेव किशनारव सेवायकर
शस्त्रहीन हेड कांस्टेबल
आर आर सैल, सूरत रेंज
गुजरात

श्री चतुरभाई मानाभाइ सोलंकी
आसूचना अधिकारी
अपर महानिदेशक पुलिस, आसूचना का कार्यालय
गाँधीनगर
गुजरात

श्री सज्जन सिंह
अपर पुलिस अधीक्षक
सिरसा
हरियाणा

श्री नरेन्द्र कुमार
उप पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय/संचार, पंचकुला
हरियाणा

श्री तारा चंद
निरीक्षक
एचपीए मधुबन
हरियाणा

श्री रमेश चंद
निरीक्षक
एचपीए, मधुबन
हरियाणा

श्री जय सिंह
उप निरीक्षक
एचपीए मधुबन
हरियाणा

श्री रामेश्वर दत्त
उप निरीक्षक
पाँचवीं बटालियन. एचएपी, मधुबन
हरियाणा

श्री हेमंत कुमार
उप निरीक्षक
गुडगांव
हरियाणा

श्री ज्ञान चंद
उप निरीक्षक
एसवीबी, मुख्यालय, पंचकुला
हरियाणा

श्री नरेश कुमार
सहायक उप निरीक्षक
आई/सी पुलिस चौकी बलदेव नगर
जिला अम्बाला
हरियाणा

श्री सुरिन्द्र शर्मा
उप पुलिस अधीक्षक
राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा
सेंट्रल रैंज मंडी
हिमाचल प्रदेश

श्री नराता राम
निरीक्षक
राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा,
शिमला, हिमाचल प्रदेश.

श्री प्रशोत्तम चंद
सहायक उप निरीक्षक
सीआईडी(एससीआरबी) शिमला
हिमाचल प्रदेश

श्री सुनील कुमार शर्मा
उप पुलिस महानिरीक्षक
सीआईडी, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री कसतूरी लाल भगत
कमांडेंट
जेकेएपी 12 बटालियन
जम्मू और कश्मीर

श्री शाम सुंदर शर्मा
पुलिस अधीक्षक
एपीसीआर जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री ठाकुर दास सैनी
पुलिस अधीक्षक
रेल मुख्यालय,
जम्मू और कश्मीर

श्री हिलाल अहमद शाह
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संचार
जम्मू जोन, पीसीआर काम्पलेक्स, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री सवतंत्र कुमार अरोड़ा
उप पुलिस अधीक्षक
उत्तरी शहर, जम्मू
जम्मू और कश्मीर

श्री मोहम्मद असलम
उप पुलिस अधीक्षक
पुलिस मुख्यालय,
जम्मू और कश्मीर

श्री अब्दुल रशीद शाह
निरीक्षक
सुरक्षा मुख्यालय
जम्मू और कश्मीर

श्री औरंगजेब राथर
उप निरीक्षक
डीएसबी पुँछ
जम्मू और कश्मीर

श्री मोहम्मद रफीक भट्ट
उप निरीक्षक
पुलिस कम्पोजेंट श्रीनगर
जम्मू और कश्मीर

श्री मोहम्मद शफी
उप निरीक्षक
एसएसजी

श्री परवेज अहमद मलिक
हेड कांस्टेबल
जेकेएपी 13वीं बटालियन डोडा
जम्मू और कश्मीर

श्रीमती आशा सिन्हा
अपर पुलिस महानिदेशक
राँची
झारखंड

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह
कमांडेंट
झारखंड सशस्त्र पुलिस-6 जमशेदपुर
झारखंड

श्री अमरजीत बलिहार
पुलिस अधीक्षक
राँची
झारखंड

श्री अशोक कुमार
उप पुलिस अधीक्षक
विशेष शाखा, राँची
झारखंड

श्री अशोक कुमार पाठक
सार्जेंट मेजर
सेंट्रल स्टोर होटवार, राँची
झारखंड

श्री अशोक कुमार सिंह
सार्जेंट
एच.क्यू.आर.टी. झरंडा, राँची
झारखंड

श्री अभिजीत घोष
सहायक उप-निरीक्षक
फोटो सेक्शन, स्पेशल ब्रांच, रांची
झारखंड

श्री विजय प्रसाद शर्मा
स्टेनो सहायक उप-निरीक्षक
स्पेशल ब्रांच, रांची
झारखंड

श्री गोपाल बहादुर प्रधान
हवलदार
जेएप-1 रांची
झारखंड

श्री भारत कुमार गुरूंग
हवलदार
जेएपी-1, रांची
झारखंड

श्री प्रनब मोहंती
उप पुलिस महानिरीक्षक
कर्नाटक लोकायुक्त, बंगलौर
कर्नाटक

श्री अलोक कुमार
संयुक्त पुलिस आयुक्त, क्राइम
बेंगलौर शहर
कर्नाटक

श्री रमेश एस हरिहर
उप पुलिस महानिरीक्षक
रेल, बंगलौर
कर्नाटक
श्री टी. देवे गौडा
सहायक रिजर्व उप- निरीक्षक पुलिस
आसूचना, बंगलौर
कर्नाटक

श्री अनन्तैय्या
उप-निरीक्षक पुलिस
सीआईडी वन प्रकोष्ठ, बंगलौर
कर्नाटक

श्री एम पुतास्वामी
रिजर्व उप- निरीक्षक
5वी बटालियन केएसआरपी, मैसूर
कर्नाटक

श्री बासवाराज सिरूमथ
पुलिस निरीक्षक
फिंगर प्रिंट यूनिट, गुलबर्गा
कर्नाटक

श्री अन्नैय्या रघुवीर
सहायक पुलिस आयुक्त
कंट्रोल रूम, बंगलौर सिटी
कर्नाटक

श्री एम जी. नागालिंगय्या
सहायक कमांडेंट
III बी एन, केएसआरपी, बंगलौर
कर्नाटक

श्री सी.पी जानावाद
उप पुलिस अधीक्षक
चिकोडी
कर्नाटक

श्री एस पी बालाजी सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
उप पुलिस महानिदेशक का कार्यालय,
सीआईडी, बंगलौर, कर्नाटक

श्री बासवाराजा येलप्पा मालागट्टी
उप पुलिस आयुक्त,
नार्थ - ईस्ट डिविजन, बंगलौर सिटी
कर्नाटक

श्री बी.एन. नीलागर पुलिस अधीक्षक कर्नाटक लोकायुक्त, गुलबर्गा कर्नाटक	श्री टीवी गंगाधरन आर्मड पुलिस निरीक्षक केएपी 4 बटा., एमजीपीए केरल
श्री आर बी मोहन रेड्डी सहायक पुलिस महानिरीक्षक मुख्य कार्यालय, बंगलौर कर्नाटक	श्री एल लारेंस निरीक्षक बीडीडीएस, एसबीसीआईडी एचक्यू, पीएचक्यू, तिरुवनन्तपुरम, केरल
श्री पी.सी. हीरेमथ कमांडेंट IX बटा., केएसआरपी, बंगलौर कर्नाटक	श्री के मोहनाचारी सहायक उप- निरीक्षक वीएसीबी, कोल्लाम केरल
श्री पी कृष्णन नायर उप पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा सीआईडी, सिटी डिटेचमेंट, तिरुवनन्तपुरम, केरल	श्री के.जे. चाक्को हेड कांस्टेबल पूर्वी त्रिसूर पुलिस स्टेशन केरल
श्री वर्गीस थोमस उप पुलिस अधीक्षक (एनआरआई शाखा) पुलिस मुख्यालय, तिरुवनन्तपुरम केरल	श्री एम.एम. प्रकाशन हेड कांस्टेबल टाउन पुलिस स्टेशन, कोझीकोड सिटी केरल
श्री सीजी. जयशान्तिलालराम उप पुलिस अधीक्षक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोल्लाम केरल	श्री राजेश चावला पुलिस महानिरीक्षक/ निदेशक (वी और एस) एमपीएसईबी, जबलपुर मध्य प्रदेश
श्री टी.के. थोमस उप पुलिस अधीक्षक कुन्नामकुलम केरल	श्री सुशोबन बनर्जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, मुम्बई मध्य प्रदेश
श्री बी. वर्गीश सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात दक्षिण तिरुवनन्तपुरम सिटी केरल	

श्री अशोक अवस्थी

उप महानिरीक्षक

भोपाल रेंज

मध्य प्रदेश

श्री विजयानन्द पचौरी

कमांडेंट

15वीं बटा. एसएएफ, इंदौर

मध्य प्रदेश

श्री आदित्य नारायण लिटोरिया

निरीक्षक

विशेष कार्य बल, इंदौर

मध्य प्रदेश

श्री वीरेन्द्र पाल सिंह

सेक्शन कमाण्डर

15वीं बटा. एसएएफ, इंदौर

मध्य प्रदेश

श्री लेख सिंह

हेड कांस्टेबल

दूसरी बटा. एसएएफ, ग्वालियर

मध्य प्रदेश

श्री पीर खान

हेड कांस्टेबल

17वीं बटा. एसएएफ भिंड

मध्य प्रदेश

श्री श्रीनिवास मिश्रा

हेड कांस्टेबल

शिवपुरी

मध्य प्रदेश

श्री शमशेर बहादुर सिंह

हेड कांस्टेबल

एसपीई, लोकायुक्त, सागर मण्डल

श्री लालता प्रसाद यादव

वरिष्ठ कांस्टेबल

सीआईडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

मध्य प्रदेश

श्री इन्द्रभान पाण्डे

वरिष्ठ कांस्टेबल

सागर

मध्य प्रदेश

श्री यशवंत सिंह नेगी

कांस्टेबल

18वीं बटा., एसएएफ, शिवपुरी

मध्य प्रदेश

श्री यशवंत कुमार देहरिया

कांस्टेबल

पुलिस स्टेशन अमरावरा, जिला छिन्दवाड़ा

मध्य प्रदेश

श्री दत्तात्रय प्रभाकर जुगादे

सुबेदार (एम)

आई जी (प्रशासन) का कार्यालय, पुलिस मुख्यालय

भोपाल, मध्य प्रदेश

श्री मोहन अवस्थी

सुबेदार (एम)

एसबी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

मध्य प्रदेश

श्री आर के पद्मनाभन

उप पुलिस महानिरीक्षक/

अपर पुलिस आयुक्त

साऊथ रीजन मुम्बई

महाराष्ट्र

श्री रितेश कुमार
उप पुलिस महानिरीक्षक/
अपर पुलिस आयुक्त
इस्ट रीजन, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री अमिताभ गुप्ता
उप पुलिस महानिरीक्षक/
अपर पुलिस आयुक्त
पश्चिम क्षेत्र मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री प्रदीप वसंतराव देशपाण्डे
पुलिस अधीक्षक/
उप पुलिस आयुक्त गोंडिया
महाराष्ट्र

श्री शामराव रामचन्द्र दिघावकर
पुलिस अधीक्षक/
उप पुलिस आयुक्त
सोलापुर शहर
महाराष्ट्र

श्री नन्दकुमार अनन्त चौगुले
उप पुलिस अधीक्षक
एसआईडी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री शेषराव बाबुराव सूर्यवंशी
उप पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री जयवंत कान्हू हरगुडे
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
मालवानी पुलिस स्टेशन मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री दत्तात्रय श्रीपाद दातार
वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक
राबले पुलिस स्टेशन नवी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री विलास सीताराम जाधव
पुलिस निरीक्षक
महाराष्ट्र पुलिस अकादमी, नासिक
महाराष्ट्र

श्री रामचन्द्र आबा बरकडे
पुलिस निरीक्षक
विशेष शाखा(II) सीआईडी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री अरूण शंकरराव भगत
पुलिस निरीक्षक
यातायात नियंत्रण शाखा, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री विष्णू बाबूराव जगताप
पुलिस निरीक्षक
पीटीएस खंडाला
महाराष्ट्र

श्रीमती सुषमा शैलेन्द्र चव्हाण
पुलिस निरीक्षक
सीआईडी, एम.एस.पुणे
महाराष्ट्र

श्री अप्पा देमाना देसाई
सहायक पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री विजय आकाराम इंगले
सहायक पुलिस निरीक्षक
यातायात शाखा, थाणे शहर
महाराष्ट्र

श्री चन्द्रकांत नारायण गावडे
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
एम टी. मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री दिनकर साहेबराव साठे
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
डीसीबी. सीआईडी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री रमेश नागो शेलार
सशस्त्र सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
एसआरपीएफ. जीआर. VI, धुले
महाराष्ट्र

श्री दिलवार दस्तगीर बारगीर
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
पुलिस मुख्यालय कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री शिवाजी दत्त कचरे
सशस्त्र सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
विशेष शाखा (I) सीआईडी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री मुरलीधर कृष्णनाथ नावाडे
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
उसमानाबाद देहात
महाराष्ट्र

श्री चन्द्रकांत शिवाजी पाटिल
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
पुलिस मुख्यालय नवी मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री निजाम हसन महागोंडे
हेड कांस्टेबल
एल.ए. III, वर्ली मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री मधुकर सोपानराव चन्ने
हेड कांस्टेबल
पीसीआर. सतारा
महाराष्ट्र

श्री परशुराम भिकाजी जगताप
हेड कांस्टेबल
विशेष शाखा पुणे शहर
महाराष्ट्र

श्री सुधीर कृष्णाजी तावडे
हेड कांस्टेबल
चेम्बूर पुलिस स्टेशन, मुम्बई शहर
महाराष्ट्र

श्री मारुती तुकाराम पाटिल
हेड कांस्टेबल
पंत नगर पुलिस स्टेशन, मुम्बई
महाराष्ट्र

श्री दिलीप बालासाहेब वासमकर
हेड कांस्टेबल
स्थानीय अपराध शाखा कोल्हापुर
महाराष्ट्र

श्री विनायक उमटा राजपूत
हेड कांस्टेबल
जिला. विशेष शाखा नन्दूरबार
महाराष्ट्र

श्री दुर्योधन राउत उप पुलिस अधीक्षक सीआईडी, सीबी, कटक उड़ीसा	श्री रणजोध सिंह निरीक्षक महानिदेशक का कार्यालय कारागार, चड़ीगढ़ पंजाब
श्री आर्तत्राण नन्दा सहायक पुलिस उप- निरीक्षक बसेलीसहाय पुलिस स्टेशन, पुरी उड़ीसा	श्री काबल सिंह निरीक्षक एआईजी का कार्यालय, सीआई, अमृतसर पंजाब
श्री भूषण कुमार गर्ग पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा, चड़ीगढ़ पंजाब	श्री दिलबाग सिंह निरीक्षक पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर पंजाब
श्री आर. एन. ढोके उप पुलिस महानिरीक्षक आसूचना-II, चड़ीगढ़ पंजाब	श्री करतार सिंह उप-निरीक्षक पुलिस लाइन, लुधियाना शहर पंजाब
श्री प्रवीण कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक एसवीपी, एनपीए, हैदराबाद पंजाब	श्री सोहन लाल उप-निरीक्षक आरटीसी, पीएपी, जालंधर कैंट. पंजाब
श्री गुरुदेव सिंह पुलिस अधीक्षक पीएसएचआरसी, चड़ीगढ़ पंजाब	श्री मोहिन्द्र पाल उप-निरीक्षक पीपीए फिल्लौर पंजाब
श्री नगिन्द्र सिंह राणा उप पुलिस अधीक्षक उत्तरी, लुधियाना पंजाब	श्री हरपाल सिंह सहायक उप-निरीक्षक अपर पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, चड़ीगढ़ पंजाब
श्री हरदविन्द्र सिंह उप पुलिस अधीक्षक यातायात, एसएस नगर, मोहाली पंजाब	श्री दविन्द्र कुमार हेड कांस्टेबल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लुधियाना ग्रामी पंजाब

श्री रेमंड मनवेल डिसोजा हेड कांस्टेबल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिन्धुदुर्ग महाराष्ट्र	श्री नंजानबेमो नचोमो नगुलिये सर्किल निरीक्षक वोखा नागालैंड
श्री शंकर विष्णु चौगुले नायक पुलिस नियंत्रण कक्ष, कोल्हापुर महाराष्ट्र	श्री पीलामो लोथा निरीक्षक ओसी सुरक्षा, सिविल सचिवालय. कोहिमा नागालैंड
श्री द्वारकानाथ सखाराम कोयडे नायक यातायात नियंत्रण मुम्बई शहर महाराष्ट्र	श्री संजीव पंडा उप पुलिस महानिरीक्षक एसडब्ल्यूआर कोरापुट उड़ीसा
श्रीमती राजकुमार मेमे पुलिस अधीक्षक सतर्कता निदेशालय काम्प्लेक्स मणिपुर	श्री यशवंत कुमार जेठवा उप पुलिस महानिरीक्षक ई आर बालासोर उड़ीसा
श्री हमरबाजोप वालंग निरीक्षक पुलिस महानिदेशक का कार्यालय(एसबी) मेघालय शिलांग, मेघालय	श्री अमूल्य कुमार मोहंती अपर पुलिस अधीक्षक सतर्कता सीटीसी संभाग, कटक उड़ीसा
श्री शेलडिंग नंगलाइट कम्पनी हवलदार मेजर 1 एमएलपी, मावीआंग मेघालय	श्री मोहम्मद जाहिद उप कमांडेंट एसओजी, विशेष सुरक्षा बटालियन, भुवनेश्वर उड़ीसा
श्री चंद्र प्रसाद डाहल निरीक्षक पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, ममीत मिजोरम श्री लालजोहना उप-निरीक्षक सीआईडी(एसबी) आइजोल मिजोरम	श्री माधव चंद्र साहु उप पुलिस अधीक्षक एसडीपीओ, संदर पुरी उड़ीसा श्री रबिन्दर कुमार महापात्रा उप पुलिस अधीक्षक सुरक्षा स्कंध, विशेष शाखा, भुवनेश्वर उड़ीसा

श्री इंद्र मोहन

हेड कांस्टेबल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, फतेहगढ़ साहिब
फतेहगढ़, साहिब पंजाब

श्री गोविन्द गुप्ता

पुलिस उप महानिरीक्षक

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर

राजस्थान

श्री अमृत कलश

निदेशक

प्रवर्तन उत्पाद विभाग, जयपुर

राजस्थान

श्री सत्यवीर सिंह

अपर पुलिस अधीक्षक

दुदु, जयपुर ग्रामीण

राजस्थान

श्री सरदार दान चरण

पुलिस निरीक्षक

सीआईडी (एसबी), जोन, जोधपुर

राजस्थान

श्री रतन लाल शर्मा

प्लाटून कमांडेंट (आर्मरर)

9वीं बटा. आरएसी टोन्क,

राजस्थान

श्री अलियास खान

सहायक उप-निरीक्षक

पुलिस स्टेशन ससलासार, जिला, चुरू

राजस्थान

श्री मुकुट बिहारी मीना

हेड कांस्टेबल

चौथी बटा., आरएसी (एचक्यू), चैनपुरा, जयपुर

श्री पवन कुमार

हेड कांस्टेबल(आपरेटर)

तकनीकी और कम्प्यूटर अनुभाग, पीटीसी
जयपुर, राजस्थान

श्री रहमान खान

हेड कांस्टेबल

11वीं बटा. आरएसी(आई.आर.)

विजय घाट दिल्ली, राजस्थान

श्री राम अवतार

हेड कांस्टेबल

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

राजस्थान

श्री भूरी सिंह जाट

हेड कांस्टेबल

पुलिस स्टेशन-सेवर, जिला, भरतपुर

राजस्थान

श्री फूल चंद

हेड कांस्टेबल

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, अपराध शाखा

जीआरपी, अजमेर, राजस्थान

श्री माल चंद खटिक

हेड कांस्टेबल

सीआईडी (सीबी), जयपुर

राजस्थान

श्री नरेन्द्र सिंह

कांस्टेबल

प्रथम बटा., आरएसी, जोधपुर

राजस्थान

श्री विजय शर्मा
कांस्टेबल
राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो, जयपुर
राजस्थान

श्रीमती विष्णु कुमारी राय
निरीक्षक
विशेष शाखा, गंगटोक
सिक्किम

श्री एस जॉर्ज
पुलिस महानिरीक्षक/ मुख्य सर्तकता अधिकारी
राज्य परिवहन निगम, नागरकोइल
तमिलनाडु

श्री एस.एस कृष्णामूर्ति
पुलिस महानिरीक्षक
दक्षिण संम्भाग, मधुरई जिला
तमिलनाडु

श्री के वेन्नैया पेरूमल
उप पुलिस महानिरीक्षक
सलेम रेंज
तमिलनाडु

श्री अशोक कुमार दास
उप पुलिस महानिरीक्षक
सीआईएसएफ, हवाई अड्डा, उत्तरी मण्डल, चैन्नई
तमिलनाडु

श्री आर. राधाकृष्णन
उप पुलिस महानिरीक्षक
तकनीकी सेवा, चैन्नई
तमिलनाडु

श्री के एन. साथियामूर्ति
उप पुलिस आयुक्त
आसूचना प्रभाग, चैन्नई
तमिलनाडु

श्री एस वी करुप्पासामी
पुलिस अधीक्षक
विशेष कार्य बल, सत्यमंगलम
जिला-इरोड
तमिलनाडु

श्री आर एन्टोनी जॉनसन जयपॉल
कमांडेंट
स्माल आर्मस आवाडी
तमिलनाडु

श्री टी हरिहरन
अपर पुलिस अधीक्षक
एन आई बी, सीआईडी, चैन्नई
तमिलनाडु

श्री वी पोन्नराम
पुलिस निरीक्षक
एसबी सीआईडी, मदुरई
तमिलनाडु

श्री ए थंगावेलु
पुलिस निरीक्षक
डिंडीगुल नगर, उत्तरी पुलिस स्टेशन,
जिला-डिंडीगुल, जिला तमिलनाडु

श्री एस. राजकुमार
पुलिस निरीक्षक
एसबी सीआईडी, पुलिस मुख्यालय, चैन्नई
तमिलनाडु

श्री एम अरूमुगंम
पुलिस उप-निरीक्षक
वी और एसी, विशेष जांच प्रकोष्ठ शाखा चैन्नई
तमिलनाडु

श्री जी नवनीत कृष्णन
हेड कांस्टेबल
वी एण्ड एसी, सिटी स्पेशल यूनिट-1, चैन्नई
तमिलनाडु

श्री हरि मोहन दास
उप पुलिस अधीक्षक
अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा
त्रिपुरा

श्री चन्द्रमणि देबबर्मा
सूबेदार
2बटालियन त्रिपुरा राज्य राइफल, आर के नगर,
पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा

श्री समीर चंद्र मजुमदार
उप निरीक्षक
होम गार्ड संगठन, अगरतला,
त्रिपुरा

श्री श्रीमंत कुमार वैद्य
हेड कांस्टेबल
केडीटीएस पीटीसी, नरसिंहगढ़, पोस्ट- बीमानगर,
एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन, त्रिपुरा

श्री भगीरथ पी जोगदंड
उप महानिरीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश
श्री अखिल कुमार
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री राजा श्रीवास्तव
पुलिस अधीक्षक
प्रशिक्षण एवं सुरक्षा, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री असीम कुमार अरूण
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री बिनोद कुमार सिंह
उप महानिरीक्षक
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश

श्री देवेन्द्र कुमार चौधरी
अपर पुलिस अधीक्षक
जिला, कानपुर
उत्तर प्रदेश

श्री ज्ञानेश्वर तिवारी
अपर पुलिस अधीक्षक
जिला फैजाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री अशोक कुमार शुक्ला
अपर पुलिस अधीक्षक
पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री कविन्द्र प्रताप सिंह
अपर पुलिस अधीक्षक
आसूचना इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री सुनील कुमार सक्सेना
अपर पुलिस अधीक्षक
जिला मथुरा
उत्तर प्रदेश

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
उप पुलिस अधीक्षक
जिला कानपुर देहात
उत्तर प्रदेश

श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव
उप कमांडेंट
9वीं बटालियन पीएसी मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री धर्मेन्द्र सिंह यादव
उप पुलिस अधीक्षक
एमएसपी, सीबीसीआईडी, कानपुर
उत्तर प्रदेश

श्री अनिल कुमार
अपर पुलिस अधीक्षक
जिला गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री सुभाष चंद्र
उप पुलिस अधीक्षक
जिला लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री राम लाल वर्मा
उप कमांडेंट
15वीं बटालियन पीएसी, आगरा
उत्तर प्रदेश

श्री राजेन्द्र सिंह सांवत
सहायक कमांडेंट
41वीं बटालियन पीएसी गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री उमेश कुमार सिंह
अपर पुलिस अधीक्षक
एटीएस, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री माता प्रसाद सलोनिया
उप पुलिस अधीक्षक
जिला इटावा
उत्तर प्रदेश

श्री सालिक राम
अपर पुलिस अधीक्षक
जिला रायबरेली
उत्तर प्रदेश

श्री उम्मेद सिंह
कम्पनी कमांडर
38वीं बटालियन, पीएसी अलीगढ़
उत्तर प्रदेश

श्री महेश मिश्रा
उप पुलिस अधीक्षक
सतर्कता विभाग, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री बंश बहादुर सिंह
प्लाटून कमांडर
10वीं बटालियन, पीएसी बाराबंकी
उत्तर प्रदेश

श्री राम आसरे मिश्रा
कांस्टेबल एपी
पुलिस प्रशिक्षण स्कूल गोरखपुर
उत्तर प्रदेश

श्री मोहम्मद हनीफ
हेड कांस्टेबल
39वीं बटालियन, पीएसी, मिर्जापुर
उत्तर प्रदेश

श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्ताव
उप निरीक्षक (लिपिकवर्गीय)
पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री राम निवास
कांस्टेबल
उत्तर प्रदेश सतर्कता स्थापना, फैजाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री चंद्र कुमार सिंह
उप-निरीक्षक(एमटी)
जिला लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
उप-निरीक्षक, सीपी
जिला महोबा
उत्तर प्रदेश

श्री सत्येन्द्र सिंह
हेड कांस्टेबल
Xवी बटालियन, पीएसी, बाराबंकी
उत्तर प्रदेश

श्री इशितयाक अहमद
हेड कांस्टेबल
XIवीं बटालियन, पीएसी सीतापुर
उत्तर प्रदेश

श्री निर्मल कुमार पाण्डेय
उप-निरीक्षक(लिपिकवर्गीय)
पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश

श्री सदा शिव यादव
कांस्टेबल सीपी
जिला सीतापुर
उत्तर प्रदेश

श्री गोपाल सिंह विस्ट
उप-निरीक्षक(अनुलिपिकीय)/ स्टेनो
सीबीसीआईडी मुख्यालय ,लखनऊ
उत्तर प्रदेश

श्री सत्यवीर सिंह
उप पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल
उत्तराखंड

श्री अरुण कुमार पाण्डे
उप पुलिस अधीक्षक
सीआईडी मुख्यालय देहरादून
उत्तराखंड

श्री रमेश चंद्र कुकरेती
हेड कांस्टेबल
सतर्कता सेक्टर ,देहरादून
उत्तराखंड

श्री महेन्द्र सिंह
निरीक्षक
जिला उधम सिंह नगर
उत्तराखंड

श्री प्रदीप कुमार दत्त
पुलिस निरीक्षक
18, लालबाजार स्ट्रीट, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री दीपंकर चक्रवर्ती
पुलिस निरीक्षक
यातायात पुलिस, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री सुनील हाजरा
पुलिस निरीक्षक
6वीं बटालियन, केएपी, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री अरिन्दम दास
पुलिस निरीक्षक
सीआई, सोनामुखी
पश्चिम बंगाल

श्री पार्थ सारथी मुखार्जी
पुलिस निरीक्षक
18, लालबाजार स्ट्रीट, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री पवित्र कान्ति हाटि
सुपरवाइजर (तकनीकी) ग्रेड-II
पश्चिम बंगाल पुलिस
दूरसंचार मुख्यालय कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री डरेल ईऊजिन उइलियाम
पुलिस सुबेदार
पीटीएस कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री पंचानन मुखर्जी
उप निरीक्षक
रिजर्व आफिस, हुगली
पश्चिम बंगाल

श्री अशोक कुमार कचारी
सुबेदार
ईएफआर 2री बटालियन, डाकखाना सलुवा
पश्चिम बंगाल

श्री बैकुंठ नाथ ओझा
कांस्टेबल
विशेष शाखा कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री मनोतोष चौधरी
सहायक उप-निरीक्षक
पीटीसी बैरकपुर
पश्चिम बंगाल

श्री प्रदीप दास
सहायक पुलिस उप-निरीक्षक
आसूचना शाखा, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री उत्तम कुमार कुंडु
सहायक उप निरीक्षक
सियालदाह जीआरपी, 20 जिला दमदम रोड
कोलकाता, पश्चिम बंगाल

श्री असीम कुमार माइति
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
विशेष शाखा कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री दूलू राम दामाई
कांस्टेबल
पुलिस लाईन वर्धवान
पश्चिम बंगाल

श्री संदीप कुमार दान
सहायक उप निरीक्षक
झारग्राम पुलिस स्टेशन, पश्चिम मिदनापुर
पश्चिम बंगाल

श्री समीर कुमार मुखर्जी
कांस्टेबल
सीआईडी, कोलकाता
पश्चिम बंगाल

श्री के आर कुरूप
निरीक्षक
एसएचओ पहाड़ गांव, पोर्ट ब्लेयर
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

श्री सुधांशु शेखर श्रीवास्तव
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
चंडीगढ़

श्री के आई अहम्मद
पुलिस निरीक्षक
पुलिस मुख्यालय, कावाराती
लक्षद्वीप

श्री ए नंदगोपाल
पुलिस अधीक्षक
दक्षिणी क्षेत्र
पुडुचेरी

श्री राम बालक सिंह
कमांडेंट
डीजीएआर मुख्यालय शिलांग
असम राइफल्स

श्री मत्ता प्रसाद राव
सेकेन्ड इन-कमांड
निदेशक एआरजीआईएस मुख्यालय शिलांग
असम राइफल्स

श्री होम नाथ छेत्री
नायब सुबेदार
डीजीएआर मुख्यालय शिलांग
असम राइफल्स

श्री दिल बहादुर छेत्री
सुबेदार
12 एआर, चासाड(मणिपुर), मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री जसवंत सिंह
सुबेदार
24 एआर, दिमापुर (नागालैंड), मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री गोपाल दत्त शर्मा
सुबेदार
24 एआर, खेतेलमानबी(मणिपुर),
मार्फत 99 एपीओ, असम राइफल्स

श्री बाम देव पौडेल
सुबेदार (लिपिक)
28 एआर, खेतेलमानबी, मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री शंभु प्रसाद मैथानी
सुबेदार
28 एआर, खेतेलमानबी मणिपुर, मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री लाल बहादुर घर्ती
सुबेदार मेजर
34 एआर, मार्फत 99 एपीओ, थोबाल, मणिपुर
असम राइफल्स

श्री होम बहादुर क्षेत्री
सुबेदार
34 एआर, थोमबल मणिपुर, मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री केशवानंद सुन्दरियाल
हिन्दी अध्यापक
35 एआर, मार्फत 99 एपीओ
असम राइफल्स

श्री मधुकर लाल पासी
सुबेदार मेजर (सीएलके)
डीजीएआर मुख्यालय (क्यू शाखा), शिलांग
असम राइफल्स

श्री महेश्वरा कुमार के एस
सुबेदार (सीएलके)
लेखपानी जिला- तिनसुखिया, असम
असम राइफल्स

श्री बृजेश कुमार मेहता
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू, बेहरामपुर,
जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल
सीमा सुरक्षा बल

श्री रमेश चंद्रा ध्यानी
उप महानिरीक्षक
एफटीआर मुख्यालय, जोधपुर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री रमेश चंद्र गौड़
उप महानिरीक्षक
विशेष मुख्यालय डीजी (पूर्व) कोलकाता,
पश्चिम बंगाल, सीमा सुरक्षा बल

श्री राजेन्द्र पाण्डे
उप महानिरीक्षक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री दशरथ एस राठौर
उप महानिरीक्षक
एफटीआर मुख्यालय, पलोरा कैम्प, जम्मू
सीमा सुरक्षा बल

श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी
उप महानिरीक्षक
मुख्यालय एम फ्रन्टियर, शिलांग, मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री करन सिंह राठौर
कमांडेंट
13वीं बटालियन, गांधी नगर, जिला- कूच बिहार
सीमा सुरक्षा बल

श्री कुलदीप कुमार गुलिया
कमांडेंट
एफटीआर मुख्यालय, सिलीगुड़ी,
जिला- दार्जिलिंग
सीमा सुरक्षा बल

श्री जोर्ज मंजुरन
कमांडेंट
एसएचक्यू, गांधीनगर,
सीमा सुरक्षा बल

श्री मृदुल सोनोवाल
कमांडेंट
83वीं बटालियन. मावपत, जिला पूर्व काशी हिल्स,
मेघालय, सीमा सुरक्षा बल

श्री यशवंत सिंह कमांडेंट सेक्टर मुख्यालय, जैसलमेर(उत्तरी), राजस्थान सीमा सुरक्षा बल	श्री राजिन्दर सिंह यादव सेकेण्ड इन-कमांड एसएचक्यू फिरोजपुर, (पंजाब) सीमा सुरक्षा बल
श्री इन्द्राज सिंह कमांडेंट 03 बटालियन., अजनाला, जिला-अमृतसर, पंजाब सीमा सुरक्षा बल	श्री राम सरूप जाखड़ सेकेड-इन- कमांड 44वीं बटालियन, सतराना जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) सीमा सुरक्षा बल
श्री डोयखोसे हाऊकिय कमांडेंट 78वीं बटालियन बाडमेर, राजस्थान सीमा सुरक्षा बल	श्री शेओ नारायण उप कमांडेंट 141 वीं बटालियन, हिन्दवाडा, मार्फत 56 एपीओ सीमा सुरक्षा बल
श्री बी एस राजपुरोहित कमांडेंट एसएचक्यू, भुज, कोडकी, जिला- कच्छ, गुजरात सीमा सुरक्षा बल	श्री राम सहाय उप कमांडेंट 94वीं बटालियन., पोस्ट-कल्याणी जिला- नादिया (पश्चिम बंगाल) सीमा सुरक्षा बल
श्री बलविन्दर सिंह बाजवा कमांडेंट प्रशिक्षण निदेशालय., बल मुख्यालय, नई दिल्ली सीमा सुरक्षा बल	श्री राम किशन सलारिया उप कमांडेंट 71वीं बटालियन जिला-गुरदासपुर (पंजाब) सीमा सुरक्षा बल
श्री कुमन सिंह गुन्जयाल कमांडेंट 06वी बटा . फटीकेहरा, जिला-पश्चिम त्रिपुरा सीमा सुरक्षा बल	श्री भूप सिंह बिश्नोई सहायक कमांडेंट 44वीं बटालियन, सतराना, जिला-श्रीगंगानगर (राजस्थान) सीमा सुरक्षा बल
श्री विजय यादव एलओ गेड-I/कमांडेंट एफटीआर मुख्यालय, त्रिपुरा, पोस्ट- सालबागान अगरतला, सीमा सुरक्षा बल	श्री जगदीश पुरोहित सहायक कमांडेंट 85वीं बटालियन, बांदीपुर (जम्मू और कश्मीर) सीमा सुरक्षा बल
डा. अनिरबन राय कमांडेंट (मेडि.) एफटीआर मुख्यालय , जोधपुर (राजस्थान) सीमा सुरक्षा बल	

श्री पी के कुट्टी
सहायक कमांडेंट
टी एस यू, टेकनपुर, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)
सीमा सुरक्षा बल

श्री गोपाल सिंह अधिकारी
निरीक्षक
एसएचक्यू, उदयपुर, जिला-त्रिपुरा (दक्षिण)
सीमा सुरक्षा बल

श्री झूमर राम
निरीक्षक
12वीं बटालियन सीमा नगर कैम्पस, नादिया,
पश्चिम बंगाल, सीमा सुरक्षा बल

श्री कालू राम तिवारी
निरीक्षक
91वीं बटालियन. पैन्थी, जम्मू, मार्फत 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री सी मुनी राज
निरीक्षक
98वीं बटालियन, जिला- काशी हिल्स मेघालय
सीमा सुरक्षा बल

श्री तिलक सिंह परमार
निरीक्षक
78वीं बटालियन, जलीपा, बाइमेर, राजस्थान
सीमा सुरक्षा बल

श्री गिरीश चंद्र पंत
निरीक्षक(तकनीक)
एफआरटी मुख्यालय, गुजरात,
जिला- गांधीनगर (गुजरात)
सीमा सुरक्षा बल

श्री बृजेन्द्र सिंह
निरीक्षक(मिन)
77 बटालियन. नलकाता, जिला-धलाई (त्रिपुरा)
सीमा सुरक्षा बल

श्री प्रेम चंद्र भट्ट
निरीक्षक(पीए)
एसएचक्यू, तेलियामुरा
जिला- त्रिपुरा (पश्चिम)
सीमा सुरक्षा बल

श्री रणजीत सिंह
उप-निरीक्षक
181वीं बटालियन. पानीसागर- पोस्ट त्रिपुरा (उत्तरी)
सीमा सुरक्षा बल

श्री कैलाश पति मिश्रा
उप-निरीक्षक
87वीं बटालियन. अराधपुर, नरायनपुर
जिला मालदा (पश्चिम बंगाल)
सीमा सुरक्षा बल

श्री जीत सिंह
उप-निरीक्षक
171वीं बटालियन. मार्फत 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री बबुल कुमार दत्ता
उप-निरीक्षक
32वीं बटालियन. अखनूर, जम्मू मार्फत 56 एपीओ
सीमा सुरक्षा बल

श्री कमलजीत सिंह
उप-निरीक्षक/साईफर
सीएसडब्ल्यूटी, इंदौर (मध्य प्रदेश)
सीमा सुरक्षा बल

श्री ईश्वर सिंह लाम्बा
उप-निरीक्षक(एम)
डीआईजी (मुख्यालय) बल मुख्यालय, सेक्टर-I,
पूर्वी ब्लॉक आर. के. पुरम, नई दिल्ली
सीमा सुरक्षा बल

श्री सुलतान सिंह
हेड कांस्टेबल
137वीं बटालियन., पोस्ट- रायसिंगनगर,
श्रीगंगानगर (राजस्थान)
सीमा सुरक्षा बल

श्री जोगिन्दर पाल
वाटर कैरियर
61वीं बटालियन. खासियामंगल, तेलियामुरा
जिला त्रिपुरा (पश्चिम), त्रिपुरा
सीमा सुरक्षा बल

डा. (सुश्री) नीरजा गोत्रु
उप महानिरीक्षक
एमडीएमए, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री राकेश अग्रवाल
उप महानिरीक्षक
एसी-1, दिल्ली

श्री अनुराग
उप पुलिस महानिरीक्षक
एसटीएफ, नई दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री महेश कुमार अग्रवाल
उप पुलिस महानिरीक्षक
एसीबी, चडीगढ
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री वी.ए. मोहन
पुलिस अधीक्षक
एसीबी तिरुवनन्तपुरम
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री वेद प्रकाश शर्मा
अपर पुलिस अधीक्षक
ईओ-III, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री सुधाकर श्याम किशोर
उप पुलिस अधीक्षक
एससी-1, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री एन रविन्द्रनाथन नायर
पुलिस निरीक्षक
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, एसीबी, चैन्नई

श्री संदीप घोष
पुलिस निरीक्षक
ईओडब्ल्यू कोलकाता
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अशोक कुमार शर्मा
उप पुलिस निरीक्षक
सी बी आई, एसी-III, दिल्ली
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री राज रतन
उप पुलिस निरीक्षक
एस. यू. दिल्ली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री गोबिन्द चंद्र नाथ
सहायक पुलिस उप निरीक्षक
एस. यू. कोलकाता केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री श्रीकृष्ण यादव
हेड कांस्टेबल
एसी-II, दिल्ली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री फूल सिंह
हेड कांस्टेबल
सतर्कता प्रकोष्ठ, दिल्ली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री समीर कुमार कर्माकर
कांस्टेबल
बीएस एण्ड एफसी, कोलकाता
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

श्री अजय भटनागर
उप महानिरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सुनील कुमार हाजरा
वरिष्ठ कमांडेंट
यूसीआईएल, जादुगुडा, झारखंड
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री घनश्याम पाण्डेय
कमांडेंट
बीएसएल बोकारो झारखंड
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बिजय कुमार दास
उप कमांडेंट
सीआईएसएफ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
एयरपोर्ट कोलकाता, पश्चिम बंगाल
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री विश्वम्भर सिंह
उप कमांडेंट
बीएआरसी तारापुर, जिला थाणे, महाराष्ट्र
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री माली राम
निरीक्षक
बीआरपीएल बोंगाईगांव
जिला- ढालीगांव, असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अवध राम बंछोर
उप-निरीक्षक
बीएआरसी मुम्बई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बिपिन बिहारी सारंगी
उप-निरीक्षक
आईजीआई एअरपोर्ट, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री सैयद राहुल अमीन
उप-निरीक्षक
आयल दुलियाजन,
जिला- डिब्रुगढ़, असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मम राज
उप-निरीक्षक
बीएसपीएस सुरगनी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नंदन सिंह
सहायक उप-निरीक्षक
डीएचईपी दुलहस्ती, जिला-किस्तवाड,
जम्मू और कश्मीर, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री राधे श्याम
सहायक उप-निरीक्षक
ओएनजीसी नजीरा, जिला-शिवसागर, असम
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री शंकराय्या कोपाला
हेड कांस्टेबल
एनएमपीटी, मंगलौर
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री बिनोद बिहारी जेना
हेड कांस्टेबल
बीसीसीएल, सीसीडब्ल्यूओ, धनबाद, झारखंड
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री इरफान अहमद
हेड कांस्टेबल
आरजीआई एयरपोर्ट, हैदराबाद
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री मुसीपाल्ला नारायना रेड्डी
हेड कांस्टेबल
बंगलौर एयरपोर्ट
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री अवधेश कुमार सिंह
हेड कांस्टेबल
एचईसी रांची, झारखंड
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री डोमनिक लकडा
हेड कांस्टेबल
आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

श्री नागराजन पेन्मुर
उप पुलिस महानिरीक्षक
जालन्धर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शाम चंद
उप पुलिस महानिरीक्षक
श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सरबजीत सिंह
उप पुलिस महानिरीक्षक
पुणे रेंज, विष्णुपुरी, तालेगांव, महाराष्ट्र
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डा० प्रताप सिंह
उप पुलिस महानिरीक्षक
बंगलौर रेंज,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डा० सी.बी.एस चोहान
उप पुलिस महानिरीक्षक(एमईडी)
कमपोसिट हॉस्पिटल, पुणे, पोस्ट-
विष्णुपुरी, तालेगांव, महाराष्ट्र
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

डा. सोमनाथ दासु राव हनचेट्टी
उप महानिरीक्षक (एमईडी)
कोमपोसिट होस्पिटल, बिलासपुर, बिलासपुर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बलविन्दर सिंह गुजराल
कमांडेंट
192वीं बटालियन, अजमेर (राजस्थान)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दरबारा सिंह बैस
कमांडेंट
82वीं बटालियन., श्रीनगर, मार्फत 56 एपीओ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री विद्युत सेनगुप्ता
कमांडेंट
डीआईजीपी का कार्यालय सिलीगुडी,
दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी

कमांडेंट

डीआईजीपी का कार्यालय, लखनऊ

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमति.सीमा ढूंडिया

कमांडेंट

88(एम), द्वारका, नई दिल्ली

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

सुश्री. एनी अब्राहम

कमांडेंट

75वीं बटालियन,

(वर्तमान में यू एन मिशन लाइबेरिया में),

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री भूपेन्द्र सिंह

कमांडेंट

193वीं बटालियन लिथरन कैम्प, जालन्धर (पंजाब)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती उषा किरन कन्दुलना

कमांडेंट

135वीं बटालियन, ग्रुप सेन्टर, गांधी नगर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरेश कुमार यादव

सेकेन्ड-इन-कमांड

60वीं बटालियन, गमईवारी, तेलीयामुरा

(पश्चिम बंगाल),

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री धर्मपाल सिंह राणा

सेकेन्ड-इन-कमांड

33बटालियन., जम्मू (जम्मू और कश्मीर)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रघुवीर सिंह राघवे

सेकेन्ड इन कमांड

85वीं बटालियन, बीजापुर (छत्तीसगढ़)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री विजय प्रकाश शर्मा

सेकेन्ड इन कमांड

1 सिंगनल बटालियन, झड़ोदा कला, नई दिल्ली

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री चतर सिंह

उप कमांडेंट

ग्रुप सेंटर कादरपुर, गुडगांव

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शिव कुमार शर्मा

उप कमांडेंट

बल मुख्यालय, नई दिल्ली

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

श्री शिरपाल सिंह

उप कमांडेंट

76वीं बटालियन. चन्नी हिम्मंत, जम्मू

(जम्मू और कश्मीर)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मदन लाल

उप कमांडेंट

163वीं बटालियन. कांजीगुंड, अनन्तनाग

(जम्मू और कश्मीर)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा

सहायक कमांडेंट

सिंगनल बटालियन., हैदराबाद

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दीप चंद

सहायक कमांडेंट

176वीं बटालियन., वारीपोरा, बुडगाम, श्रीनगर
(जम्मू और कश्मीर)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शंकर तिर्की

सहायक कमांडेंट

ग्रुप सेन्टर, सिन्दरी धनबाद, झारखंड

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रामचन्द्रन गोपालन

प्रशासनिक अधिकारी

आईजीपी का कार्यालय, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री पी.ए. कृष्णन

प्रशासनिक अधिकारी

एनईएस मुख्यालय, शिलांग

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शिव चंद्र प्रसाद

प्रशासनिक अधिकारी

विशेष सेक्टर, दिल्ली.

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री अशोक कुमार अग्रवाल

कार्यालय अधीक्षक

ग्रुप सेन्टर नीमच (मध्य प्रदेश)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री विरेन्द्र सिंह रावत

निरीक्षक/ सीआरपीटीओ

5वीं सिगनल बटालियन., चडीगढ

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दयानंद

निरीक्षक

26वीं बटालियन. चास बोकारो (झारखंड)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री निर्मल सिंह

निरीक्षक

143वीं बटालियन, इम्फाल, पश्चिम मणिपुर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री ब्रिज किशोर सिंह

उप-निरीक्षक

26वीं बटालियन. चास बोकारो (झारखंड)

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री फूल चंद

उप-निरीक्षक

157वीं बटालियन. बटमाल श्रीनगर

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बिकानु यादव

उप-निरीक्षक

ग्रुप सेंटर, चिलोडा, गांधी नगर,

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रतन चन्द

उप-निरीक्षक

43 बटालियन बडगांम

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री हरेन्द्र सिंह

उप-निरीक्षक

180 बटालियन, पुलबामा मार्फत 56 ए पी ओ

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री दिनेश कुमार यादव
उप-निरीक्षक
132 बटालियन, श्रीनगर, मार्फत 56 ए पी ओ
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री सुमेर सिंह
उप-निरीक्षक
डी आई जी पी का कार्यालय, श्रीनगर
(जम्मू एण्ड कश्मीर) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री आर. दीना दयालन
उप-निरीक्षक
19 बटालियन. आर एस पी, रउरकेला, उड़ीसा.
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री बिहारी लाल
उप-निरीक्षक
22वीं बटालियन. हजारीबाग, झारखंड
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राम करण तिवारी
उप-निरीक्षक
ग्रुप केन्द्र योलाहंका, बंगलौर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री शफी मोहम्मद
उप-निरीक्षक
आरटीसी, धर्मपुर, सोलन (हिमाचल प्रदेश)
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री मुरारी लाल
हेड कांस्टेबल/झाईवर
ग्रुप सेंटर, झडोदा कलां, नई दिल्ली.
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री राजेन्दर सिंह
हेड कांस्टेबल
ग्रुप सेंटर, पल्लीपुरम, त्रिवेन्दम
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री गुलाम हुसैन शाह
हेड कांस्टेबल
2 बटालियन, दांतेवाड़ा, छत्तीसगढ़
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री चेल्लप्पन नन्दन
उप-निरीक्षक
आरटीसी, पेरिनगांव, कन्नूर, केरल
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्रीमती. माया भट्टाचार्य
नर्सिंग सहायक
ग्रुप सेंटर, गांधी नगर
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री जगत राम
बारबर
22वीं बटालियन. हजारीबाग, झारखंड
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री रामा राम पाण्डे
वाटर कैरियर
22वीं बटालियन, हजारीबाग, झारखंड
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

श्री प्रवीण कुमार
उप निदेशक
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री विनायक प्रभाकर आपटे

उप निदेशक

मुम्बई

गृह मंत्रालय

श्री मनमोहन सिंह

सहायक निदेशक/एसओ

नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री राजेश खुराना

उप निदेशक

नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री बालियाडा ईरापा पुनाचा

सहायक निदेशक

नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री कुंदन कृष्णन

उप निदेशक

नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री अशोक कुमार सिंह

सहायक निदेशक

रांची

गृह मंत्रालय

श्री अनुराग कुमार

उप निदेशक

नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री हरपाल सिंह

उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी

दिल्ली

गृह मंत्रालय

सुश्री. कला रामचन्द्रन

उप निदेशक

नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री त्रिलोक नाथ पाण्डेय

उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी

आई बी मुख्यालय, नई दिल्ली

गृह मंत्रालय

श्री विनीत देव वानखेडे

उप निदेशक

आई टी बी एफ, लेह

गृह मंत्रालय

श्री सुर्यकांत रघुनाथ सुर्वे

उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी

नागपुर

गृह मंत्रालय

श्री अमरदीप सिंह राय

उप निदेशक

अमृतसर

गृह मंत्रालय

श्री भागीरथ टेलर

उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी

जोधपुर

गृह मंत्रालय

श्री एम बालासुब्रामणियन

अपर उप निदेशक(एम)

चैन्नई

श्री श्याम सुन्दर शर्मा
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी- I/डब्ल्यूटी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री कृष्णा रेड्डी
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी- II/जी
नई दिल्ली
गृह मंत्रालय

श्री संजय कुमार रीव्
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी- I/जी
श्रीनगर
गृह मंत्रालय

श्री ओइनम स्टालिन सिंह
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी- I/जी
इम्फाल
गृह मंत्रालय

श्री जसपाल सिंह
उप महानिरीक्षक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री मनोज कुमार सिंह
कमांडेंट
10वीं बटालियन.कीमिन (अरुणाचल प्रदेश)
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री प्रेम लाल
उप कमांडेंट
8वीं बटालियन. गोचेर चमौली (उत्तराखंड)
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री दिनेश चंद्र शर्मा
उप कमांडेंट (ईएनजीआर)
20वीं बटालियन. आलो (अरुणाचल प्रदेश)
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री अचछर सिंह
सहायक कमांडेंट
18वीं बटालियन, जालन्धर
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री नरेन्द्र कुमार मनराल
सहायक कमांडेंट (एसओ)
एनडब्ल्यू फंटीयर, चडीगढ
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री यशवंत सिंह रावत
निरीक्षक
12वीं बटालियन, मातली, उत्तरकाशी, उत्तराखंड
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री प्रताप सिंह
हेड कांस्टेबल/मेडिक.
19वीं बटालियन बोनडा सरहद
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस

श्री महेश चंद्र शर्मा
ग्रुप कमांडर
प्रशिक्षण केन्द्र, मनेसर गुडगांव हरियाणा
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री बलबीर सिंह
सहायक कमांडर-II (एम)
राष्ट्रीय सुरक्षा गादर मुख्यालय, मेहराम नगर,
नई दिल्ली, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री विजयन इट्टेदार
सहायक कमांडर-I (एमआईएन)
मुख्यालय, मेहराम नगर, नई दिल्ली
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री लील बहादुर श्रेष्ठ
सहायक कमांडर-I (जीडी)
12वीं एसआरजी, मनेसर गुडगांव, हरियाणा
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री मोती लाल शर्मा
सहायक कमांडर-I(मिन)
मुख्यालय, मेहराम नगर, नई दिल्ली
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

श्री बसंत बल्लभ जोशी
उप महानिरीक्षक
एसएचक्यू, रानीदंगा
सशस्त्र सीमा बल

श्री कुमार पाल सिंह
कमांडेंट
5वीं बटालियन लखीमपुर खीरी
सशस्त्र सीमा बल

श्री राजेन्द्र सिंह राणा
सहायक निदेशक
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री हरीश चंद्र जोशी
सहायक कमांडेंट
16वीं बटालियन
सशस्त्र सीमा बल

श्री नरोत्तम देव
निरीक्षक
38वीं बटालियन, तवांग, अरुणाचल प्रदेश
सशस्त्र सीमा बल

श्री जयन्ता कुमार लोध
सुबेदार मेजर (पीए)
बल मुख्यालय, नई दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री घनश्याम जोशी
अधिशिषी अभियंता
फ्रंटियर मुख्यालय, गुवाहाटी
सशस्त्र सीमा बल

श्री सैलेन्द्र सिंह
उप निरीक्षक
31 बटालियन, गोसागांव
सशस्त्र सीमा बल

श्री श्याम सिंह
महानिरीक्षक
फ्रंटियर मुख्यालय पटना
सशस्त्र सीमा बल

श्री के.एम. करिअप्पा
सहायक निदेशक
बल मुख्यालय दिल्ली
सशस्त्र सीमा बल

श्री रूप सिंह
सहायक कमांडेंट
टीसी सलोनबारी, असम
सशस्त्र सीमा बल

श्री सजय कुमार मिश्रा
सहायक महानिरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

श्री के थॉमस जॉब
सहायक महानिरीक्षक
मुख्यालय, नई दिल्ली
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

श्री एम रामाकृष्णा
वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी (तकनीक)
मुख्यालय, नई दिल्ली
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

श्री पी एस सुधीर कुमार
कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी (तकनीक)
मुख्यालय, नई दिल्ली
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

श्री गिरि राज सिंह
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक (तकनीक)
मुख्यालय, नई दिल्ली
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

श्री स्वपन कुमार डे
वरिष्ठ सुरक्षा सहायक (तकनीक)
मुख्यालय, नई दिल्ली
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप

श्री गोपाल प्रधान
हेड कांस्टेबल
उमसा उनियाम,
पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी

श्रीमती नीलम गेरा
स्टेनो ग्रेड.II (पीए)
मुख्यालय, नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

श्री गणेशन मूर्ति
लेखाकार
मुख्यालय, नई दिल्ली
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

श्री हरमोहन सिंह गोवर
साईफर सहायक
नई दिल्ली
पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय

श्री जैकाब पॉल
उप अधीक्षक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

श्री अशोक कुमार राय
रिजर्व निरीक्षक(लाइंस)
हैदराबाद
एसवीपी एनपीए

श्री सत्यवीर सिंह
उप-निरीक्षक(राइडिंग)
हैदराबाद
एसवीपी.एनपीए

श्री पी नागभूषणम
हेड कांस्टेबल(एडीआई)
हैदराबाद
एसवीपी. एनपीए

श्री यतेन्द्र कुमार गौतम
उप महानिरीक्षक
नई दिल्ली
राष्ट्रीय जांच एजेंसी

डा. निर्मल कुमार आजाद
निदेशक
पार्लियामेंट भवन, नई दिल्ली
संसदीय कार्य मंत्रालय

डा. राजेश कुमार
राज्य मंत्री के निजी सचिव
नई दिल्ली
शहरी विकास मंत्रालय

डा. सत्येन्द्र नारायण पाण्डे
निदेशक
आरपीएफ, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

श्री संजय सांकृत्यायन
उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त
जयपुर
रेल मंत्रालय

श्री शरत चंद्र पाटी
वरिष्ठ संभागीय सुरक्षा आयुक्त
सेंट्रल रेल, सीएसटी, मुम्बई
रेल मंत्रालय

श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव
वरिष्ठ सम्भागीय सुरक्षा आयुक्त
वडोदरा, गुजरात
रेल मंत्रालय

श्री रणवीर सिंह चौहान
उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त
इलाहाबाद
रेल मंत्रालय

श्री कैलाश सिंह चौहान
निरीक्षक/रेल पुलिस फोर्स
प्रताप नगर, वडोदरा सम्भाग
रेल मंत्रालय

श्री डब्ल्यू एस विजयारंगम
निरीक्षक/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
आईसीएफ/चैन्नई,
रेल मंत्रालय

श्री किलार सिंह डागर
निरीक्षक
9वीं बटालियन आरपीएसएफ, जगाधरी वर्कशाप
हरियाणा, रेल मंत्रालय

श्री धनुरजय तराई
उप निरीक्षक
7वीं बटालियन आरपीएसएफ, मौला -अली
रेल मंत्रालय

श्री शैख मस्तान वली
सहायक उप-निरीक्षक
विशेष आसूचना शाखा
एससीआर, सिकन्दराबाद
रेल मंत्रालय

श्री राम सेवक ध्यानी
सहायक उप निरीक्षक
वरिष्ठ. एससी आफिस इलाहाबाद
रेल मंत्रालय

श्री बेचई राम यादव
सहायक उप-निरीक्षक/आरपीएफ
एनसीआर मुख्यालय इलाहाबाद
रेल मंत्रालय

श्री चमन प्रसाद श्रेष्ठ
हेड कांस्टेबल
डीएससी रिजर्व कम्पनी/आर
जिला रायपुर, छत्तीसगढ़
रेल मंत्रालय

श्री जहूर हैदर जैदी
उप महानिरीक्षक/
निजी सचिव रेल राज्य मंत्री
रेल भवन, नई दिल्ली
रेल मंत्रालय

2. ये पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक
प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम
4(ii) के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 मार्च 2010

सं. 4/1/आरसीसी-09--लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश दर की समीक्षा करने के साथ-साथ सामान्य वित्त की तुलना में रेल वित्त से संबंधित अन्य अनुषंगी मामलों की समीक्षा करने हेतु संसदीय समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है :-

सदस्य
लोक सभा

1. श्री हंसराज गं. अहीर
2. डा. बलीराम
3. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे
4. श्री पी. बलराम नाईक
5. श्री आर. के. सिंह पटेल
6. श्री रामसिंह राठवा
7. श्री अर्जुन राय
8. श्री सी. एल. रुआला
9. श्री अर्जुन चरण सेठी
10. श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण)
11. श्री के. सी. वेणुगोपाल
12. डा. गिरिजा व्यास

राज्य सभा

13. श्री श्यामल चक्रवर्ती
14. श्री ए. इलावरसन
15. श्री परवेज़ हाशमी
16. श्री रामचन्द्र खूँटिआ
17. श्री रणजितसिंह मोहिते-पाटील
18. श्री श्रीगोपाल व्यास

2. माननीय अध्यक्ष ने श्री अर्जुन चरण सेठी को समिति का सभापति नियुक्त किया है।

अभिजीत कुमार
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 26th January, 2010

No. 33—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Param Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of the most exceptional order:-

1. IC-23689 LIEUTENANT GENERAL NARINDER SINGH BRAR,
AVSM, VSM (RETIRED), REGIMENT OF ARTILLERY
2. IC-23791 LIEUTENANT GENERAL SAMER PAL SINGH DHILLON,
AVSM, VSM (RETIRED), REGIMENT OF ARTILLERY
3. IC-24006 LIEUTENANT GENERAL PRAKASH CHAND KATOCH,
UYSM, AVSM, SC (RETIRED), INFANTRY
4. IC-24194 LIEUTENANT GENERAL MANBIR SINGH DADWAL,
BAR TO AVSM, VSM, INFANTRY
5. IC-24198 LIEUTENANT GENERAL CHANDROTH KUNNUMAL
SUCHINDRA SABU, AVSM, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY,
HEADQUARTERS SOUTH WESTERN COMMAND
6. IC-24219 LIEUTENANT GENERAL AJAY KUMAR SINGH
CHANDELE, AVSM, CORPS OF ELECTRONICS AND
MECHANICAL ENGINEERS
7. IC-24260 LIEUTENANT GENERAL BALRAJ SINGH NAGAL, AVSM,
SM, INFANTRY, STRATEGIC FORCES COMMAND
8. IC-24283 LIEUTENANT GENERAL RAKESH KUMAR LOOMBA,
AVSM, ARMOURED CORPS
9. IC-24584 LIEUTENANT GENERAL BALJIT SINGH JASWAL, BAR
TO AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS ARMY TRAINING
COMMAND

10. IC-24706 LIEUTENANT GENERAL KAMMULA RAMACHANDRA RAO, AVSM, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY
11. IC-25053 LIEUTENANT GENERAL DALIP BHARDWAJ, VSM, ARMoured CORPS
12. IC-25064 LIEUTENANT GENERAL SHREEDHARAN SHYAM KUMAR, AVSM, SM, VSM, INFANTRY
13. IC-25126 LIEUTENANT GENERAL RAJINDER SINGH SUJLANA, AVSM, VSM, INFANTRY / INDIAN MILITARY ACADEMY
14. IC-25213 LIEUTENANT GENERAL MUKESH SABHARWAL, BAR TO AVSM, VSM, INFANTRY
15. IC-25439 LIEUTENANT GENERAL VINAY SHARMA, SM, VSM, INFANTRY
16. IC-25469 LIEUTENANT GENERAL KARAN SINGH YADAVA, AVSM, SM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTER DIRECTORATE GENERAL ASSAM RIFLES
17. IC-29915 LIEUTENANT GENERAL VINOD CHOPRA, BAR TO AVSM, INFANTRY/ PRESIDENT'S SECRETARIAT
18. MR-02838 LIEUTENANT GENERAL OOMMAN PAUL MATHEW, AVSM, SM (RETIRED), ARMY MEDICAL CORPS
19. MR-03364 LIEUTENANT GENERAL NARESH KUMAR PARMAR, AVSM, VIR CHAKRA, VSM, ARMY MEDICAL CORPS / DIRECTORATE GENERAL ARMED FORCES MEDICAL SERVICES
20. VICE ADMIRAL SANJEEV BHASIN, AVSM, VSM, (01248-K)
21. VICE ADMIRAL KN SUSHIL, AVSM, NM (01369-K)
22. VICE ADMIRAL DILIP DESHPANDE, AVSM, VSM, (40385-H) (RETIRED)
23. AIR MARSHAL JYOTI NARAYAN BURMA AVSM VSM (13219) ADMINISTRATION

24. AIR MARSHAL VENKATRAMAN RAMAMURTHY IYER, AVSM, (12939) FLYING (PILOT)
25. AIR MARSHAL TEJBIR SINGH RANDHAWA, VM (12947) FLYING (PILOT)
26. AIR MARSHAL NORMAN ANIL KUMAR BROWNE, AVSM VM (13129) FLYING (PILOT)
27. AIR MARSHAL KESHAVA MURTHY RAMA SUNDARA, AVSM VSM (12833) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
28. AIR MARSHAL PRAMOD VASANT ATHAWALE, AVSM, VSM (13472) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 34—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Uttam Yuddh Seva Medal**” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:

1. IC-25538 LIEUTENANT GENERAL RABINDRAN KRISHNA SWAMY, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 16 CORPS
2. IC-25816 LIEUTENANT GENERAL BIKRAM SINGH AVSM, SM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 15 CORPS
3. IC-25901 LIEUTENANT GENERAL PARNAIK KAIWALAYA TRIVIKRAM, YSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 4 CORPS
4. IC-30766 MAJOR GENERAL VENKATESH SIDDALINGAPPA SOMANA GOUDAR, AVSM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE (KILO)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 35—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Ati Vishisht Seva Medal**” to **IC-25457 Lieutenant General Vijay Kumar Ahluwalia, AVSM, YSM, VSM, Regiment of Artillery/ Headquarters 14 Corps** for distinguished service of an exceptional order.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 36—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Ati Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of an exceptional order:-

1. IC-24654 LIEUTENANT GENERAL TEJINDER SINGH,
VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS INTEGRATED DEFENCE
STAFF
2. IC-25056 LIEUTENANT GENERAL INDERJIT SINGH,
VSM, CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS /
MILITARY COLLEGE OF ELECTRICAL AND MECHANICAL
ENGINEERING, SECUNDERABAD
3. IC-25141 LIEUTENANT GENERAL DEEPAK RAJ, SM, INFANTRY /
ARMY WAR COLLEGE
4. IC-25442 LIEUTENANT GENERAL SWATANTARTA NAND HANDA,
VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS SOUTH WESTERN
COMMAND
5. IC-25646 LIEUTENANT GENERAL VIRENDER SINGH TONK,
INFANTRY / HEADQUARTERS 11 CORPS
6. IC-25825 LIEUTENANT GENERAL CHETINDER SINGH, SM, VSM,
ARMoured CORPS / HEADQUARTERS 2 CORPS
7. IC-27038 LIEUTENANT GENERAL ANAND MOHAN VERMA, SM,
VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 12 CORPS
8. IC-27146 LIEUTENANT GENERAL UMA SHANKAR PRASAD
SINHA, VSM, CORPS OF ENGINEERS / COLLEGE OF MILITARY
ENGINEERING, PUNE

9. IC-27325 LIEUTENANT GENERAL RAJESH KOCHHAR, SM, VSM, CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
10. MR-02985 LIEUTENANT GENERAL SHIV RAM MEHTA, VSM, ARMY MEDICAL CORPS / ARMY MEDICAL CORPS CENTRE AND SCHOOL, LUCKNOW
11. MR-03814 LIEUTENANT GENERAL SHIV KUMAR SHARMA, SM, VSM, ARMY MEDICAL CORPS (RETIRED)
12. V-00330 LIEUTENANT GENERAL JAI KRISHAN SRIVASTAVA, REMOUNT VETERINARY CORPS / REMOUNT VETERINARY CORPS CENTRE AND COLLEGE
13. IC-25280 MAJOR GENERAL ASHOK VASUDEO TASKAR, SM, JUDGE ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT
14. IC-25409 MAJOR GENERAL SHUJAN GOPAL CHATTERJI, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY / DIRECTORATE GENERAL OF RESETTLEMENT
15. IC-25815 MAJOR GENERAL GURDEEP SINGH, VSM, REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS DIRECTORATE GENERAL ASSAM RIFLES
16. IC-27213 MAJOR GENERAL VICKAS KAPUR, VSM (RETIRED), REGIMENT OF ARTILLERY
17. IC-27619 MAJOR GENERAL HARDEV SINGH, KIRTI CHAKRA, INFANTRY / HEADQUARTERS SOUTH WESTERN COMMAND
18. IC-30052 MAJOR GENERAL BRIJINDER SINGH DAULTA, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS UTTAR BHARAT AREA
19. IC-30076 MAJOR GENERAL SATHISH CHANDRA NAIR, VSM, INFANTRY
20. IC-30137 MAJOR GENERAL SUKHRAJ PAL KOCHHAR, SM, VSM, CORPS OF SIGNALS

21. IC-30351 MAJOR GENERAL DALBIR SINGH, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 8 MOUNTAIN DIVISION
22. IC-30389 MAJOR GENERAL SANJIV CHACHRA, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 17 MOUNTAIN DIVISION
23. IC-30485 MAJOR GENERAL UMONG SETHI, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS NORTHERN COMMAND
24. IC-30571 MAJOR GENERAL RAJEEV DATT, VSM, CORPS OF ENGINEERS
25. IC-30682 MAJOR GENERAL MANVENDER SINGH, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 5 MOUNTAIN DIVISION
26. IC-30687 MAJOR GENERAL SANJIV LANGER ARMoured CORPS/HEADQUARTERS 11 INFANTRY DIVISION
27. IC-30998 MAJOR GENERAL SUMER SINGH INFANTRY / HEADQUARTERS 4 INFANTRY DIVISION
28. IC-33450 MAJOR GENERAL DARSHAN LAL CHOWDHARY, SM, VSM, INFANTRY
29. IC-33520 MAJOR GENERAL KISHAN SINGH, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS SOUTHERN COMMAND
30. IC-33919 MAJOR GENERAL RAM SINGH PRADHAN, SM, VSM, INFANTRY / HEADQUARTERS 25 INFANTRY DIVISION
31. IC-36046 MAJOR GENERAL PRITAM SINGH CHIB, SM, INFANTRY / HEADQUARTERS 29 INFANTRY DIVISION
32. VICE ADMIRAL PARAS NATH, VSM (02373-T)
33. VICE ADMIRAL PRADIP KUMAR CHATTERJEE, NM, (01701-R)
34. VICE ADMIRAL ANURAG GOPALAN THAPLIYAL, (01773-B)
35. REAR ADMIRAL RAMAN PRABHAT, VSM, (50456-Y)
36. REAR ADMIRAL DINESH PRABHAKAR, NM, VSM, (40493-B)

37. REAR ADMIRAL CHANDER SHEKHAR PATHAM, (01660-Y)
38. COMMODORE RANVEER SINGH, NM, VSM, (01708-F)(RETD)
39. AIR MARSHAL SIMHAKUTTY VARTHAMAN VM VSM (13606) FLYING (PILOT)
40. AIR MARSHAL JOSEPH NERI VSM (13711) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
41. AIR VICE MARSHAL JALBIR SINGH BOPARAI VSM (13108) LOGISTICS
42. AIR VICE MARSHAL SALEM SUNDER RAM GUNASHEKAR VSM (13487) AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL) (RETIRED)
43. AIR VICE MARSHAL DINESH MUKUNDAN VSM (13508) ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
44. AIR VICE MARSHAL PRIYA RANJAN SHARMA (13927) FLYING (PILOT)
45. AIR VICE MARSHAL ANIL KUMAR BEHL (14446) MEDICAL
46. AIR VICE MARSHAL AJIT SHANKARRAO BHONSLE VSM (15327) FLYING (NAVIGATOR)
47. AIR COMMODORE PURAN CHAND GROVER VSM (14400) ADMINISTRATION/LEGAL
48. AIR COMMODORE RAMESH GOYAL VSM (14567) FLYING (PILOT)
49. AIR COMMODORE KULWANT SINGH GILL YSM VM (15220) FLYING (PILOT)
50. AIR COMMODORE SREEDHARA PANICKER RADHA KRISHNAN NAIR VM (16040) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 37—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Yuddh Seva Medal**” to the undermentioned personnel for the distinguished service of a high order during hostilities:

1. IC-30697 MAJOR GENERAL SANJAY VAMAN BHIDE, VSM,
INFANTRY / HEDQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE
(DELTA)
2. IC-35160 BRIGADIER ASHWANI KUMAR SIWACH, VSM
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / HEADQUARTERS 53
INFANTRY BRIGADE
3. IC-35697 BRIGADIER PREETINDER SINGH MANDER
PUNJAB REGIMENT / HEADQUARTERS 10 SECTOR ASSAM
RIFLES
4. IC-35901 BRIGADIER ANIL KUMAR SINGH SENGAR
BRIGADE OF THE GUARDS / HEADQUARTERS 8 SECTOR
RASHTRIYA RIFLES
5. IC-35912 BRIGADIER PATIL SAMPATRAO PANDURANG
ASSAM REGIMENT / HEAQUARTERS 1 SECTOR RASHTRIYA
RIFLES
6. IC-37546 BRIGADIER VIJAY PAL
RAJPUTANA RIFLES / HEADQUARTERS 68 MOUNTAIN BRIGADE
7. IC-38363 BRIGADIER MAHIWAL YADVINDER SINGH, SC, DOGRA
REGIMENT / HEADQUARTERS 9 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
8. IC-38654 BRIGADIER DEVRAJ ANBU, SM
SIKH LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS 53 INFANTRY
BRIGADE

9. IC-38674 BRIGADIER BALBIR SINGH
JAT REGIMENT / HEADQUARTERS 26 SECTOR ASSAM RIFLES
10. IC-38812 BRIGADIER PRADEEP KUMAR SINGH,
SM, VSM, RAJPUT REGIMENT/HEADQUARTERS 7 SECTOR
ASSAM RIFLES
11. IC-38952 BRIGADIER AVINASH SINGH
5/3 GORKHA RIFLES / HEADQUARTERS 102 INFANTRY BRIGADE
12. IC-39083 BRIGADIER SANJAY KUMAR JHA, SM
SIKH REGIMENT / HEADQUARTERS 9 SECTOR ASSAM RIFLES
13. IC-39098 BRIGADIER GURPRATAP SINGH DHILLON, SM, DOGRA
REGIMENT / HEADQUARTERS 73 MOUNTAIN BRIGADE
14. IC-39185 BRIGADIER AJAE KUMAR SHARMA, SM
SIKH REGIMENT / HEADQUARTERS 77 MOUNTAIN BRIGADE
15. IC-49184 COLONEL VIJAYANT YADAV
10TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)
16. IC-49545 COLONEL MANPREET SINGH BAINS,
SC, SM, 9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 38—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Vishisht Seva Medal**” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-31917 MAJOR GENERAL SURINDER MOHAN MEHTA,
SM, VSM, ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
2. IC-35183 BRIGADIER KULDIP SINGH, VSM, DOGRA REGIMENT /
HEADQUARTERS DELHI AREA

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 39-Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “Vishisht Seva Medal” to the undermentioned personnel for distinguished service of a high order :-

1. IC-25078 MAJOR GENERAL RAVINDER KUMAR SANAN
(RETIRED),
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS
2. IC-25473 MAJOR GENERAL BALJIT SINGH GREWAL
ARMoured CORPS / NATIONAL DEFENCE ACADEMY
3. IC-25648 MAJOR GENERAL ASHWANI KUMAR REKHI
REGIMENT OF ARTILLERY / SELECTION CENTRE CENTRAL,
BHOPAL
4. IC-25812 MAJOR GENERAL SUBRAMANIAN RAVI SHANKAR,
CORPS OF ENGINEERS/HEADQUARTERS EASTERN COMMAND
5. IC-25903 MAJOR GENERAL SARBJIT SINGH PAWAR
INFANTRY / HEADQUARTERS 3 CORPS
6. IC-27628 MAJOR GENERAL ASHOK SHEORAN
ARMoured CORPS / ARMoured CORPS CENTRE AND SCHOOL
7. IC-30380 MAJOR GENERAL NAGESHWAR SINGH VIDYARTHI,
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS 40 ARTILLERY
DIVISION
8. IC-30400 MAJOR GENERAL ABHINAV SRIVASTAVA
ARMY AIR DEFENCE
9. IC-30407 MAJOR GENERAL MADHUKAR NARAYAN KASHID,
REGIMENT OF ARTILLERY

10. IC-30521 MAJOR GENERAL SATISH KUMAR VIJESHWER,
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS 9 INFANTRY
DIVISION
11. IC-30745 MAJOR GENERAL RANJAN CHAND
INFANTRY / HEADQUARTERS 1 ARMOURED DIVISION
12. IC-31559 MAJOR GENERAL SANDEEP KUMAR
ARMY EDUCATIONAL CORPS
13. IC-31635 MAJOR GENERAL YASHWANT SANGRA, REGIMENT OF
ARTILLERY
14. IC-33454 MAJOR GENERAL OM PRAKASH SONI
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS 41 ARTILLERY
DIVISION
15. IC-33734 MAJOR GENERAL AMARDEEP SINGH GREWAL
INFANTRY / HEADQUARTERS COUNTER INSURGENCY FORCE
(ULTIMATE)
16. IC-36638 MAJOR GENERAL ASHOK KUMAR SRIVASTAVA
CORPS OF SIGNALS
17. IC-36711 MAJOR GENERAL SUBBARAO NARASIMHAN
CORPS OF ENGINEERS
18. MR-03516 MAJOR GENERAL MANDEEP SINGH
ARMY MEDICAL CORPS / DIRECTORATE GENERAL ARMED
FORCES MEDICAL SERVICES
19. MR-04089 MAJOR GENERAL BALI RAM JHA, ARMY MEDICAL
CORPS
20. IC-34005 MAJOR GENERAL KANWALJIT SINGH THIND,
ARMOURED CORPS / DEFENCE IMAGE PROCESSING AND
ANALYSIS CENTRE
21. IC-34648 MAJOR GENERAL SURESH CHANDRA JAIN, CORPS OF
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS / ELECTRONICS
AND MECHANICAL ENGINEERING SCHOOL, VADODARA

22. IC-30033 BRIGADIER SUBODH KAUL
BIHAR REGIMENT / TRAINING CENTRE, NATIONAL SECURITY
GUARD
23. IC-31335 BRIGADIER HARINDER SINGH DHILLON
DOGRA REGIMENT / DIRETORATE GENERAL NATIONAL CADET
CORPS
24. IC-31640 MAJOR GENERAL RAMESH KUMAR RANA, SM,
RAJPUTANA RIFLES
25. MR-03738 MAJOR GENERAL AJIT SINGH NARULA,
ARMY MEDICAL CORPS / BASE HOSPITAL, DELHI CANTONMENT
26. IC-31724 BRIGADIER PRADEEP KUMAR KAUSHIK
PARACHUTE REGIMENT / INFANTRY SCHOOL, MHOW
27. IC-31736 BRIGADIER RAJIV BHALLA, SM, JAT REGIMENT
28. IC-34080 BRIGADIER PUTHENPURECKAL CHACKO IPE
ARMOURED CORPS
29. IC-35111 BRIGADIER RANJAN KUMAR SINGH
KUMAON REGIMENT / DIRECTORATE GENERAL NATIONAL
CADET CORPS
30. IC-35581 BRIGADIER CHANDRA PRAKASH
REGIMENT OF ARTILLERY
31. IC-37593 BRIGADIER CYRUS ADDIE PITHAWALLA, AC
JAMMU AND KASHMIR RIFLES / HEADQUARTERS 3 SECTOR
RASHTRIYA RIFLES
32. IC-38234 BRIGADIER VIJAYA KUMAR SUBBIAH ANTONY, ARMY
AIR DEFENCE
33. IC-38266 BRIGADIER SURINDER SINGH
BRIGADE OF THE GUARDS / HEADQUARTERS 180 ARMOURED
BRIGADE
34. IC-38342 BRIGADIER RAKESH PRATAP SINGH BHADAURIA,
RAJPUTANA RIFLES / HEADQUARTERS 63 MOUNTAIN BRIGADE

35. IC-38377 BRIGADIER PANKAJ SINHA, SM
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS 11
MOUNTAIN BRIGADE
36. IC-38397 BRIGADIER NARESH KUMAR MEHTA
ARMY ORDNANCE CORPS/CENTRAL ORDNANCE DEPOT, AGRA
37. IC-38494 BRIGADIER ANIL KHOSLA, SM
KUMAON REGIMENT / HEADQUARTERS 108 MOUNTAIN
BRIGADE
38. IC-38722 BRIGADIER CHERISH MATHSON, SM
GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 91 INFANTRY BRIGADE
39. IC-39110 BRIGADIER SOMNATH JHA
JAMMU AND KASHMIR LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS 114
INFANTRY BRIGADE
40. IC-39280 BRIGADIER MANOJ KUMAR
CORPS OF ENGINEERS / BENGAL ENGINEER GROUP AND
CENTRE, ROORKEE
41. IC-39848 BRIGADIER BIBHUTI BHUSHAN
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS /1
ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS CENTRE
42. IC-40703 BRIGADIER HARPAL SINGH
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS
WESTERN NAVAL COMMAND
43. IC-40748 BRIGADIER HARI KRISHAN ARORA
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS
CHIEF ENGINEER DELHI ZONE
44. MR-03687 BRIGADIER MANOJ LUTHRA
ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL
(RESEARCH & REFERRAL)
45. MR-03869 BRIGADIER AKHIL KUMAR NAGPAL
ARMY MEDICAL CORPS / ARMED FORCES MEDICAL COLLEGE,
PUNE

46. MR-03934 BRIGADIER PRADEEP KUMAR PATNAIK
ARMY MEDICAL CORPS / DIRECTORATE GENERAL ARMED
FORCES MEDICAL SERVICES
47. MR-04006 BRIGADIER VED PRAKASH CHATURVEDI
ARMY MEDICAL CORPS / 151 BASE HOSPITAL
48. NR-15331 BRIGADIER ARUJAH DHYLIS
MILITARY NURSING SERVICE / HEADQUARTERS NORTHERN
COMMAND
49. IC-40818 COLONEL RAMBIR SINGH MANN
MECHANISED INFANTRY / HEADQUARTERS INTEGRATED
DEFENCE STAFF
50. IC-41131 COLONEL PREM PRASHAD MALHOTRA
CORPS OF ENGINEERS
51. IC-41464 COLONEL TEJPAL SINGH RAWAT, CORPS OF
ENGINEERS
52. IC-41530 COLONEL MANDIP SINGH, REGIMENT OF ARTILLERY
53. IC-41934 COLONEL SUNIL PURI GOSWAMI, ARMY AIR DEFENCE
54. IC-42387 COLONEL SURINDER SINGH MAHAL, ARMOURED
CORPS
55. IC-42774 COLONEL PRANAV KUMAR JAYSWAL, RAJPUTANA
RIFLES
56. IC-42837 COLONEL GURVINDER SINGH BHANDARI
ARMY AIR DEFENCE
57. IC-44275 COLONEL PAREMPATT RAMESH, REGIMENT OF
ARTILLERY
58. IC-45435 COLONEL RAM NIWAS, RAJPUT REGIMENT
59. IC-47263 COLONEL RAJEEV THAKUR, SM, MARATHA LIGHT
INFANTRY

60. IC-47999 COLONEL SANDEEP BHALLA
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS /
ARMY HEADQUARTERS STATIC WORKSHOP EME
61. IC-48145 COLONEL GOPAL VERMA, CORPS OF INTELLIGENCE
62. IC-48248 COLONEL HUNNY BAKSHI
CORPS OF INTELLIGENCE / HEADQUARTERS EASTERN
COMMAND
COUNTER INTELLIGENCE UNIT
63. IC-50292 COLONEL RAJESH SINGH, 58 ENGINEER REGIMENT
64. IC-50750 COLONEL RAJEEV SINGH RAWAT, 21ST BATTALION THE
PARACHUTE REGIMENT, (SPECIAL FORCES)
65. MR-04164 COLONEL PRADEEP KUMAR SINGH
ARMY MEDICAL CORPS / HEADQUARTERS EASTERN COMMAND
66. MR-04808 COLONEL ANIL KUMAR DHAR
ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH &
REFERRAL)
67. MR-04889 COLONEL PRASHANT BHARADWAJ
ARMY MEDICAL CORPS / COMMAND HOSPITAL, NORTHERN
COMMAND
68. IC-48933 LIEUTENANT COLONEL SURESH KUMAR A
CORPS OF ENGINEERS / 26TH INDIAN ANTARTIC EXPEDITION
69. IC-51169 LIEUTENANT COLONEL SUMIT MEHTA, ARMOURED
CORPS
70. IC-52987 LIEUTENANT COLONEL MAHABEER SINGH CHAUHAN,
14TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
71. IC-53170 LIEUTENANT COLONEL MANDEEP GREWAL,
ARMY SERVICE CORPS
72. MR-06750 LIEUTENANT COLONEL SANJAY KUMAR MISHRA,
ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH &
REFERRAL)

73. IC-65167 MAJOR NUNGLEPPAM BUDDHIMANTA SINGH, KIRTI CHAKRA, SM, 32 ASSAM RIFLES
74. TA-42382 MAJOR VISHAL BAKSHI, 150 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) PUNJAB
75. REAR ADMIRAL GURTEJ SINGH PABBY, (40869-H)
76. COMMODORE SATISH BAJAJ, (02259-H)
77. COMMODORE RATNAKAR GHOSH, (40815-K)
78. COMMODORE AJAY KUMAR SAXENA, (50763-W)
79. COMMODORE M R AJAY KUMAR, (02025-A)
80. COMMODORE ARUN KUMAR BAHL, (50693-K)
81. COMMODORE SVR MURTHY, (02476-A)
82. COMMODORE MURLIDHAR SADASHIV PAWAR, (02483-T)
83. SURGEON COMMODORE CHARU CHANDRA VARMA, (75288-H)
84. CAPTAIN SURESH KUMAR GREWAL, (02756-N)
85. CAPTAIN RADHAKRISHNAN HARI KUMAR, (02540-Y)
86. SURGEON COMMANDER NALIN KUMAR MAHESH, (75424-T)
87. COMMANDER ARVIND VADHERA, (51162-A)
88. COMMANDER SANJAY KUMAR SINGH KADIAN, (03265-W)
89. COMMANDER KV RADHAKRISHNAN, (02733-K)
90. RAKESH KUMAR, MCPO II CD I, (167087-W)
91. AIR COMMODORE AMIT DEV (16972) FLYING (PILOT)
92. AIR COMMODORE ARUN KUMAR PAUL (15955)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

93. AIR COMMODORE TRIPATH PAL SINGH DHILLON (16215)
FLYING (PILOT)
94. AIR COMMODORE KALIANDA APPYA MUTHANA (16372)
FLYING (PILOT)
95. AIR COMMODORE THAZHATHUPULIKUNNEL DEVASIA JOSEPH
VM, (16964) FLYING (PILOT)
96. GROUP CAPTAIN PRODIP KUMAR MUKHERJEE (15381)
ACCOUNTS
97. GROUP CAPTAIN ARUNAVA SENGUPTA (15916)
ADMINISTRATION/FIGHTER CONTROLLER
98. GROUP CAPTAIN JITENDRA KUMAR SINGH (16545)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
99. GROUP CAPTAIN NAVEEN JAIN (16642) ADMINISTRATION
100. GROUP CAPTAIN SANJEEV KUMAR MITTAL (17051)
ADMINISTRATION
101. GROUP CAPTAIN ARUN KUMAR BARIK (17122)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
102. GROUP CAPTAIN SUDHANSHU SAXENA (17278)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
103. GROUP CAPTAIN SUNIL PADEGAONKAR (17279)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
104. GROUP CAPTAIN MANAS CHATTERJEE (17356), FLYING (PILOT)
105. GROUP CAPTAIN RAJAN SOOD (17378) ADMINISTRATION
106. GROUP CAPTAIN RAKESH KUMAR RANYAL (17402) MEDICAL
107. GROUP CAPTAIN GURCHARAN SINGH BEDI VM (17448) FLYING
(PILOT)
108. GROUP CAPTAIN PRAMOD MADHUKAR PURANIK (17652)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)

109. GROUP CAPTAIN RAJENDRA NALSINGRAO GAEKWAD (17845)
FLYING (PILOT)
110. GROUP CAPTAIN BASAWARAJ MAHADEVAPPA KANNUR
(18201), AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
111. GROUP CAPTAIN JATINDER SINGH BEDI (17491)
ADMINISTRATION/AIR TRAFFIC CONTROLLER
112. GROUP CAPTAIN BHARTENDRA SINGH (19874)
FLYING (PILOT)
113. WING COMMANDER BISHWAJIT BOSE, (19086)
AERONAUTICAL ENGINEERING (MECHANICAL)
114. WING COMMANDER ATUL GARG (19653)
AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)
115. WING COMMANDER KAUSTUBH APTE (22234) LOGISTICS
116. WING COMMANDER VISHWA VIKRAM SINGH (23825) LOGISTICS
117. IC-38304 BRIGADIER MAN MOHAN SINGH BHARAJ
CORPS OF ENGINEERS
118. 683957 WARRANT OFFICER KOTTARATHIL
CHANDRASEKARAN PARAMESWARAN RADAR FITTER
119. GO-1993W SE (CIVIL) RAM KUMAR DHIMAN

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 40—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Sena Medal/Army Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-56676 MAJOR DEVINDER CHAUDHARY, SM, ARMY SERVICE
CORPS /
29 RASHTRIYA RIFLES
2. IC-58745 MAJOR SAURABH KALGAONKAR, SM, PUNJAB
REGIMENT /
22 RASHTRIYA RIFLES
3. SS 41628 CAPTAIN JONATHAN ALEXANDER SM

No. 41—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Sena Medal/Army Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional courage:-

1. IC-54454 LIEUTENANT COLONEL ASHOK KUMAR AHLAWAT,
ARMY ORDNANCE CORPS / HQ 15 SECTOR RASHTRIYA RIFLES
2. IC-55210 LIEUTENANT COLONEL RAGHVENDRA SINGH
CHAUHAN, GRENADIERS / 29 RASHTRIYA RIFLES
3. IC-55397 LIEUTENANT COLONEL VINOD KUMAR CHHAUNKAR,
3RD BATTALION THE SIKH REGIMENT
4. IC-55717 MAJOR SHASHI KUMAR RANA
REGIMENT OF ARTILLERY / 318 FIELD REGIMENT
5. IC-55854 MAJOR SANJAY SINGH, CORPS OF INTELLIGENCE / 4
CORPS INTELLIGENCE AND SURVEILLANCE UNIT
6. IC-55937 MAJOR AJAY DADHICH
REGIMENT OF ARTILLERY / 172 FIELD REGIMENT
7. IC-56061 MAJOR HARI BAHADUR THAPA, 6TH BATTALION THE
GARHWAL RIFLES
8. IC-58063 MAJOR NAVDEEP KADIAN, GORKHA RIFLES / 28
ASSAM RIFLES
9. IC-58140 MAJOR ATUL BAHUGUNA, BRIGADE OF THE GUARDS /
21 RASHTRIYA RIFLES
10. IC-60446 MAJOR NAVINDER SINGH MANN, BIHAR REGIMENT / 63
RASHTRIYA RIFLES

11. IC-60510 MAJOR KUMAR AMIT, MECHANISED INFANTRY / 9 RASHTRIYA RIFLES
12. IC-61613 MAJOR PREETINDER SINGH CHOHAN
MARATHA LIGHT INFANTRY / 41 RASHTRIYA RIFLES
13. IC-61749 MAJOR SAMEER MADHWAL, 12TH BATTALION THE
MARATHA LIGHT INFANTRY
14. IC-62403 MAJOR GURINDER SINGH, MARATHA LIGHT INFANTRY
/56 RASHTRIYA RIFLES
15. IC-62441 MAJOR MANDEEP SINGH RAI, CORPS OF SIGNALS /
7 ASSAM RIFLES
16. IC-62656 MAJOR RUCHIR KUMAR ANAND, JAT REGIMENT /
61 RASHTRIYA RIFLES
17. IC-62659 MAJOR SUNIL KUMAR, ARMY AIR DEFENCE /
10 RASHTRIYA RIFLES
18. IC-62921 MAJOR KANWAR TARUN BHRAGUWAR
ARMY SERVICE CORPS / 9 RASHTRIYA RIFLES
19. IC-62982 MAJOR PRASHANT KUMAR SINGH
12TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
20. IC-63439 MAJOR AMIT MAHAJAN
REGIMENT OF ARTILLERY / 11 RASHTRIYA RIFLES
21. IC-64011 MAJOR R VIJAI ANAND
MECHANISED INFANTRY / 26 RASHTRIYA RIFLES
22. IC-64192 MAJOR DANDU VIJAY REDDY
BIHAR REGIMENT / 47 RASHTRIYA RIFLES
23. IC-64361 MAJOR HEMCHANDRA PUNJABRAO BHUSKAT
CORPS OF ENGINEERS / 47 RASHTRIYA RIFLES
24. IC-65727 MAJOR PRAGYA VERMA
BIHAR REGIMENT / 4 RASHTRIYA RIFLES

25. IC-66829 MAJOR RAMANI RUSHIKESH VALLABHBHAI
23RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT (POSTHUMOUS)
26. IC-67323 MAJOR NEERAJ RAWAT
CORPS OF ENGINEERS / 34 ASSAM RIFLES
27. IC-67353 MAJOR RAJNEESH KUMAR PATYAL
CORPS OF SIGNALS / 53 RASHTRIYA RIFLES
28. IC-67461 MAJOR PRAKASH KUMAR SINGH
12TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
29. SS-41275 MAJOR ASHOK KUMAR TIWARI
8TH BATTALION THE GRENADIERS
30. SS-41875 MAJOR AMIT KUMAR YADAV
REGIMENT OF ARTILLERY / 12TH BATTALION THE MAHAR
REGIMENT
31. IC-63897 CAPTAIN RAGHVENDRA PRITHVIRAJ SALGAR
BRIGADE OF THE GUARDS / 61 RASHTRIYA RIFLES
32. IC-64395 CAPTAIN BASANT SEWADA
ARMOURED CORPS / 8 RASHTRIYA RIFLES
33. IC-64455 CAPTAIN AMBUJ ROY
11TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
34. IC-64695 CAPTAIN SUMIT GUPTA
CORPS OF SIGNALS / 13 RASHTRIYA RIFLES
35. IC-66835 CAPTAIN PATEL KALPESH KUMAR BABU BHAI
ASSAM REGIMENT / 59 RASHTRIYA RIFLES
36. IC-67187 CAPTAIN SANDEEP SREEDHARAN
MARATHA LIGHT INFANTRY / 39 ASSAM RIFLES
37. IC-67795 CAPTAIN ABHILOV SHARMA
CORPS OF SIGNALS / 11 RASHTRIYA RIFLES
38. IC-68482 CAPTAIN KRISHAN SINGH RAWAT
1ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)

39. IC-68917 CAPTAIN RAJIV RANJAN JHA
CORPS OF INTELLIGENCE / 4TH BATTALION THE RAJPUT
REGIMENT
40. SS-41231 CAPTAIN RAKESH KUMAR SHARMA
DOGRA REGIMENT / 39 ASSAM RIFLES
41. SS-41523 CAPTAIN KRISHNA KANT BAJPAI
6TH BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
42. SS-41834 CAPTAIN KISHORE KUMAR
REGIMENT OF ARTILLERY / 172 FIELD REGIMENT
43. SS-42200 CAPTAIN ANBAMUTHAN MUTHUSWAMY
PALANISWAMY,
12TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
44. SS-42288 CAPTAIN LAL ARUN SHYAM
4TH BATTALION THE KUMAON REGIMENT
45. SS-42398 CAPTAIN CHETAN SHARMA
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS /
3RD BATTALION THE KUMAON REGIMENT
46. IC-69465 LIEUTENANT VIVEKANAND KUMAR
ARMY ORDNANCE CORPS / 12TH BATTALION MARATHA LIGHT
INFANTRY
47. IC-69721 LIEUTENANT ASHWANI SINGH
ARMY ORDNANCE CORPS / 11TH BATTALION MARATHA LIGHT
INFANTRY
48. IC-69744 LIEUTENANT SANDEEP RAMAPPA HOSALLI
REGIMENT OF ARTILLERY / 172 FIELD REGIMENT
49. IC-69782 LIEUTENANT MOHIT TIWARI
ARMY SERVICE CORPS / 8TH BATTALION THE GRENADIERS
50. IC-69859 LIEUTENANT VIKRAM SINGH
ARMY SERVICE CORPS / 12TH BATTALION THE MARATHA LIGHT
INFANTRY

51. IC-69946 LIEUTENANT BHAGWAT NILESH MARUTI
23RD BATTALION THE PUNJAB REGIMENT
52. IC-70070 LIEUTENANT BHOSALE ADITYA SHIVAJIRAO
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS /
2ND BATTALION THE BIHAR REGIMENT
53. IC-70317 LIEUTENANT ASHISH NEGI
CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGINEERS /
14TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
54. IC-70434 LIEUTENANT SATENDRA SINGH
CORPS OF INTELLIGENCE / 5TH BATTALION THE RAJPUTANA
RIFLES
55. SC-00574 LIEUTENANT MOHAN CHANDRA
4TH BATTALION THE KUMAON REGIMENT
56. AR-236 DEUPTY COMMANDANT MOHAMMED AFFAN
FAROOQUI,
44 ASSAM RIFLES
57. JC-65186 SUBEDAR PASSANG TAMANG, 44 ASSAM RIFLES
58. JC-412899 SUBEDAR INDER SINGH
1ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
59. JC-412921 SUBEDAR KULTAR SINGH RANA
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
60. JC-520470 SUBEDAR BIRBAL
DOGRA REGIMENT / 11 RASHTRIYA RIFLES
61. JC-569886 SUBEDAR DAL CHAND
12TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
62. JC-G/3600016 SUBEDAR SARWAN KUMAR
36 ASSAM RIFLES (POSTHUMOUS)
63. JC-271846 NAIB SUBEDAR RAJBIR SINGH
REGIMENT OF ARTILLERY / 65 FIELD REGIMENT

64. 1577662 HAVILDAR MANJIT SINGH
120 ENGINEER REGIMENT (POSTHUMOUS)
65. 2686534 HAVILDAR JASWANT SINGH
8TH BATTALION THE GRENADIERS
66. 2790350 HAVILDAR BIRAJDAR SANTOSH SHIVAJI
12TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
67. 3185907 HAVILDAR MUKESH
11TH BATTALION THE JAT REGIMENT
68. 5753209 HAVILDAR TIL BAHADUR DARLAMI, 4/8 GORKHA
RIFLES
69. 15126202 HAVILDAR RAMVARAN YADAV
REGIMENT OF ARTILLERY / 172 FIELD REGIMENT
70. G/3900262 HAVILDAR YAM NATH MAINALI, 39 ASSAM RIFLES
71. 2992996 LANCE HAVILDAR SAHAB SINGH
4TH BATTALION THE RAJPUT REGIMENT
72. 3188645 LANCE HAVILDAR PARVINDER SINGH
11TH BATTALION THE JAT REGIMENT
73. 5754136 LANCE HAVILDAR SHYAM BAHADUR KC,
4/8 GORKHA RIFLES
74. 15478664 LANCE DAFADAR AJEET SINGH, ARMoured CORPS /
55 RASHTRIYA RIFLES
75. 2489279 NAIK KULBIR SINGH
PUNJAB REGIMENT / 37 RASHTRIYA RIFLES
76. 2689126 NAIK RAJENDER SINGH SOLANKI
8TH BATTALION THE GRENADIERS
77. 3993796 NAIK KISHORI LAL
DOGRA REGIMENT / 62 RASHTRIYA RIFLES
78. 4190955 NAIK KHUSHAL SINGH
KUMAON REGIMENT / 13 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

79. 4271343 NAIK RANJIT KUMAR
12TH BATTALION THE BIHAR REGIMENT
80. 4365118 NAIK WANGHIAN LOWANG, ASSAM REGIMENT /
59 RASHTRIYA RIFLES
81. 4365834 NAIK TEMJENCHUBA
ASSAM REGIMENT / 59 RASHTRIYA RIFLES
82. 14428691 NAIK KIRSHEN KUMAR, REGIMENT OF ARTILLERY /
12TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT
83. 4079334 LANCE NAIK SATENDRA SINGH RAWAT
8TH BATTALION THE GARHWAL RIFLES
84. 4081991 LANCE NAIK PRADEEP SINGH, GARHWAL RIFLES /
14 RASHTRIYA RIFLES
85. 4191870 LANCE NAIK RANJIT SINGH BHATIYA
4TH BATTALION THE KUMAON REGIMENT
86. 9103752 LANCE NAIK KIFAYAT HUSSAIN LONE
9TH BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
87. 12944281 LANCE NAIK RAMESH KUMAR
159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME &
HEARTH)
DOGRA / 11 RASHTRIYA RIFLES
88. 12944519 LANCE NAIK VINOD KUMAR
159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND
HEARTH) DOGRA / 26 RASHTRIYA RIFLES
89. 13622322 LANCE NAIK PREM CHAND KUMAR SINGH
21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)
90. 13623292 LANCE NAIK BHARAT SINGH
21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL
FORCES)

91. 13623479 LANCE NAIK BHOOPENDRA SINGH
21ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
92. 13623578 LANCE NAIK RAJESH KUMAR
1ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
93. 13763334 LANCE NAIK VIPIN GURUNG
17TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
94. 2492929 SEPOY JAGTAR SINGH
23RD BATTALION THE PUNAB REGIMENT (POSTHUMOUS)
95. 2802427 SEPOY NINGARAJU BR,
MARATHA LIGHT INFANTRY / 56 RASHTRIYA RIFLES
96. 2802666 SEPOY SABALE SACHIN BHIKOB,
MARATHA LIGHT INFANTRY / 56 RASHTRIYA RIFLES
97. 2804765 SEPOY SHIMANI RAUT
MARATHA LIGHT INFANTRY / 56 RASHTRIYA RIFLES
98. 2805150 SEPOY SACHIN ANKUSH KALE
5TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
99. 3401521 SEPOY SATWINDER SINGH, 3RD BATTALION THE SIKH
REGIMENT
100. 3402385 SEPOY BIKRAMJIT SINGH, 8TH BATTALION THE SIKH
REGIMENT
101. 4004845 SEPOY RAJ KUMAR, DOGRA REGIMENT / 62 RASHTRIYA
RIFLES
102. 4483238 SEPOY HARPAL SINGH,
4TH BATTALION THE SIKH LIGHT INFANTRY
103. 4573819 SEPOY PARMAR MAHESH BHAI BIKHA BHAI
12TH BATTALION THE MAHAR REGIMENT (POSTHUMOUS)
104. 12914524 SEPOY MOHAMMAD IBRAHIM
156 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME &
HEARTH) PUNJAB / 59 RASHTRIYA RIFLES

105. 12944144 SEPOY DAYANAND, 159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME & HEARTH) DOGRA / 10 RASHTRIYA RIFLES
106. 12944158 SEPOY YOUSAF ALI, 159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME & HEARTH) DOGRA / 10 RASHTRIYA RIFLES
107. 12944845 SEPOY SABDER HUSSAIN, 159 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME AND HEARTH) DOGRA / 26 RASHTRIYA RIFLES
108. 13765329 RIFLEMAN GANESH KUMAR, 12TH BATTALION THE JAMMU AND KASHMIR RIFLES
109. 16013574 RIFLEMAN BRAJ MOHAN SINGH, RAJPUTANA RIFLES / 9 RASHTRIYA RIFLES
110. 16014793 RIFLEMAN RAJ KUMAR SINGH, 11 BATTALION THE RAJPUTANA RIFLES
111. 16017160 RIFLEMAN WAKEEL AHMED, RAJPUTANA RIFLES / 18 RASHTRIYA RIFLES
112. G/3601062 RIFLEMAN HEMRAJ THAKUR, 36 ASSAM RIFLES
113. 15571084 SAPPER BHOSALE MAHESH SHAMARAO, CORPS OF ENGINEERS / 47 RASHTRIYA RIFLES
114. 15615931 GUARDSMAN SUNIL KUMAR, 10TH BATTALION THE BRIGADE OF THE GUARDS (POSTHUMOUS)
115. 15619278 GUARDSMAN SHISH RAM, 11TH BATTALION THE BRIGADE OF THE GUARDS
116. 14449728 GUNNER ISLAMUDDIN LASKAR, REGIMENT OF ARTILLERY / 62 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)

117. 2695460 GRENADIER AMIT SINGH, 8TH BATTALION THE GRENADIERS
118. 15496646 SOWAR SUKHWINDER SINGH, ARMoured CORPS / 8 RASHTRIYA RIFLES

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 42—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Nao Sena Medal**” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. LIEUTENANT VIKAS DAHIYA, (05578-A)
2. YAIMACHOUL SINGH, LSCD II, (124094-H)
3. JAIDEV, LSCD II, (131762-K)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 43—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**” to the undermentioned personnel for the act of exceptional courage.

1. WING COMMANDER AJAY KOUL (19960) FLYING (PILOT)
2. WING COMMANDER RIJU KOCHHAR (22975) FLYING (PILOT)
3. SQUADRON LEADER ANOOP SINGH (26716) FLYING (PILOT)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 44—Pres/2010— The President is pleased to approve the award of the “**Bar to Sena Medal/Army Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-35965 BRIGADIER RAJENDRA RAMRAO NIMBHORKAR, SM, VSM,
PUNJAB REGIMENT / HEADQUARTERS 80 INFANTRY BRIGADE

2. IC-49541 COLONEL ARJUN SEGAN, SM
PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES) / 20 RASHTRIYA
RIFLES

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 45—Pres/2010— The President is pleased to approve the award of the “**Sena Medal/Army Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. IC-27761 MAJOR GENERAL CHANDER PRAKASH, VSM,
REGIMENT OF ARTILLERY
2. IC-30143 MAJOR GENERAL ARUN KUMAR CHADHA
CORPS OF SIGNALS / HEADQUARTERS INTEGRATED DEFENCE
STAFF
3. IC-30507 MAJOR GENERAL SANJEEV CHOPRA
INFANTRY / HEADQUARTERS 20 MOUNTAIN DIVISION
4. IC-30701 MAJOR GENERAL PARNAIK ABHAY TRIVIKRAM, VSM,
CORPS OF ENGINEERS / HEADQUARTERS SOUTH WESTERN
COMMAND
5. IC-33903 MAJOR GENERAL GURPAL SINGH BAL, VSM
ARMOURED CORPS / HEADQUARTERS 36 RAPID
6. MR-03301 MAJOR GENERAL GOPALAKRISHNAN RAMDAS, VSM,
ARMY MEDICAL CORPS / ARMY HOSPITAL (RESEARCH &
REFERRAL)
7. MR-03471 MAJOR GENERAL GAUTAM RAVINDRANATH,
VSM, ARMY MEDICAL CORPS / ARMED FORCES MEDICAL
COLLEGE, PUNE
8. IC-31633 MAJOR GENERAL ARUN KUMAR SAHNI, VSM,
REGIMENT OF ARTILLERY / HEADQUARTERS 84 INFANTRY
BRIGADE
9. IC-31705 BRIGADIER SANDEEP SINGH, VSM, JAMMU AND
KASHMIR RIFLES

10. IC-31719 BRIGADIER VERINDER MOHAN KALIA
REGIMENT OF ARTILLERY
11. IC-35246 BRIGADIER JAGMOHAN VARMA, VSM,
DOGRA REGIMENT / HIGH ALTITUDE WARFARE SCHOOL
12. IC-35487 BRIGADIER NARINDER PAL SINGH HIRA
SIKH LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS 12 INFANTRY
BRIGADE
13. IC-35501 BRIGADIER MUTHANNA KODENDERA ARJUN
GARHWAL RIFLES / HEADQUARTERS 10 SECTOR RASHTRIYA
RIFLES
14. IC-35515 BRIGADIER BHABANI S DAS
KUMAON REGIMENT / HEADQUARTERS 192 MOUNTAIN
BRIGADE
15. IC-35953 BRIGADIER AVINASH LAXMAN CHAVAN
6/11 GORKHA RIFLES / HEADQUARTERS 104 INFANTRY
BRIGADE
16. IC-38403 BRIGADIER SHOKIN CHAUHAN, VSM,
GORKHA REGIMENT / HEADQUARTERS 70 INFANTRY BRIGADE
17. IC-38704 BRIGADIER ANIL KUMAR SINGH
PUNJAB REGIMENT / HEADQUARTERS 5 SECTOR ASSAM RIFLES
18. IC-38708 BRIGADIER ASHOK AMBRE
MARATHA LIGHT INFANTRY / HEADQUARTERS 190 MOUNTAIN
BRIGADE
19. IC-38784 BRIGADIER ANIL PRATAP RAI, VSM,
RAJPUT REGIMENT / HEADQUARTERS 23 SECTOR ASSAM RIFLES
20. IC-39070 BRIGADIER RANBIR SINGH, YUDH SEVA MEDAL,
DOGRA REGIMENT / HEADQUARTERS 181 MOUNTAIN BRIGADE
21. IC-39117 BRIGADIER BHOPENDRA SINGH SAHRAWAT
KUMAON REGIMENT / HEADQUARTERS 71 MOUNTAIN BRIGADE

22. MR-03909 BRIGADIER LEKH RAM SHARMA, VSM,
ARMY MEDICAL CORPS / ARMED FORCES CLINC, DALHOUSIE
ROAD
23. MR-04317 BRIGADIER PREM PRAKASH VARMA
ARMY MEDICAL CORPS / MILITARY HOSPITAL, AGRA
24. IC-35492 COLONEL DIGAMBAR ANANDRAO PATIL
164 INFANTRY BATTALION (TERRITORIAL ARMY) (HOME &
HEARTH), NAGA
25. IC-40933 COLONEL M VINAYA CHANDRAN, YUDH SEVA MEDAL,
ASSAM REGIMENT
26. IC-42542 COLONEL MANOJ KUMAR MAGO, BRIGADE OF THE
GUARDS
27. IC-46209 COLONEL CHARANDEEP SINGH
ASSAM REGIMENT / 59 RASHTRIYA RIFLES
28. IC-46624 COLONEL MANJEET SINGH MOKHA
12TH BATTALION THE MARATHA LIGHT INFANTRY
29. IC-48316 COLONEL HARMANJIT SINGH
MADRAS REGIMENT / 8 RASHTRIYA RIFLES
30. IC-48366 COLONEL RAVINDER SINGH MATHARU
17TH BATTALION THE DOGRA REGIMENT
31. IC-48989 COLONEL RAJIV GHAI, KUMAON REGIMENT
32. IC-49591 COLONEL ROOPESH MEHTA
REGIMENT OF ARTILLERY / 3341 MISSILE REGIMENT
33. IC-50034 COLONEL VINOD KUMAR NAMBIAR
1ST BATTALION THE PARACHUTE REGIMENT (SPECIAL FORCES)
34. IC-49235 LIEUTENANT COLONEL DIVEKAR NARENDRA ARUN,
ARMY AVIATION / 202 ARMY AVIATION SQUADRON (UTILITY
HELICOPTER)

35. IC-54731 LIEUTENANT COLONEL ALBERT SUMMER BARYAWAL,
CORPS OF INTELLIGENCE / 4 COUNTER INTELLIGENCE
DETACHMENT, HEADQUARTERS EASTERN COMMAND
36. SS-41224 MAJOR AMIT AUKTA
3RD BATTALION THE LADAKH SCOUTS
37. IC-67988 CAPTAIN KAILASH RANA
ARMY SERVICE CORPS / 9 ASSAM REGIMENT (POSTHUMOUS)
38. 2688409 NAIK RAM AVTAR
14TH BATTALION THE GRENADIERS (POSTHUMOUS)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 46—Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Nao Sena Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. COMMODORE DEEPAK BALI, (02439-T)
2. COMMODORE KALIDOSS SRINIVAS, VSM, (40999-B)
3. CAPTAIN SANDEEP KHARBANDA (02866-N)
4. CAPTAIN SREEKUMAR NAIR, (50986-A)
5. CAPTAIN ANIL KUMAR DUTTA, (40953-Z)
6. CAPTAIN ALOK BHATNAGAR, (02850-A)
7. CAPTAIN DIWAKAR TOMAR, (41422-R)
8. SURGEON CAPTAIN ANUPAM KAPUR, (75410-K)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 47–Pres/2010 – The President is pleased to approve the award of the “**Vayu Sena Medal/Air Force Medal**” to the undermentioned personnel for the acts of exceptional devotion to duty:-

1. GROUP CAPTAIN SANJEEV WASUDEVRAO GOSEWADE (16816) FLYING (PILOT)
2. GROUP CAPTAIN JOSEPH XAVIER ISRAEL (17167) FLYING (PILOT)
3. GROUP CAPTAIN MANISH KHANNA, (18554) FLYING (PILOT)
4. GROUP CAPTAIN HILAL AHMAD RATHER (19863) FLYING (PILOT)
5. GROUP CAPTAIN TEJBIR SINGH, (19958) FLYING (PILOT)
6. WING COMMANDER SHASHANK MISRA, (19175) FLYING (PILOT)
7. WING COMMANDER RAMESH MISHRA (19402) ACCOUNTS/PARACHUTE JUMP INSTRUCTOR
8. WING COMMANDER GEORGE THOMAS, (20118) FLYING (PILOT)
9. WING COMMANDER MOHONTO PANGING, (20446) FLYING PILOT
10. WING COMMANDER SANJAI CHAUHAN (20466) FLYING (PILOT)
11. WING COMMANDER RAJAT MOHAN, (20476) FLYING (PILOT)
12. WING COMMANDER AMIT VERMA (20480) FLYING (PILOT)
13. WING COMMANDER KULDIP SINGH GILL (20746) FLYING (PILOT)
14. WING COMMANDER ANAND MISHRA (23678) AERONAUTICAL ENGINEERING (ELECTRONICS)

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 48—Pres/2010 – The President is pleased to give orders for publication in the Gazette of India of the names of the undermentioned officers/personnel for “**Mention in Despatches**” received by the **Raksha Mantri** from the “**Chief of the Army Staff**”:-

OP RAKSHAK

1. IC-61427 MAJOR TATHAGATA DUTTA,
ARMoured CORPS, 53 RASHTRIYA RIFLES
2. IC-64046 CAPTAIN SURENDER SINGH,
BRIGADE OF THE GUARDS, 59 RASHTRIYA RIFLES
3. IC-68726 CAPTAIN SURAJ KUMAR ROY,
11 JAT REGIMENT
4. JC-489579 SUBEDAR KEHAR SINGH,
16 JAT REGIMENT
5. 2485395 NAIK SURINDER SINGH,
PUNJAB REGIMENT, 22 RASHTRIYA RIFLES
6. 2487592 NAIK DALJIT SINGH, SM,
PUNJAB REGIMENT, 53 RASHTRIYA RIFLES
7. 15613705 LANCE NAIK GURURAJ S,
BRIGADE OF THE GUARDS, 21 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
8. 15771012 LANCE NAIK JEYA KUMAR S,
ARMY AIR DEFENCE, 20 RASHTRIYA RIFLES (POSTHUMOUS)
9. 15619523 GUARDSMAN ABDUL REHMAN,
BRIGADE OF THE GUARDS, 21 RASHTRIYA RIFLES
10. 15619829 GUARDSMAN AJAY SINGH,
BRIGADE OF THE GUARDS, 61 RASHTRIYA RIFLES

OP MEGHDOOT

11. IC-63390 MAJOR BHAGWAN SINGH BISHT,
PARACHUTE REGIMENT, HEADQUARTERS 70 INFANTRY BRIGADE

12. IC-68814 CAPTAIN ABHIMANYU SINGH,
6 GARHWAL RIFLES
13. 2694008 GRENADIER ASHWANI KUMAR,
16 GRENADIERS
14. 2699662 GRENADIER AJAY BAIS,
16 GRENADIERS
15. 2703436 GRENADIER SANDEEP KUMAR SINGH,
16 GRENADIERS

OP HIFAZAT

16. IC-62592 MAJOR DHANANJAY BHARDWAJ,
39 ASSAM RIFLES
17. 15567191 SAPPER TUKARAM LAHUDAS MUNDHE,
CORPS OF ENGINEERS, 86 ROAD CONSTRUCTION COMPANY

OP RHINO

18. JC-499745 NAIB SUBEDAR SURJIT SINGH,
8 SIKH REGIMENT
19. JC-580826 NAIB SUBEDAR MOHD SHOKIT,
17 JAMMU AND KASHMIR RIFLES

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 49 - Pres/2010 – The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2010 to award the President's Police Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers : -

SHRI KODE DURGA PRASAD
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
PHQ, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI VENKAT ASHOK REDDY
ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
TRAFFIC, CYBERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI KULADHAR SAIKIA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
GUWAHATI
ASSAM

SHRI ASHOK KUMAR GUPTA
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE -CUM-CMD
BPBC CORPORATION, PATNA
BIHAR

SHRI UDAY PRATAP SINGH
SUB INSPECTOR OF POLICE
VIGILANCE
DEPARTMENT INVESTIGATION BUREAU, PATNA
BIHAR

SHRI DURGESH MADHAV AWASHTHI
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
INTELLIGENCE, PHQ, RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI ABDUL RASHID KHAN
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
EOW, RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI S NITHIANANDAM
JOINT COMMISSIONER OF POLICE
TRAINING & RECRUITMENT, JHARODA KALAN
N.C.T OF DELHI

SHRI ALOK KUMAR
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
SPECIAL CELL, DELHI PHQ
N.C.T OF DELHI

SHRI OM PRAKASH
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE
ROHINI/OUTER DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI ULHAS L. GAWAS DESAI
POLICE INSPECTOR
POLICE TRAINING SCHOOL, VALPOI, SATTARI
GOA

SHRI PRITAM CHAND THAKUR
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SC/ST CELL, GANDHINAGAR
GUJARAT

SHRI RAKESH MALIK
DIRECTOR GENERAL OF POLICE
HUMAN RIGHTS & LITIGATION, PANCHKULA
HARYANA

SHRI ASHOK KUMAR SHARMA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SOUTHERN RANGE, SHIMLA
HIMACHAL PRADESH

SHRI ABDUL QAYOOM MANHAS
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
NORTH KASHMIR RANGE BARAMULLA
JAMMU AND KASHMIR

SHRI ARUN KUMAR SINGH
SUPERINTENDENT OF POLICE
DUMKA DISTRICT
JHARKHAND

SHRI H N SATHYANARAYANA RAO
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
EASTERN RANGE, DAVANAGERE
KARNATAKA

SHRI M R PUJAR
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
AND ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
LAW & ORDER, BANGALORE CITY
KARNATAKA

SHRI SHAIK ABDUL KHADER
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
FINGER PRINT BUREAU, W.R, MANGALORE
KARNATAKA

SHRI S JOGESH
SUPERINTENDENT OF POLICE
VACB, SOUTHERN RANGE,
THEKKUMMOODU, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI SARBJEET SINGH
SECRETARY TO CHIEF MINISTER
BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI BANDI MARIA KUMAR
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI BABARAO SAKHARAM INGLE
COMMANDANT
STATE RESERVE POLICE FORCE, GR.IX, AMRAVATI
MAHARASHTRA

SHRI SHIRISH JANARDAN INAMDAR
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
STATE INTELLIGENCE DEPARTMENT, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI R P AGRAWAL
INSPECTOR GENERAL OF POLICE(HQR/ADMN)
SHILLONG
MEGHALAYA

SHRI I. TOSHITSUNGBA AIER
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE (OPS)
PHQ, KOHIMA
NAGALAND

SHRI ABHAY .
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
STATE POLICE HEADQUARTERS, CUTTACK
ORISSA

SHRI DEVADUTTA PATTANAİK
SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE DIRECTORATE, CUTTACK
ORISSA

SHRI PAWAN KUMAR UPPAL
SUPERINTENDENT OF POLICE
RTC, PAP , JALANDHAR
PUNJAB

SHRI GURDEV SINGH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
P.S., SAHNEWAL, LUDHIANA
PUNJAB

SHRI PRADEEP KUMAR VYAS
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
UDAIPUR RANGE, UDAIPUR
RAJASTHAN

SHRI VASUDEO BHATT
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTT. RAJSAMAND
RAJASTHAN

SHRI C V RAO
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
RAILWAYS, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI T K RAJENDRAN
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
MEMBER, SECRETARY, TNUSRB, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI S. SELSON MONIKA RAO
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
CRIME & TRAFFIC, TIRUNELVELI CITY.
TAMIL NADU

SHRI B K RAY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL (SOUTHERN RANGE)
AGARTALA
TRIPURA

SHRI KANHAIYA LAL MEENA
INSPECTOR GENERAL
LUCKNOW RANGE, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI BHAGWAT PRASAD TRIPATHI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CHITRAKOOTDHAM RANGE, BANDA
UTTAR PRADESH

SHRI INDRAJEET SINGH RAWAT
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
RAJ BHAWAN LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI M A GANAPATHY
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
DEHRADUN
UTTRAKHAND

SHRI PARTHA BHATTACHARYA
DIRECTOR GENERAL & INSPECTOR GENERAL OF POLICE
(ARMED POLICE)
BHABANI BHABAN, ALIPORE, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI ANJAN GANGULY
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE
LALBAZAR STREET, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI TARSEM SINGH
INSPECTOR
SHO (CCS) PORT BLAIR
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

SHRI SATBIR SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CID
CHANDIGARH

SHRI A K SUROLIA
INSPECTOR GENERAL
HQ JAMMU FTR. PALOURA CAMP, JAMMU
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KULWINDER JEET SINGH CHEEMA
INSPECTOR GENERAL
HQ SPL DG (WEST)
CHANDIGARH
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MOHINDER SINGH MALHI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL (TRG)
TRAINING DIRECTORATE
FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ALOK KUMAR PATERIA
JOINT DIRECTOR (POLICY & ADMN)
NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SAMIR RANJAN MAJUMDAR
SUPERINTENDENT OF POLICE
ACB, KOLKATA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI PRAMOD KRISHNA MUDBHATKAL
SUPERINTENDENT OF POLICE
SCB, MUMBAI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI ASHWANI KUMAR
SUPERINTENDENT OF POLICE
HQ, NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI RAKESH KUMAR MISHRA
INSPECTOR GENERAL
WS HQ, MUMBAI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SATYA SINGH GUSAIN
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL
FHQ, NEW DELHI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI E RADHAKRISHNA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
WESTERN SECTOR, CBD BELAPUR, NAVI MUMBAI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI K.K. SIVA PRASAD
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
PRINCIPAL, CTC, THOPPAMPATTI, P.O,
COIMBATORE,(TAMIL NADU).
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI JAGRUP SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
JAMMU SECTOR, HQRS, JAMMU
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BADLU RAM YADAV
DEPUTY COMMANDANT
GC, LANGJING, IMPHAL, MANIPUR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAGHAVAN THIRUMANGALATH
SR. P.S. TO DG
FHQ, NEW DELHI

SHRI SHEEL VARDHAN SINGH
JOINT DIRECTOR
LUCKNOW
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI AKHIL KUMAR SHUKLA
JOINT DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DR. ASHOK KUMAR VERMA
JOINT DIRECTOR
JAMMU
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI PRABHAKAR ALOK
JOINT DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SHAMBHU NATH SINGH
JOINT DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI K. PRABHAKARAN
ADDITIONAL DEPUTY DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI GIRDHARA SINGH CHEEMA
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
AMRITSAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
LUCKNOW
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI PRAMOD ASTHANA
INSPECTOR GENERAL
SPECIAL FRONTIER,
NEW DELHI

SHRI PREM KUMAR DHASMANA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ (LADAKH)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI HARI PRASAD
INSPECTOR
42 BN, KARERA (MADHYA PRADESH)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

DR RAJENDRA PRASAD SHARMA
INSPECTOR GENERAL (HQ)
HQ, MEHRAM NAGAR, NEW DELHI
NATIONAL SECURITY GUARD

SMT D.R DOLEY BARMAN
INSPECTOR GENERAL
FRONTIER HQRS, GUWAHATI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI RAJESH MALIK
INSPECTOR GENERAL
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI DURGESWAR DEORI
INSPECTOR
UMSAW, UMIAM
NORTH EASTERN POLICE ACADEMY

SHRI S P VAID
INSPECTOR GENERAL/DIRECTOR
HQ, NEW DELHI
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI NASIR KAMAL
INSPECTOR GENERAL/JOINT DIRECTOR
NEW DELHI
NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

SHRI GOPAL GUPTA
IG-CUM-CHIEF SECURITY COMMISSIONER, RPSF
RAILWAY BOARD, NEW DELHI
M/O RAILWAYS

SHRI SRIKANT KUMAR MISHRA
CHIEF SECURITY COMMISSIONER
RAILWAY PROTECTION FORCE
NORTH EAST RAILWAY, GORAKHPUR
M/O RAILWAYS

2. These awards are made under rule 4 (ii) of the rule governing the grant of President's Police Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 50 - Pres/2010 – The President is pleased on the occasion of the Republic Day, 2010 to award the Police Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :-

SHRI SANDEEP SHANDILYA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
KHAIRATABAD, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI P V SUNIL KUMAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
RAILWAYS, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI R. BHIMA NAYAK
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
CITY SECURITY WING, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI E. DAMODAR
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
CITY ARMED RESERVE, HQRS, HYDERABAD CITY POLICE,
PETLABURJ
ANDHRA PRADESH

SHRI B. NAGAMUNI NAIK
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
APSP BNS, KAKINADA
ANDHRA PRADESH

SHRI SYED ATHAR QUADRI
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
INTELLIGENCE SECURITY WING
ANDHRA PRADESH

SHRI N. LAXMIKANTA RAO
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
WARANGAL DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI T. RAMESH
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE
TRAFFIC-VI, EAST ZONE, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI NEETAM PRASAD
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
VIJAYAWADA
ANDHRA PRADESH

SHRI S.V. PRATHAP REDDY
SUB-DIVISIONAL POLICE OFFICER
BHAINSA, ADILABAD DISTRICT
ANDHRA PRADESH

SHRI M. SIDDALAH
SUB-DIVISIONAL POLICE OFFICER
TOOPRAN SUB-DIVISION, MEDAK DISTRICT.
ANDHRA PRADESH

SHRI V N V SATYANARAYANA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
OCTOPUS, SANTHI NILAYAM, BEGUMPET, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI J. KOTESWARA RAO
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
ANDHRA PRADESH POLICE ACADEMY
HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI N. CHANDRA MOULI
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
HOME GUARDS, DISTT. POLICE OFFICE
KURNOOL.
ANDHRA PRADESH

SHRI R. VENGINNA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
ACB, KURNOOL
ANDHRA PRADESH

SHRI ERUGU MEENAIHA
SUB-INSPECTOR
INTELLIGENCE, HYDERABAD REGION
ANDHRA PRADESH

SHRI D APPALA NAIDU
HEAD CONSTABLE
VIZIANAGARAM
ANDHRA PRADESH

SHRI ISMAIL KHAN
SUB-INSPECTOR
INTELLIGENCE DEPARTMENT, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI ABDUL RASHEED
HEAD CONSTABLE
GREYHOUNDS, HYDERABAD
ANDHRA PRADESH

SHRI MAKE BUI
INSPECTOR
OC, PS, PAPUMPARE DISTT., ITANAGAR
ARUNACHAL PRADESH

SHRI CHANCHAL SINGH CHUPHAL
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
PTC BANDERDEWA
ARUNACHAL PRADESH

SHRI TARUN CHANDRA KALITA
ASSISTANT SUB INSPECTOR
GUWAHATI
ASSAM

SHRI RANJIT HAZARIKA
ASSISTANT SUB INSPECTOR
GRP, GUWAHATI
ASSAM

SHRI RANJIT CHUTIA
HAVILDAR
COMMANDO BATTALION, MANDAKATA, NORTH
GUWAHATI
ASSAM

SHRI BINANDA BORAH
HEAD CONSTABLE
SPECIAL TASK FORCE, GUWAHATI
ASSAM

SHRI GANESH DAS
HEAD CONSTABLE
S.B. ORGANIZATION, GUWAHATI
ASSAM

SHRI NAITIK CHANDRA GOGOI
HAVILDAR
TINSUKIA DEF
ASSAM

SHRI HITESH BHATTA
CONSTABLE (OPERATOR)
APRO, GUWAHATI
ASSAM

SHRI TINKU GOSWAMI
CONSTABLE (UB)
HAILAKANDI DEF
ASSAM

SHRI JITENDRA SINGH GANGWAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
POLICE HQRS, PATNA
BIHAR

SHRI SUNIL KUMAR JHA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
PURNEA
BIHAR

SHRI AMIT KUMAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
MUNGER,
BIHAR

SMT ANUPAMA NILEKAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
MAGADH RANGE, GAYA
BIHAR

SHRI JUNAID AHMAD
SERGEANT MAJOR
RAIL, PATNA
BIHAR

SHRI RAJ KUMAR PRASAD
STENO/ASI
SP. CONFIDENTIAL SECTION, GOPALGANJ DISTRICT
BIHAR

SHRI SHAILESH KUMAR MISHRA
ARMED HAVILDAR
GOPALGANJ DISTRICT
BIHAR

SHRI NANDLAL PRASAD YADAV
CONSTABLE
GOPALGANJ DISTRICT
BIHAR

SHRI RAJ KUMAR
CONSTABLE/DRIVER
GOPALGANJ DISTRICT
BIHAR

SHRI RAM KUMAR SINGH
CONSTABLE
S.P OFFICE, SARAN, CHAPRA
BIHAR

SHRI SHAILESH KUMAR MISHRA
SEPOY
CM SECURITY, SPECIAL BRANCH, PATNA
BIHAR

SHRI MADAN PRASAD SINGH
CONSTABLE
BOMB DETECTION & DISPOSAL SQUAD, PATNA
BIHAR

SHRI PRASANJIT BHOMICK
CONSTABLE
BOMB DETECTION AND DISPOSAL SQUAD
SB, PATNA
BIHAR

SHRI MADISH BAITHA
CONSTABLE
VIGILANCE INVESTIGATION BUREAU
BIHAR

SHRI ARUN DEV GAUTAM
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
DIG RANGE, RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI KAILASH CHANDRA AGRAWAL
CHIEF SECURITY OFFICER MANTRAYALAYA
RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI SOMESHWAR SINGH SORI
COMMANDANT
PTS, JAGDALPUR
CHHATTISGARH

SHRI ASHOK KUMAR JOSHI
INSPECTOR
EOW RAIPUR
CHHATTISGARH

SHRI TULSI PRASAD SAHU
ASSISTANT SUB INSPECTOR
PS KONDENAR DISTRICT, BASTAR
CHHATTISGARH

SHRI BALMAT SINGH DHRUW
HEAD CONSTABLE
DISTRICT KANKER
CHHATTISGARH

SHRI CHANDRA MOULESHWAR GADE
SUB INSPECTOR (MINISTERIAL)
IGP OFFICE, BASTAR
CHHATTISGARH

SHRI UJJWAL MISHRA
JOINT COMMISSIONER OF POLICE
SPECIAL BRANCH, NEW DELHI
N.C.T OF DELHI

SHRI NEERAJ THAKUR
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE(CRIME)
DELHI PHQ
N.C.T OF DELHI

SHRI ANAND MOHAN
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
EAST DELHI
N.C.T OF DELHI

SHRI DHARAM PAL SINGH
INSPECTOR
P S - BARA HINDU RAO
N.C.T OF DELHI

SHRI RAMBIR SINGH
SUB INSPECTOR
PCR
N.C.T OF DELHI

SHRI RAJ SINGH
ASSISTANT SUB INSPECTOR
PS SPECIAL CELL,
N.C.T OF DELHI

SHRI LAL CHAND
ASSISTANT SUB INSPECTOR
OUTER DISTRICT
N.C.T OF DELHI

SHRI JAGJEET SINGH
HEAD CONSTABLE
4TH BN DAP, NPL
N.C.T OF DELHI

SHRI JITENDRA SINGH
CONSTABLE
SATISTICAL CELL
N.C.T OF DELHI

SHRI JAI SINGH
CONSTABLE
SECURITY UNIT
N.C.T OF DELHI

SHRI MUKESH KUMAR
CONSTABLE
CWC, NANAK PURA
N.C.T OF DELHI

SHRI JAG PAL
CONSTABLE
PS-TILAK NAGAR, WEST DISTRICT
ACP OFFICE
N.C.T OF DELHI

SHRI SUBASH KUMAR
CONSTABLE
PS-PUNJABI BAGH
N.C.T OF DELHI

SHRI ULHAS HADU SAIL
POLICE INSPECTOR
POLICE TRAINING SCHOOL, VALPOI, SATTARI
GOA

SHRI CHANDUBHAI TRIBHOVANDAS SUTHAR
ASSISTANT DIRECTOR
ACB, MEHSANA UNIT, MEHSANA
GUJARAT

SHRI KISHORSINH BAHADURSINH JADEJA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SRPF GR-11, VAV (SURAT)
GUJARAT

SHRI BALVANTSINH DESAIBHAI PARMAR
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
PROTECTION BRANCH GANDHINAGAR
GUJARAT

SHRI VINODCHANDRA MOHANLAL ANAND
POLICE INSPECTOR
O/O OF THE ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
CID CRIME & RAILWAY, GANDHINAGAR

SHRI BIHARILAL NATVARLAL BAROT
POLICE INSPECTOR
SOG, HIMATNAGAR
GUJARAT

SHRI VIJAYSINH KHUMANSINH ZALA
POLICE INSPECTOR
ANTI CORRUPTION BUREAU, AHMEDABAD
GUJARAT

SHRI MAHESH KUMAR RAMESHVAR GUPTA
POLICE INSPECTOR
ANTI-CORRUPTION BUREAU, AHMEDABAD
GUJARAT

SHRI JASDAN BHUPATSANG TAPARIYA
ARMED POLICE SUB INSPECTOR
SRPF GR-15, ONGC, MAHESANA
GUJARAT

SHRI RAJENDRAKUMAR NARSIRAM MAHETA
ARMED ASSISTANT SUB INSPECTOR
SRPF GR.13, GHANTESHWAR, RAJKOT
GUJARAT

SHRI KANJI ATMARAM AYRI
UNARMED HEAD CONSTABLE
BHUI CITY, POLICE STATION
GUJARAT

SHRI MAHMADHANIF BIJARBHAI BLOCH
UNARMED HEAD CONSTABLE
O/O THE SUPERINTENDENT OF POLICE
RAJKOT RURAL DISTRICT, RAJKOT
GUJARAT

SHRI MAHADEV KISHANRAV SEVAYKAR
UNARMED HEAD CONSTABLE
RR CELL, SURAT RANGE
GUJARAT

SHRI CHATURBHAI MANABHAI SOLANKI
INTELLIGENCE OFFICER
OFFICE OF THE ADDL DG OF POLICE, INTELLIGENCE
GANDHINAGAR
GUJARAT

SHRI SAJJAN SINGH
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
SIRSA
HARYANA

SHRI NARINDER KUMAR
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
OFFICE OF THE SP/TELECOM, PANCHKULA
HARYANA

SHRI TARA CHAND
INSPECTOR
HPA MADHUBAN
HARYANA

SHRI RAMESH CHAND
INSPECTOR
HPA, MADHUBAN
HARYANA

SHRI JAI SINGH
SUB-INSPECTOR
HPA MADHUBAN
HARYANA

SHRI RAMESHWER DUTT
SUB-INSPECTOR
5TH BN. HAP, MADHUBAN
HARYANA

SHRI HEMANT KUMAR
SUB-INSPECTOR
GURGAON
HARYANA

SHRI GIAN CHAND
SUB-INSPECTOR
SVB, HQRS, PANCHKULA
HARYANA

SHRI NARESH KUMAR
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
I/C POLICE POST BALDEV NAGAR
DISTRICT AMBALA
HARYANA

SHRI SURINDER SHARMA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
STATE VIGILANCE & ANTI CORRUPTION BUREAU
CENTRAL RANGE MANDI
HIMACHAL PRADESH

SHRI NARATA RAM
INSPECTOR
STATE VIGILANCE & ANTI CORRUPTION BUREAU,
SHIMLA
HIMACHAL PRADESH

SHRI PARSHOTAM CHAND
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
CID(SCRB) SHIMLA
HIMACHAL PRADESH

SHRI SUNIL KUMAR SHARMA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CID, JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI KASTURI LAL BHAGAT
COMMANDANT
JKAP 12 BN.
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SHAM SUNDER SHARMA
SUPERINTENDENT OF POLICE
APCR JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI THAKUR DASS SAINI
SUPERINTENDENT OF POLICE
RLYS HQRS
JAMMU AND KASHMIR

SHRI HILAL AHMED SHAH
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE (TELECOM)
JAMMU ZONE, PCR COMPLEX, JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI SAWTANTER KUMAR ARORA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CITY NORTH, JAMMU
JAMMU AND KASHMIR

SHRI MOHAMMAD ASLAM
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
PHQ
JAMMU AND KASHMIR

SHRI ABDUL RASHID SHAH
INSPECTOR
SECURITY HQRS
JAMMU AND KASHMIR

SHRI AURENGZEB RATHER
SUB-INSPECTOR
DSB POONCH
JAMMU AND KASHMIR

SHRI MOHD. RAFIQ BHAT
SUB-INSPECTOR
POLICE COMPONENT SRINAGAR
JAMMU AND KASHMIR

SHRI MOHAMMAD SHAFI
SUB-INSPECTOR
SSG
JAMMU AND KASHMIR

SHRI PARVAIZ AHMAD MALIK
HEAD CONSTABLE
JKAP 13TH BN DODA
JAMMU AND KASHMIR

SMT ASHA SINHA
ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF POLICE
RANCHI
JHARKHAND

SHRI JITENDRA KUMAR SINGH
COMMANDANT
JHARKHAND ARMED POLICE-6 JAMSHEDPUR
JHARKHAND

SHRI AMARJIT BALIHAR
SUPERINTENDENT OF POLICE
RANCHI
JHARKHAND

SHRI ASHOK KUMAR -
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SPECIAL BRANCH, RANCHI
JHARKHAND

SHRI ASHOK KUMAR PATHAK
SERGEANT MAJOR
CENTRAL STORE HOTWAR, RANCHI
JHARKHAND

SHRI ASHOK KUMAR SINGH
SERGEANT
H.Q.R.T. DORANDA, RANCHI
JHARKHAND

SHRI AVIJIT GHOSH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
PHOTO SECTION, SPECIAL BRANCH, RANCHI
JHARKHAND

SHRI VIJAY PRASAD SHARMA
STENO ASSISTANT SUB-INSPECTOR
SPECIAL BRANCH, RANCHI
JHARKHAND

SHRI GOPAL BAHADUR PRADHAN
HAVILDAR
JAP-1 RANCHI
JHARKHAND

SHRI BHARAT KUMAR GURUNG
HAVILDAR
JAP-1, RANCHI
JHARKHAND

SHRI PRONAB MOHANTY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
KARNATAKA LOKAYAKTA, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI ALOK KUMAR
JOINT COMMISSIONER OF POLICE, CRIME
BANGALORE CITY
KARNATAKA

SHRI RAMESH S HARIHAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
RAILWAYS, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI T. DYAVE GOWDA
ASSISTANT RESERVE SUB INSPECTOR OF POLICE
INTELLIGENCE, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI ANANTHAIAH
SUB-INSPECTOR OF POLICE
CID FOREST CELL, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI M. PUTTASWAMY
RESERVE SUB INSPECTOR
VTH BN KSRP, MYSORE
KARNATAKA

SHRI BASAVARAJ SIRURMATH
POLICE INSPECTOR
FINGER PRINT UNIT, GULBARGA
KARNATAKA

SHRI ANNAIAH RAGHUVeer
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE
CONTROL ROOM, BANGALORE CITY
KARNATAKA

SHRI M.G. NAGALINGAIAH
ASSISTANT COMMANDANT
III BN, KSRP, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI C.P. JANAWAD
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CHIKODI
KARNATAKA

SHRI S.P. BALAJI SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
OFFICE OF THE DGP, CID, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI BASAVARAJA YELLAPPA MALAGATTI
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE,
NORTH – EAST DIVISION, BANGALORE CITY
KARNATAKA

SHRI B.N. NEELAGAR
SUPERINTENDENT OF POLICE
KARNATAKA LOKAYUKTA, GULBARGA
KARNATAKA

SHRI R B MOHAN REDDY -
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CHIEF OFFICE, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI P.C. HIEMATH
COMMANDANT
IX BN, KSRP, BANGALORE
KARNATAKA

SHRI P KRISHNAN NAIR
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SPECIAL BRANCH CID, CITY DETACHMENT,
THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI VARGHESE THOMAS
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE (NRI CELL)
PHQ, THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI C.G. JAYASANTHILAL RAM
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE & ANTI CORRUPTION BUREAU, KOLLAM
KERALA

SHRI T.K. THOMAS
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
KUNNAMKULAM
KERALA

SHRI B. VARGHESE
ASSISTANT COMMISSIONER OF POLICE, TRAFFIC SOUTH
THIRUVANANTHAPURAM CITY
KERALA

SHRI T V GANGADHARAN
ARMED POLICE INSPECTOR
KAP 4 BATTALION, MGPA
KERALA

SHRI L LAWRENCE
INSPECTOR OF POLICE
BDDS, SBCID HQ, PHQ THIRUVANANTHAPURAM
KERALA

SHRI K MOHANAN ACHARY
ASSISTANT SUB INSPECTOR
VACB, KOLLAM
KERALA

SHRI K.J. CHACKO
HEAD CONSTABLE
THRISSUR EAST POLICE STATION
KERALA

SHRI M.M. PRAKASAN
HEAD CONSTABLE
TOWN POLICE STATION, KOZHIKODE CITY
KERALA

SHRI RAJESH CHAWLA
INSPECTOR GENERAL OF POLICE/ DIRECTOR (V&S)
MPSEB, JABALPUR
MADHYA PRADESH

SHRI SUSHOVAN BANERJEE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
CHILDREN'S FILM SOCIETY(MUMBAI)
MADHYA PRADESH

SHRI ASHOK AWASTHI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
BHOPAL RANGE
MADHYA PRADESH

SHRI VIJAYANAND PACHORI
COMMANDANT
15TH BN SAF, INDORE
MADHYA PRADESH

SHRI ADITYA NARAYAN LITORIYA
INSPECTOR
SPECIAL TASK FORCE, INDORE
MADHYA PRADESH

SHRI VIRENDRA PAL SINGH
SECTION COMMANDER
15TH BN SAF, INDORE
MADHYA PRADESH

SHRI LEKH SINGH
HEAD CONSTABLE
2ND BN SAF, GWALIOR
MADHYA PRADESH

SHRI PEER KHAN
HEAD CONSTABLE
17TH BN SAF BHIND
MADHYA PRADESH

SHRI SHRINIWAS MISHRA
HEAD CONSTABLE
SHIVPURI
MADHYA PRADESH

SHRI SHAMSHER BAHADUR SINGH
HEAD CONSTABLE
SPE, LOKAYUKTA, SAGAR DIVISION
MADHYA PRADESH

SHRI LALTA PRASAD YADAV
SENIOR CONSTABLE
CID, PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI INDRA BHAN PANDEY
SENIOR CONSTABLE
SAGAR
MADHYA PRADESH

SHRI YASHWANT SINGH NEGI
CONSTABLE
18TH BN, SAF, SHIVPURI
MADHYA PRADESH

SHRI YASHWANT KUMAR DEHARIYA
CONSTABLE
PS AMARWARA, DISTRICT CHHINDWARA
MADHYA PRADESH

SHRI DATTATRAY PRABHAKAR JUGADE
SUBEDAR (M)
OFFICE OF THE IG (ADM), PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI MOHAN AWASTHI
SUBEDAR (M)
SB, PHQ, BHOPAL
MADHYA PRADESH

SHRI R K PADMANABHAN
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE/
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
SOUTH REGION MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI RITESH KUMAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE/
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
EAST REGION, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI AMITABH GUPTA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE/
ADDITIONAL COMMISSIONER OF POLICE
WEST REGION MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI PRADEEP VASANTRAO DESHPANDE
SUPERINTENDENT OF POLICE/
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE GONDIA
MAHARASHTRA

SHRI SHAMRAO RAMCHANDRA DIGHAVKAR
SUPERINTENDENT OF POLICE/
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
SOLAPUR CITY
MAHARASHTRA

SHRI NANDAKUMAR ANANT CHAUGULE
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
S.I.D. MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI SHESHRAO BABURAO SURYAWANSHI
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
ANTI-CORRUPTION BUREAU, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI JAYWANT KANHU HARGUDE
SENIOR INSPECTOR OF POLICE
MALWANI POLICE STATION MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI DATTATRAYA SHRIPAD DATAR
SENIOR INSPECTOR OF POLICE
RABALE POLICE STATION, NAVI MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI VILAS SITARAM JADHAV
INSPECTOR OF POLICE
MAHARASHTRA POLICE ACADEMY, NASHIK
MAHARASHTRA

SHRI RAMCHANDRA ABA BARKADE
INSPECTOR OF POLICE
SPECIAL BRANCH (II) CID MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI ARUN SHANKARRAO BHAGAT
INSPECTOR OF POLICE
TRAFFIC CONTROL BRANCH, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI VISHNU BABURAO JAGTAP
INSPECTOR OF POLICE
P.T.S. KHANDALA
MAHARASHTRA

SMT. SUSHMA SHAILENDRA CHAVAN
INSPECTOR OF POLICE
C.I.D., M.S. PUNE
MAHARASHTRA

SHRI APPA DEMANA DESAI
ASSISTANT INSPECTOR OF POLICE
ANTI-CORRUPTION BUREAU, MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI VIJAY AKARAM INGALE
ASSISANT INSPECTOR OF POLICE
TRAFFIC BRANCH, THANE CITY
MAHARASHTRA

SHRI CHANDRAKANT NARAYAN GAWADE
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
M.T. MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI DINKAR SAHEBRAO SATHE
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE
D.C.B. CID MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI RAMESH NAGO SHELAR
ARMED ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
S.R.P.F. GR. VI, DHULE
MAHARASHTRA

SHRI DILAWAR DASTAGIR BARGIR
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
POLICE HQ KOLHAPUR
MAHARASHTRA

SHRI SHIVAJI DATTU KACHARE
ARMED ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
SPECIAL BRANCH (I) CID MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI MURLIDHAR KRISHNATH NAWADE
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
OSMANABAD RURAL
MAHARASHTRA

SHRI CHANDRAKANT SHIVAJI PATIL
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
POLICE H.Q. NAVI MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI NIZAM HASAN MAHAGONDE
HEAD CONSTABLE
L.A.III, WORLI MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI MADHUKAR SOPANRAO CHANNE
HEAD CONSTABLE
P.C.R. SATARA
MAHARASHTRA

SHRI PARSHURAM BHIKAJI JAGTAP
HEAD CONSTABLE
SPECIAL BRANCH PUNE CITY
MAHARASHTRA

SHRI SUDHIR KRISHNAJI TAWDE
HEAD CONSTABLE
CHEMBUR POLICE STATION, MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SHRI MARUTI TUKARAM PATIL
HEAD CONSTABLE
PANT NAGAR POLICE STATION MUMBAI
MAHARASHTRA

SHRI DILIP BALASAHEB WASAMKAR
HEAD CONSTABLE
LOCAL CRIME BRANCH KOLHAPUR
MAHARASHTRA

SHRI VINAYAK UMATA RAJPUT
HEAD CONSTABLE
DISTT. SPECIAL BRANCH NANDURBAR
MAHARASHTRA

SHRI REMOND MANVEL D'SOUZA
HEAD CONSTABLE
ANTI-CORRUPTION BUREAU, SINDHUDURG
MAHARASHTRA

SHRI SHANKAR VISHNU CHOUGULE
NAIK
POLICE CONTROL ROOM, KOLHAPUR
MAHARASHTRA

SHRI DWARKANATH SAKHARAM KOYANDE
NAIK
TRAFFIC CONTROL MUMBAI CITY
MAHARASHTRA

SMT. RAJKUMAR MEME
SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE, DIRECTORATE COMPLEX, IMPHAL
MANIPUR

SHRI HAMARBAJOP WAHLANG
INSPECTOR
O/O IGP(SB), SHILLONG
MEGHALAYA

SHRI SHELDING NONGLAIT
COMPANY HAVILDAR MAJOR
1 MLP, MAWIONG
MEGHALAYA

SHRI CHANDRA PRASAD DAHAL
INSPECTOR
SP OFFICE, MAMIT
MIZORAM

SHRI LALJOHANA -
SUB-INSPECTOR
CID(SB) AIZAWL
MIZORAM

SHRI NZANBEMO NCHUMO NGULLIE
CIRCLE INSPECTOR
WOKHA
NAGALAND

SHRI PILAMO LOTHIA
INSPECTOR
OC SECURITY, CIVIL SECTT. KOHIMA
NAGALAND

SHRI SANJEEB PANDA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SWR KORAPUT
ORISSA

SHRI YESHWANT KUMAR JETHWA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
E R BALASORE
ORISSA

SHRI AMULYA KUMAR MOHANTY
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE CUTTACK DIVISION, CUTTACK
ORISSA

SHRI MOHAMMED ZAHEED
DEPUTY COMMANDANT
SOG, SPECIAL SECURITY BATTALION, BHUBENESWAR
ORISSA

SHRI MADHABA CHANDRA SAHOO
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SDPO, SADAR PURI
ORISSA

SHRI RABINDRA KUMAR MOHAPATRA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SECURITY WING, SPECIAL BRANCH, BHUBANESWAR
ORISSA

SHRI DURYODHAN ROUT
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CID, CB, CUTTACK
ORISSA

SHRI ARTATRANA NANDA
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE
BASELI, SAHAI PS, PURI
ORISSA

SHRI BHUSHAN KUMAR GARG
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SECURITY, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI R. N. DHOKE
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
INTELLIGENCE-II, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI PRAVEEN KUMAR SINHA
SUPERINTENDENT OF POLICE
SVP, NPA, HYDERABAD
PUNJAB

SHRI GURDEV SINGH
SUPERINTENDENT OF POLICE
PSHRC, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI NAGINDER SINGH RANA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
NORTH, LUDHIANA
PUNJAB

SHRI HARDEVINDER SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
TRAFFIC, SAS NAGAR, MOHALI
PUNJAB

SHRI RANJODH SINGH
INSPECTOR
OFFICE OF DG, PRISONS, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI KABAL SINGH
INSPECTOR
O/O AIG, CI, AMRITSAR
PUNJAB

SHRI DILBAG SINGH
INSPECTOR
PUNJAB POLICE ACADEMY, PHILLAUR
PUNJAB

SHRI KARTAR SINGH
SUB-INSPECTOR
POLICE LINES, LUDHIANA CITY
PUNJAB

SHRI SOHAN LAL
SUB-INSPECTOR
RTC, PAP, JALANDHAR CANTT.
PUNJAB

SHRI MOHINDER PAL
SUB-INSPECTOR
PPA PHILLAUR
PUNJAB

SHRI HARPAL SINGH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
O/O ADGP, CHANDIGARH
PUNJAB

SHRI DEVINDER KUMAR
HEAD CONSTABLE
OFFICE OF SSP, LUDHIANA RURAL
PUNJAB

SHRI INDER MOHAN
HEAD CONSTABLE
OFFICE OF SSP, FATEHGARH SAHIB
PUNJAB

SHRI GOVIND GUPTA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ANTI CORRUPTION BUREAU, JODHPUR
RAJASTHAN

SHRI AMRIT KALASH
DIRECTOR
ENFORCEMENT EXCISE DEPTT. JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI SATYAVEER SINGH
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DUDU, JAIPUR RURAL, JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI SARDAR DAN CHARAN
INSPECTOR OF POLICE
CID (SB), ZONE, JODHPUR
RAJASTHAN

SHRI RATAN LAL SHARMA
PLATOON COMMANDER (ARMOUROR)
9TH BN RAC TONK
RAJASTHAN

SHRI ALIYAS KHAN
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
P.S. SALASAR, DISTT. CHURU
RAJASTHAN

SHRI MUKUT BIHARI MEENA
HEAD CONSTABLE
4TH BN, RAC (HQ), CHAINPURA, JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI PAWAN KUMAR
HEAD CONSTABLE (OPERATOR)
TECHNICAL & COMPUTER SECTION, PTC, JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI REHMAN KHAN
HEAD CONSTABLE
11TH BN RAC (I.R.), VIJAY GHAT, DELHI
RAJASTHAN

SHRI RAM AVTAR
HEAD CONSTABLE
ANTI CORRUPTION BUREAU, JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI BHURI SINGH JAT
HEAD CONSTABLE
POLICE STATION-SEWAR, DISTT. BHARTPUR
RAJASTHAN

SHRI PHOOL CHAND
HEAD CONSTABLE
S.P. OFFICE, CRIME BRANCH, GRP, AJMER
RAJASTHAN

SHRI MAL CHAND KHATIK
HEAD CONSTABLE
CID (CB), JAIPUR
RAJASTHAN

SHRI NARENDRA SINGH
CONSTABLE
1ST BN, R.A.C. JODHPUR
RAJASTHAN

SHRI VIJAY SHARMA
CONSTABLE
STATE CRIME RECORD BUREAU, JAIPUR
RAJASTHAN

SMT. BISHNU KUMARI RAI
INSPECTOR
SPECIAL BRANCH, GANGTOK
SIKKIM

SHRI S GEORGE
INSPECTOR GENERAL OF POLICE/ CHIEF VIGILANCE
OFFICER
STATE TRANSPORT CORPORATION, NAGERCOIL
TAMIL NADU

SHRI S.S. KRISHNAMOORTHY
INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SOUTH ZONE, MADHURAI DISTRICT
TAMIL NADU

SHRI K VANNIA PERUMAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SALEM RANGE
TAMIL NADU

SHRI ASHOK KUMAR DAS
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
CISF, AIRPORT, SOUTH ZONE, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI R. RADHAKRISHNAN
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
TECHNICAL SERVICE, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI K.N. SATHIYAMURTHY
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE
INTELLIGENCE SECTION, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI S V KARUPPASAMY
SUPERINTENDENT OF POLICE
SPECIAL TASK FORCE, SATHYAMANGALAM
ERODE DISTRICT
TAMIL NADU

SHRI R. ANTONY JOHNSON JAYAPPAUL
COMMANDANT
SMALL ARMS, AVADI
TAMIL NADU

SHRI T. HARIHARAN
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
NIB, CID, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI V. PONRAM
INSPECTOR OF POLICE
SB CID, MADURAI
TAMIL NADU

SHRI A. THANGAVELU
INSPECTOR OF POLICE
DINDIGUL TOWN NORTH PS, DINDIGUL DISTRICT
TAMIL NADU

SHRI S. RAJKUMAR
INSPECTOR OF POLICE
SB, CID, HEAD QUARTERS, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI M. ARUMUGAM
SUB-INSPECTOR OF POLICE
V&AC, SPECIAL INVESTIGATION CELL, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI G. NAVANEETHA KRISHNAN
HEAD CONSTABLE
V& A.C., CITY SPECIAL UNIT-I, CHENNAI
TAMIL NADU

SHRI HARI MOHAN DAS
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
AGARTALA , WEST TRIPURA
TRIPURA

SHRI CHANDRAMANI DEBBARMA
SUBEDAR
2ND BN TRIPURA, STATE RIFLES ,
R K NAGAR, TRIPURA WEST
TRIPURA

SHRI SAMIR CHANDRA MAJUMDER
SUB INSPECTOR
HOME GUARD ORGANIZATION, AGARTALA
TRIPURA

SHRI SRIMANTA KUMAR BAIDYA
HEAD CONSTABLE
KDTs PTC, NARSINGARH, PO-BIMANGAR, AIRPORT PS
TRIPURA

SHRI BHAGIRATH P. JOGDAND
DEPUTY INSPECTOR GENERAL/
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
KANPUR NAGAR
UTTAR PRADESH

SHRI AKHIL KUMAR
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
GHAZIABAD
UTTAR PRADESH

SHRI RAJA SRIVASTAVA
SUPERINTENDENT OF POLICE
TRAINING AND SECURITY, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI ASIM KUMAR ARUN
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
ALIGARH
UTTAR PRADESH

SHRI BINOD KUMAR SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
NSG, NEW DELHI
UTTAR PRADESH

SHRI DEVENDRA KUMAR CHAUDHARY
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTT. KANPUR
UTTAR PRADESH

SHRI GYANESHWAR TIWARI
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTT. FAIZABAD
UTTAR PRADESH

SHRI ASHOK KUMAR SHUKLA
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
POLICE HQ ALLAHABAD
UTTAR PRADESH

SHRI KAVINDRA PRATAP SINGH
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
INTELLIGENCE ALLAHABAD
UTTAR PRADESH

SHRI SUNIL KUMAR SAXENA
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT MATHURA
UTTAR PRADESH

SHRI UMESH KUMAR SRIVASTAV
DEPUTY COMMANDANT
9TH BN PAC MORADABAD
UTTAR PRADESH

SHRI ANIL KUMAR
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTT. GHAZIABAD
UTTAR PRADESH

SHRI RAM LAL VERMA
DEPUTY COMMANDANT
15TH BN PAC, AGRA
UTTAR PRADESH

SHRI UMESH KUMAR SINGH
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
ATS, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI SALIK RAM
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTT.. RAE-BARELI
UTTAR PRADESH

SHRI MAHESH MISHRA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
VIGILANCE DEPTT, LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI DEVENDRA KUMAR SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTT. KANPUR DEHAT
UTTAR PRADESH

SHRI DHARMENDRA SINGH YADAV
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
MSP, CBCID, KANPUR
UTTAR PRADESH

SHRI SUBHASH CHANDRA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI RAJENDRA SINGH SAWANT
ASSISTANT COMMANDANT
41 BN. PAC GHAZIABAD
UTTAR PRADESH

SHRI MATA PRASAD SOLONIA
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
DISTRICT ETAWA
UTTAR PRADESH

SHRI UMMED SINGH
COMPANY COMMANDER
38 BN, PAC, ALIGARH
UTTAR PRADESH

SHRI BANSI BAHADUR SINGH
PLATOON COMMANDER
10 BN, PAC BARABANKI
UTTAR PRADESH

SHRI RAM ASHRAI MISHRA
CONSTABLE AP
POLICE TRAINING SCHOOL, GORAKHPUR
UTTAR PRADESH

SHRI MOHD. HANEEF
HEAD CONSTABLE
39 BN, PAC, MIRZAPUR
UTTAR PRADESH

SHRI RAMESH PRASAD SRIVASTAVA
SUB INSPECTOR (MINISTRIAL)
POLICE HQRS, ALLAHABAD
UTTAR PRADESH

SHRI RAM NIWAS
CONSTABLE
U.P. VIG. ESTT. FAIZABAD
UTTAR PRADESH

SHRI CHANDRA KUMAR SINGH
SUB-INSPECTOR (MT)
DISTRICT LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI MAHENDRA PRATAP SINGH
SUB-INSPECTOR, CP
DISTRICT MAHOBA
UTTAR PRADESH

SHRI SATYENDRA SINGH
HEAD CONSTABLE
X BN, PAC BARABANKI
UTTAR PRADESH

SHRI ISHTIYAQ AHMAD
HEAD CONSTABLE
XI BN, PAC, SITAPUR
UTTAR PRADESH

SHRI NIRMAL KUMAR PANDEY
SUB-INSPECTOR (MINISTRIAL)
POLICE HQRS, ALLAHABAD
UTTAR PRADESH

SHRI SADA SHIV YADAV
CONSTABLE CP
DISTRICT SITAPUR
UTTAR PRADESH

SHRI GOPAL SINGH VIST
SUB-INSPECTOR (MINISTRIAL)/ STENO
C.B.C.I.D. HQRS., LUCKNOW
UTTAR PRADESH

SHRI SATYAVEER SINGH
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
TIHRI GARHWAL
UTTRAKHAND

SHRI ARUN KUMAR PANDEY
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
CID HEADQUARTERS, DEHRADUN
UTTRAKHAND

SHRI RAMESH CHANDRA KUKRETI
HEAD CONSTABLE
VIGILANCE SECTOR, DEHRADUN
UTTRAKHAND

SHRI MAHENDRA SINGH
INSPECTOR
DISTRICT UDHAM SINGH NAGAR
UTTRAKHAND

SHRI PRADIP KUMAR DUTTA
INSPECTOR OF POLICE
18, LALBAZAR, ST, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI DIPANKAR CHAKRABORTY
INSPECTOR OF POLICE
TRAFFIC POLICE, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI SUNIL HAZRA
INSPECTOR OF POLICE
6TH BATTALION, KAP, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI ARINDAM DAS
INSPECTOR OF POLICE
CI, SONAMUKHI
WEST BENGAL

SHRI PARTHA SARATHI MUKHERJEE
INSPECTOR OF POLICE
18, LALBAZAR, ST, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI PABITRA KANTI HATI
SUPERVISOR (TECHNICAL) GRADE-II
TELECOMMUNICATION HQRS, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI DARREL EUGENE WILLIAMS
SUBEDAR OF POLICE
PTS KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI PANCHANAN MUKHERJEE
SUB INSPECTOR
RESERVE OFFICE, HOOGHLY
WEST BENGAL

SHRI ASHOK KUMAR KACHARI
SUBEDAR
EFR 2ND BATTALION, PO SALUA,
WEST BENGAL

SHRI BAIKUNTH NATH OJHA
CONSTABLE
SPECIAL BRANCH, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI MONOTOSH CHOWDHURY
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
PTC BARRACKPORE
WEST BENGAL

SHRI PRADEEP DAS
ASSISTANT SUB-INSPECTOR OF POLICE
INTELLIGENCE BRANCH, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI UTTAM KUMAR KUNDU
ASSISTANT SUB INSPECTOR
SEALDAH GRP, DISTT 20 DUM DUM ROAD, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI ASIM KUMAR MAITY
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE
SPECIAL BRANCH, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI TULU RAM DAMAI
CONSTABLE
POLICE LINE, BURDWAN
WEST BENGAL

SHRI SANDIP KUMAR DAN
ASSISTANT SUB INSPECTOR
JHARGRAM PS, PASCHIM MEDINIPUR
WEST BENGAL

SHRI SAMIR KUMAR MUKHERJEE
CONSTABLE
CID, KOLKATA
WEST BENGAL

SHRI K R KURUP
INSPECTOR
SHO PAHARGOAN, PORT BLAIR
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

SHRI SUDHANSHU SHEKHAR SRIVASTAVA
SENIOR SUPERINTENDENT OF POLICE
CHANDIGARH

SHRI K I AHAMMED
INSPECTOR OF POLICE
POLICE HQRS, KAVARATTI
LAKSHADWEEP

SHRI A. NANDAGOPAL
SUPERINTENDENT OF POLICE
SOUTH REGION
PUDUCHERRY

SHRI RAM BALAK SINGH
COMMANDANT
HQ DGAR SHILLONG
ASSAM RIFLES

SHRI MATTA PRASAD RAO
SECONDD IN COMMAND
DIRECTOR ARGIS HQ, DG AR, SHILLONG
ASSAM RIFLES

SHRI HOM NATH CHHETRI
NAIB SUBEDAR
HQ DGAR, SHILLONG
ASSAM RIFLES

SHRI DIL BAHADUR CHHETRI
SUBEDAR
12 AR, CHASSAD, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI JASWANT SINGH
SUBEDAR
24 AR, DIMAPUR (NAGALAND), C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI GOPAL DUTT SHARMA
SUBEDAR
28 AR, KEITHELMANBI(MANIPUR), C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI BAM DEV PAUDEL
SUBEDAR (CLERK)
28 AR, KEITHELMANBI, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI SHAMBHU PRASAD MAITHANI
SUBEDAR
28 AR, KEITHELMANBI(MANIPUR), C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI LAL BAHADUR GHARTI
SUBEDAR MAJOR
34 AR, C/O 99 APO, THOUBAL, MANIPUR
ASSAM RIFLES

SHRI HOM BAHADUR CHHETRI
SUBEDAR
34 AR, THOUBAL MANIPUR, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI KESHWANAND SUNDRIYAL
HINDI TEACHER
35 AR, C/O 99 APO
ASSAM RIFLES

SHRI MADHUKAR LAL PASI
SUBEDAR MAJOR (CLK)
HQ DGAR (Q BRANCH), SHILLONG
ASSAM RIFLES

SHRI MAHESWARA KUMAR K.S
SUBEDAR(CLK)
LEKHAPANI, DIST- TINSUKIA, ASSAM
ASSAM RIFLES

SHRI BRIJESH KUMAR MEHTA
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ, BEHRAMPUR
DISTRICT MURSHIDABAD, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAMESH CHANDRA DHYANI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FTR HQ, JODHPUR, RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAMESH CHANDRA GAUR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
HQ SPECIAL DG (EAST) KOLKATA, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAJENDRA PANDEY
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI DASHRATH S. RATHORE
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FTR HQ, PALOURA CAMP, JAMMU
BORDER SECURITY FORCE

SHRI OM PRAKASH TRIPATHI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
HQ AM FRONTIER
SHILLONG, MEGHALAYA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KARAN SINGH RATHORE
COMMANDANT
13 BN. GANDHI NAGAR,
DISTT-COOCH BEHAR, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KULDEEP KUMAR GULIA
COMMANDANT
FTR. HQ, SILIGURI
DISTT- DARJEELING
BORDER SECURITY FORCE

SHRI GEORGE MANJURAN
COMMANDANT
SHQ, GANDHINAGAR
BORDER SECURITY FORCE

SHRI MRIDUL SONOWAL
COMMANDANT
83 BN. MAWPAT, DISTT- EAST KHASI HILLS,
MEGHALAYA.
BORDER SECURITY FORCE

SHRI YASHWANT SINGH
COMMANDANT
SECTOR HQRS, JAISALMER(NORTH), RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI INDRAJ SINGH
COMMANDANT
03 BN., AJNALA, DISTT- AMRITSAR, PUNJAB
BORDER SECURITY FORCE

SHRI DOUKHOSEI HAOKIP
COMMANDANT
78 BN. BARMER, RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI B S RAJPUROHIT
COMMANDANT
SHQ, BHUJ, KODKI ROAD, DISTT-KUTCH, GUJARAT
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BALWINDER SINGH BAJWA
COMMANDANT
TRAINING DTE., FHQ, NEW DELHI
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KUMAN SINGH GUNJYAL
COMMANDANT
06 BN. FATIKEHERA, DISTT- WEST TRIPURA.
BORDER SECURITY FORCE

SHRI VIJAY YADAV
LO GDE-I/COMMANDANT
FTR HQ, TRIPURA, PO- SALBAGAN(AGARTALA)
BORDER SECURITY FORCE

DR. ANIRBAN ROY
COMMANDANT (MED)
FTR HQ, JODHPUR (RAJASTHAN)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAJINDER SINGH YADAV
SECOND IN COMMAND
SHQ FEROZPUR, (PUNJAB)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAM SWAROOP JHAKAR
SECOND-IN-COMMAND
44 BN, SATRANA
DISTRICT SRIGANGANAGAR (RAJASTHAN)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SHEO NARAIN
DEPUTY COMMANDANT
141 BN., HANDWARA, C/O 56 APO
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAM SAHAY
DEPUTY COMMANDANT
94 BN., PO-KALYANI
DISTRICT NADIA(WEST BENGAL)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RAM KISHAN SALARIA
DEPUTY COMMANDANT
71 BN. DISTRICT GURDASPUR(PUNJAB)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BHUP SINGH BISHNOI
ASSISTANT COMMANDANT
44 BN, SATRANA
DISTRICT SRIGANGANAGAR (RAJASTHAN)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JAGDISH PUROHIT
ASSISTANT COMMANDANT
85 BN. BANDIPUR (J&K)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI P.K. KUTTY
ASSISTANT COMMANDANT
TSU, TEKANPUR, GWALIOR (MADHYA PRADESH)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI GOPAL SINGH ADHIKARI
INSPECTOR
SHQ, UDAIPUR, DISTT- TRIPURA(SOUTH)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JHUMAR RAM
INSPECTOR
12 BN. SEEMA NAGAR CAMPUS,
NADIA, WEST BENGAL
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KALU RAM TIWARI
INSPECTOR
91 BN. PAINTHEE, JAMMU, C/O 56 APO
BORDER SECURITY FORCE

SHRI C. MUNI RAJ
INSPECTOR
98 BN, DISTT - EAST KHASI HILLS
MEGHALAYA
BORDER SECURITY FORCE

SHRI TILAK SINGH PARMAR
INSPECTOR
78 BN., JALIPA, BARMER, RAJASTHAN
BORDER SECURITY FORCE

SHRI GIRISH CHANDER PANT
INSPECTOR(TECH)
FTR HQ, GUJARAT
DISTRICT GANDHINAGAR (GUJARAT)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BRIJENDRA SINGH
INSPECTOR(MIN)
77 BN. NALKATA
DISTRICT DHALAI (TRIPURA)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI PREM CHANDRA BHATT
INSPECTOR(PA)
HQ, TELIAMURA,
DISTRICT TRIPURA (WEST)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI RANJIT SINGH
SUB-INSPECTOR
181 BN, TRIPURA(NORTH)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KAILASH PATI MISHRA
SUB-INSPECTOR
87 BN. ARADHPUR, NARAYANPUR
DISTRICT MALDA (WEST BENGAL)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JIT SINGH
SUB-INSPECTOR
171 BN. C/O 56 APO
BORDER SECURITY FORCE

SHRI BABUL KUMAR DATTA
SUB-INSPECTOR
32 BN. AKHNOOR, JAMMU C/O 56 APO
BORDER SECURITY FORCE

SHRI KAMALJIT SINGH
SUB-INSPECTOR/CIPHER
CSWT, INDORE (MADHYA PRADESH)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI ISHWAR SINGH LAMBA
SUB-INSPECTOR(M)
FHQ, NEW DELHI.
BORDER SECURITY FORCE

SHRI SULTAN SINGH
HEAD CONSTABLE
137 BN, SRIGANGANAGAR (RAJASTHAN)
BORDER SECURITY FORCE

SHRI JOGINDER PAUL
WATER CARRIER
61 BN. KHASIAMANGAL, TELIAMURA
DISTRICT TRIPURA (WEST)
BORDER SECURITY FORCE

DR (MS) NEERAJA GOTRU
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
MDMA, DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI RAKESH AGGARWAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
AC-1, DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI ANURAG
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
STF, NEW DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI MAHESH KUMAR AGGARWAL
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
ACB, CHANDIGARH
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI V.A. MOHAN
SUPERINTENDENT OF POLICE
ACB, THIRUVANANTHAPURAM
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI VED PRAKASH SHARMA
ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE
EO-III, DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SUDHAKAR SHYAM KISHORE
DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE
SC-1, DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI N. RAVEENDRANATHAN NAIR
INSPECTOR OF POLICE
ACB, CHENNAI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SANDIP GHOSH
INSPECTOR OF POLICE
EOW KOLKATA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI ASHOK KUMAR SHARMA
SUB INSPECTOR OF POLICE
AC-III, DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI RAJ RATTAN
SUB INSPECTOR OF POLICE
SU DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI GOBINDA CHANDRA NATH
ASSISTANT SUB INSPECTOR OF POLICE
SU KOLKATTA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SRIKRISHAN YADAV
HEAD CONSTABLE
AC-II, DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI PHOOL SINGH
HEAD CONSTABLE
VIGILANCE CELL, DELHI
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI SAMIR KUMAR KARMAKAR
CONSTABLE
BS&FC, KOLKATTA
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

SHRI AJAY BHATNAGAR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
HQ, NEW DELHI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SUNIL KUMAR HAZRA
SENIOR COMMANDANT
UCIL, JADUGUDA, JHARKHAND
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI GHANSHYAM PANDEY
COMMANDANT
BSL BOKARO, JHARKHAND
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BIJOY KUMAR DASH
DEPUTY COMMANDANT
CISF NS CBI, AIRPORT KOLKATA, WEST BENGAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BISHWAMBHAR SINGH
DEPUTY COMMANDANT
BARC TARAPUR, DISTT-THANE, MAHARASHTRA
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI MALI RAM
INSPECTOR
BRPL BONGAIGOAN,
DISTRICT DHALIGAON, ASSAM
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI AWADH RAM BANCHHOR
SUB-INSPECTOR
BARC MUMBAI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BIPIN BIHARI SARANGI
SUB-INSPECTOR
IGI AIRPORT, NEW DELHI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SYED RAHUL AMIN
SUB-INSPECTOR
OIL DULIAJAN,
DISTRICT DIBRUGARH, ASSAM
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI MAM RAJ
SUB-INSPECTOR
BSPS SURANGANI, DISTT- CHAMBA(HIMACHAL
PRADESH)
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI NANDAN SINGH
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
DHEP DULHASTI, DISTT- KISHTWAR, J&K.
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI RADHEY SHYAM
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
ONGC NAZIRA, DISTT- SIVASAGAR, ASSAM
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI SANKARAI AH KOPALLA
HEAD CONSTABLE
NMPT, MANGALORE
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI BINOD BIHARI JENA
HEAD CONSTABLE
BCCL, CCWO, DHANBAD, JHARKHAND
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI IRFAN AHMED
HEAD CONSTABLE
RGI AIRPORT, HYDERABAD
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI MUSIPATLA NARAYANA REDDY
HEAD CONSTABLE
BANGALORE AIRPORT
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI AWADHESH KUMAR SINGH
HEAD CONSTABLE
HEC RANCHI, JHARKHAND
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI DOMNIC LAKRA
HEAD CONSTABLE
IGI AIRPORT, NEW DELHI
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

SHRI NAGARAJAN PENUMUR
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
JALANDHAR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHAM CHAND
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
SRINAGAR, J&K
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SARBJIT SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
PUNE RANGE, VISHNUPURI, TALEGAON, MAHARASHTRA
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. PARTAP SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE
BANGALORE RANGE
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. C.B.S. CHOUHAN
DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF POLICE(MED)
COMPOSITE HOSPITAL, PUNE, PO-VISHNUPURI,
TALEGAON, MAHARASHTRA
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

DR. SOMNATH DASU RAO HANCHETTI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL (MED)
COMPOSITE HOSPITAL, BILASPUR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BALVINDER SINGH GUJRAL
COMMANDANT
192 BN, AJMER (RAJASTHAN)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DARBARA SINGH BAINS
COMMANDANT
82 BN, SRINAGAR, C/O 56 APO
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BIDYUT SENGUPTA
COMMANDANT
O/O DIGP
SILIGURI(WEST BENGAL)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DINESH KUMAR TRIPATHI
COMMANDANT
O/O DIGP, LUCKNOW
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SMT. SEEMA DHUNDIA
COMMANDANT
88(M), DWARKA, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

MS. ANNIE ABRAHAM
COMMANDANT
75 BN, (PRESENTLY AT UN MISSION IN LIBERIA)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BHUPINDER SINGH
COMMANDANT
193 BN. LIDHRAN CAMP, JALLANDHAR (PUNJAB)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SMT. USHA KIRAN KANDULNA
COMMANDANT
135 BN, GROUP CENTRE, GANDHI NAGAR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURESH KUMAR YADAV
SECOND-IN-COMMAND
60 BN. GAMAIBARI, TELIAMURA (WEST TRIPURA).
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DHARAMPAL SINGH RANA
SECOND-IN-COMMAND
33 BN, JAMMU (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAGHUVIR SINGH RAGHAVE
SECOND IN COMMAND
85 BN, BIJAPUR(CHATTISHGARH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI VIJAY PRAKASH SHARMA
SECOND-IN-COMMAND
1ST SIGNAL BN, JHARODA KALAN, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI CHATTAR SINGH
DEPUTY COMMANDANT
GROUP CENTRE, KADARPUR, GURGAON
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHIV KUMAR SHARMA
DEPUTY COMMANDANT
FHQ, NEW DELHI
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHIRPAL SINGH
DEPUTY COMMANDANT
76 BN. CHANNI HIMMAT, JAMMU (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MADAN LAL
DEPUTY COMMANDANT
163 BN. QUAZIGUND, ANANTNAG(J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SURENDER KUMAR SHARMA
ASSISTANT COMMANDANT
2ND SIGNAL BN. , HYDERABAD
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DEEP CHAND
ASSISTANT COMMANDANT
176 BN., WARIPORA, BUDGAM, SRINAGAR(J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHANKAR TIRKEY
ASSISTANT COMMANDANT
GROUP CENTRE, SINDRI, DHANBAD, JHARKHAND
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAMACHANDRAN GOPALAN
ADMN. OFFICER
O/O IGP, EASTERN SECTOR, KOLKATA
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI P.A. KRISHNAN
ADMN. OFFICER
NES HQRS, SHILLONG
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHIO CHANDRA PRASAD
ADMN. OFFICER
SPECIAL SECTOR, DELHI.
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI ASHOK KUMAR AGRAWAL
OFFICE SUPERINTENDENT
GROUP CENTRE, NEEMUCH(MADHYA PRADESH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI VIRENDER SINGH RAWAT
INSPECTOR/ CRPTO
5TH SIGNAL BN., CHANDIGARH
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DAYA NAND
INSPECTOR
26 BN. CHAS BOKARO (JHARKHAND)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI NIRMAL SINGH
INSPECTOR
143 BN, IMPHAL, WEST MANIPUR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BRIJ KISHORE SINGH
SUB-INSPECTOR
26 BN. CHAS BOKARO (JHARKHAND)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PHOOL CHAND
SUB-INSPECTOR
157 BN. BATMALOO, SRINAGAR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BIKANU YADAV
SUB-INSPECTOR
GROUP CENTRE, GANDHI NAGAR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RATTAN CHAND
SUB-INSPECTOR
43 BN, BUDGAM (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI HARENDER SINGH
SUB-INSPECTOR
180 BN, PULWAMA C/O 56 APO
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI DINESH KUMAR YADAV
SUB-INSPECTOR
132 BN, SRINAGAR, C/O 56 APO
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SUMER SINGH
SUB-INSPECTOR
O/O DIGP, SRINAGAR (J&K)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI R. DEENA DAYALAN
SUB-INSPECTOR
19 BN. RSP, ROURKELA, ORISSA.
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI BIHARI LAL
SUB-INSPECTOR
22 BN. HAZARIBAGH, JHARKHAND
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAM KARAN TIWARI
SUB-INSPECTOR
GROUP CENTRE, YELAHANKA, BANGALORE
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI SHAFI MOHD.
SUB-INSPECTOR
RTC, DHARAMPUR, SOLAN (HP)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI MURARI LAL
HEAD CONSTABLE/DRIVER
GROUP CENTRE, JHARODA KALAN, NEW DELHI.
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAJENDER SINGH
HEAD CONSTABLE
GROUP CENTRE, PALLIPURAM, THIRUVANANTHAPURAM
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI GULAM HUSSAIN SHAH
HEAD CONSTABLE
2 BN, DANTEWADA(CHHATTISGARH)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI CHELLAPPAN NANDAN
SUB-INSPECTOR
RTC, PERINGOME, KANNUR (KERALA)
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SMT. MAYA BHATTACHARJEE
NURSING ASSISTANT
GROUP CENTRE, GANDHI NAGAR
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI JAGAT RAM
BARBER
22 BN. HAZARIBAGH, JHARKHAND
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI RAMA RAM PANDEY
WATER CARRIER
22 BN., HAZARIBAGH, JHARKHAND
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

SHRI PRAVEEN KUMAR
DEPUTY DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI VINAYAK PRABHAKAR APTE
DEPUTY DIRECTOR
MUMBAI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI RAJESH KHURANA
DEPUTY DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI KUNDAN KRISHNAN
DEPUTY DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI ANURAG KUMAR
DEPUTY DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

MS. KALA RAMACHANDRAN
DEPUTY DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI VINIT DEV WANKHEDE
DEPUTY DIRECTOR
ITBF, LEH
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI AMARDEEP SINGH RAI
DEPUTY DIRECTOR
AMRITSAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI M. BALASUBRAMANIAN
ADDITIONAL DEPUTY DIRECTOR(M)
CHENNAI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI MANMOHAN SINGH
ASSISTANT DIRECTOR/SO
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI BALIADA ERAPPA POONACHA
ASSISTANT DIRECTOR
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI ASHOK KUMAR SINGH
ASSISTANT DIRECTOR
RANCHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI HARPAL SINGH
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI TRILOK NATH PANDEY
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SURYAKANT RAGHUNATH SURVE
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
NAGPUR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI BHAGIRATH TAILOR
DEPUTY CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER
JODHPUR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SHYAM SUNDAR SHARMA
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER-I/WT
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI KRISHNA REDDY
ASSISTANT CENTRAL INTELLIGENCE OFFICER-II/G
NEW DELHI
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI SANJAY KUMAR REWOO
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER-I/G
SRINAGAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI OINAM STALIN SINGH
JUNIOR INTELLIGENCE OFFICER-I/G
IMPHAL
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

SHRI JASPAL SINGH
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
FHQ, NEW DELHI
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI MANOJ KUMAR SINGH
COMMANDANT
10 BN. KIMIN (ARUNACHAL PRADESH)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI PREM LAL
DEPUTY COMMANDANT
8TH BN. GAUCHER, CHAMOLI (UTTRAKHAND)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI DINESH CHANDRA SHARMA
DEPUTY COMMANDANT (ENGR)
20TH BN. AALO, (ARUNACHAL PRADESH)
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI ACHHAR SINGH
ASSISTANT COMMANDANT
18 TH BN. JALANDHAR
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI NARENDER KUMAR MANRAL
ASSISTANT COMMANDANT (SO)
NW FTR, CHANDIGARH
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI YASHWANT SINGH RAWAT
INSPECTOR
12 BN. ITBP, MATLI, UTTARKASHI, UTTRAKHAND
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI PRATAP SINGH
HEAD CONSTABLE/MEDIC
19TH BN. BONDA, SARAHAAN
INDO TIBETAN BORDER POLICE

SHRI MAHESH CHANDRA SHARMA
GROUP COMMANDER
TRAINING CENTRE, MANESAR GURGAON, HARYANA
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI BALBIR SINGH
ASSISTANT COMMANDER-II (M)
HQRS, MEHRAM NAGAR, NEW DELHI
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI VIJAYAN ITTEDATH
ASSISTANT COMMANDER-I (MIN)
HQRS, MEHRAM NAGAR, NEW DELHI
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI LIL BAHADUR SHRESTHA
ASSISTANT COMMANDER-I(GD)
12 SRG, MANESAR, GURGAON, HARYANA
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI MOTI LAL SHARMA
ASSISTANT COMMANDER-I (MIN)
HQRS, MEHRAM NAGAR, NEW DELHI
NATIONAL SECURITY GUARD

SHRI BASANT BALLABH JOSHI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
SHQ, RANIDANGA
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI KUMAR PAL SINGH
COMMANDANT
5TH BN LAKHIMPUR KHERI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI RAJENDRA SINGH RANA
ASSISTANT DIRECTOR
FHQ, NEW DELHI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI HARISH CHANDRA JOSHI
ASSISTANT COMMANDANT
16TH BN
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI NAROTAM DEV
INSPECTOR
38TH BN, TAWANG, ARUNACHAL PRADESH
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI JAYANTA KUMAR LODH
SUBEDAR MAJOR (PA)
FHQ, NEW DELHI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI GHAN SHYAM JOSHI
EXECUTIVE ENGINEER
FRONTIER HQRS, GUWAHATI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI SAILENDER SINGH
SUB INSPECTOR
31ST BN, GOSSAIGAON,
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI SHYAM SINGH
INSPECTOR GENERAL
FRONTIER HQRS, PATNA
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI K.M. CARIAPPA
ASSISTANT DIRECTOR
FHQ DELHI
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI ROOP SINGH
ASSISTANT COMMANDANT
TC SALONIBARI, ASSAM
SASHASTRA SEEMA BAL

SHRI SANJAY KUAMR MISRA
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI K. THOMAS JOB
ASSISTANT INSPECTOR GENERAL
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI M. RAMAKRISHNA
SENIOR SECURITY OFFICER (TECH)
HQRS , NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI P.S. SUDHEER KUMAR
JUNIOR SECURITY OFFICER (T)
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI GIRI RAJ SINGH
SENIOR SECURITY ASSISTANT (T)
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI SWAPAN KUMAR DEY
SENIOR SECURITY ASSISTANT (T)
HQRS, NEW DELHI
SPECIAL PROTECTION GROUP

SHRI GOPAL PRADHAN
HEAD CONSTABLE
UMSAW, UMIAM
NORTH EASTERN POLICE ACADEMY

SMT. NEELAM GERA
STENO GR.II (PA)
HQRS, NEW DELHI
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI GANESAN MURTHY
ACCOUNTANT
HQRS, NEW DELHI
BUREAU OF POLICE RESEARCH AND DEVELOPMENT

SHRI HARMOHAN SINGH GROVER
CHIPHER ASSISTANT
NEW DELHI
DIRECTORATE OF COORDINATION POLICE WIRELESS

SHRI JACOB PAUL
DEPUTY SUPERINTENDENT (FP)
NEW DELHI
NATIONAL CRIME RECORDS BUREAU

SHRI ASHOK KUMAR RAY
RESERVE INSPECTOR (LINES)
HYDERABAD
SVP N.P.A

SHRI SATYAVEER SINGH
SUB-INSPECTOR (RIDING)
HYDERABAD
SVP N.P.A

SHRI P. NAGABHUSHANAM
HEAD CONSTABLE (ADI)
HYDERABAD
SVP N.P.A

SHRI YATENDRA KUMAR GAUTAM
DEPUTY INSPECTOR GENERAL
NEW DELHI
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY

DR. NIRMAL KUMAR AZAD
DIRECTOR
PARLIAMENT BHAVAN, NEW DELHI
MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

DR. RAJESH KUMAR
PRIVATE SECRETARY TO MINISTER OF STATE
NEW DELHI
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

DR. SATYENDRA NARAYAN PANDEY
DIRECTOR
RPF, NEW DELHI
M/O RAILWAYS

SHRI SANJAY SANKRITYAYAN
DEPUTY CHIEF SECURITY COMMISSIONER
JAIPUR
M/O RAILWAYS

SHRI SARAT CHANDRA PARHI
SENIOR DIVISIONAL SECURITY COMMISSIONER
CENTRAL RAILWAY, CST, MUMBAI
M/O RAILWAYS

SHRI ATUL KUMAR SRIVASTAVA
SENIOR DIVISIONAL SECURITY COMMISSIONER
VADODARA, GUJARAT
M/O RAILWAYS

SHRI RANVEER SINGH CHAUHAN
DEPUTY CHIEF SECURITY COMMISSIONER
ALLAHABAD
M/O RAILWAYS

SHRI KAILASH SINGH CHAUHAN
INSPECTOR/RPF
PRATAPNAGAR, VADODARA DIVISION
M/O RAILWAYS

SHRI W.S. VIJAYARANGAM
INSPECTOR/CIB
ICF/CHENNAI
M/O RAILWAYS

SHRI KILAR SINGH DAGAR
INSPECTOR
9TH BATTALION, RPSF, JAGADHRI WORKSHOP,
HARYANA
M/O RAILWAYS

SHRI DHANURJAY TARAI
SUB INSPECTOR
7 BN, RPSF, MOULA – ALI
M/O RAILWAYS

SHRI SHAIK MASTHAN VALI
ASSISTANT SUB-INSPECTOR
SPECIAL INTELLIGENCE BRANCH
SCR, SECUNDERABAD
M/O RAILWAYS

SHRI RAM SEVAK DHYANI
ASSISTANT SUB INSPECTOR
SR. S.C., OFFICE ALLAHABAD.
M/O RAILWAYS

SHRI BECHAI RAM YADAV
ASSISTANT SUB-INSPECTOR/RPF
NCR, HQR, ALLAHABAD
M/O RAILWAYS

SHRI CHAMAN PRASAD SHERSTHA
HEAD CONSTABLE
DSC RESERVE COMPANY/R
DISTRICT RAIPUR, CHATTISHGARH
M/O RAILWAYS

SHRI ZAHUR HAIDAR ZAIDI
DEPUTY INSPECTOR GENERAL/
PS TO MOS FOR RAILWAYS.
RAIL BHAWAN, NEW DELHI
M/O RAILWAYS

2. These awards are made under rule 4(ii) of the rule governing the grant of Police Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 16th March 2010

No. 4/1/RCC-09—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been nominated to serve as Members of the Parliamentary Committee to review the rate of dividend payable by the Railway Undertaking to General Revenues as well as other

ancillary matters in connection with the Railway Finance vis-a-vis the General finance :—

MEMBERS OF LOK SABHA

1. Shri Hansraj Gangaram Ahir
2. Dr. Baliram
3. Shri Marotrao Sainuji Kowase
4. Shri P. Balram Naik
5. Shri R. K. Singh Patel
6. Shri Ramsinh Rathwa
7. Shri Arjun Roy
8. Shri C. L. Ruala
9. Shri Arjun Charan Sethi
10. Shri Radha Mohan Singh (Purvi Champaran)
11. Shri K. C. Venugopal
12. Dr. Girija Vyas

MEMBERS OF RAJYA SABHA

13. Shri Shyamal Chakraborty
14. Shri A. Elavarasan
15. Shri Parvez Hashmi
16. Shri Rama Chandra Khuntia
17. Shri Ranjitsinh Vijaysinh Mohite-Patil
18. Shri Shreegopal Vyas

2. The Speaker has appointed Shri Arjun Charan Sethi as the Chairman of the Committee.

ABHIJIT KUMAR
Director